

साहित्य-समीक्षा



लेखक

कालिदास कपूर, एम० ए०, एल० टी०



प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

पृष्ठ]

१९२६

[मूल्य ॥१]

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
—हिंदी और उर्दू का विरोध	१
।—समालोचना	१३
।—रामचरितमानस का महत्त्व ✓	२२
।—हिंदी में नाटक और अभिनय	३६
।—सत्य-हरिश्चंद्र-नाटक	४३
।—द्विजेंद्र-नाटकावली	४६
।—हिंदी में उपन्यास-साहित्य ✓	८०
।—सेवासदन	८४
।—प्रेमाश्रम	९४
।—रगभूमि	११०
।—छड़ी	१२०

निवेदन

प्रस्तुत लेख-संग्रह में 'समालोचना' शीर्षक लेख छोड़कर अन्य सब साहित्यिक लेख किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी-साहित्य में पश्चिमी शैली के आलोचनात्मक ग्रंथों की बहुत कमी है। संग्रहीत लेखों में इस शैली अनुसरण करने का प्रयत्न किया गया है। इसी लिए लेखक ने इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करने का साहस किया है।

लेखक ने हिंदी लिखना पूज्यवर पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी से ही सीखा है। आप ही ने उसके लिए हिंदी साहित्य-सेवा का एक विशेष मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। गुरु-मृग से मुक्त होना तो असंभव है। हाँ, उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए लेखक अपना भार अवश्य हलका करना चाहता है।

कालिदास कपूर

साहित्य-समीक्षा

१—हिंदी और उर्दू का विरोध

हिंदी और उर्दू का विरोध कुछ कम होता नहीं दिखाई जा। कौंसिल की स्पीचें और दोनों तरफ के समाचार-पत्रों वाद-विवाद के अनुशीलन से तो यही प्रतीत होता है कि हिंदी और उर्दू का प्रश्न, कहीं ऐसा न हो, हमारी राजनैतिक नीति में बाधा डाले। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि दोनों पक्षों के विद्वान् आपस में मिल कर यह प्रश्न हल कर लें। जब हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनैतिक झगडों पर समझौता करने का प्रयत्न हो रहा है, तो उनके बीच जो भाषा-विषयक झगडा है उसका भी अंत करना चाहिए। देश इस समय एकता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, और साहित्य-प्रेमियों की उदारता और सहृदयता पर हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए हमें आशा है कि यदि दोनों पक्ष के विद्वान् सम्मिलित होकर समझौते का यत्न करें, तो सफलता हो सकती है।

सच पूछिए तो हिंदी और उर्दू का वास्तविक कोई विरोध नहीं। क्या दोनों अलग अलग भाषाएँ हैं? दोनों भाषाएँ खसने और पढनेवालों को अपने विचार एक दूसरे से बोल

कर प्रकट करने में कठिनाई नहीं पडती। तो फिर वे अलग अलग क्योंकर हैं ? लखनऊ, दिल्ली और आगरे में जो भाषा बोली जाती है वह प्रायः एक ही है। उसमें फारसी और अरबी भाषा के शब्द ठेल दिये और उसको फारसी-लिपि में लिखने लगे तो वह उर्दू हुई, और उसके जो शब्द गवारू समझे गये उनकी जगह सस्कृत के शब्द मिला दिये गये, पर लिखी जाती रही पहले की तरह देवनागरी लिपि में ही, उसका नाम होगया हिंदी। भेद केवल लिपि और शब्दों का है, भाषा का नहीं।

दुर्भाग्यवश यह भेद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। न तो पुरानी उर्दू इतनी छिष्ट थी और न हिंदी ही। पुराने जमाने में मुसलमान और हिंदू लोग दोनों भाषाओं के साहित्य-भाण्डार भरने के लिए प्रयत्न करते थे। किसी समय हिंदी के कवि-समाज में जायसी के सदृश मुसलमानों के लिए भी उच्च स्थान था, और उर्दू के मुशायरों में तो अभी तक नानकचंद जैसे लखनवी अपना सानी नहीं रखते। परंतु इतना मानना पड़ेगा कि अब उस एकता में कमी हो रही है। इसका उत्तरदाता साधारण जन-समाज नहीं। क्योंकि पत्रिकाओं और पुस्तकों के बाहर जो सत्कार है उसमें तो एक ही भाषा है। भेद तो उन्हीं सज्जनों का साहित्य-सेवा का फल है जो अपने अपने साहित्य की सेवा में धन-मन-धन से लगे हुए हैं।

भारतीय भाषाओं के आधुनिक साहित्य में एक मार्के की बात यह है कि उसकी भाषा जन-समाज की भाषा से बहुत कुछ भिन्न है। यो तो थोडा बहुत अंतर प्रत्येक देश के साहित्य में मिलेगा, परंतु इतना अधिक भेद शायद ही कहीं हो। इसके कई कारण हैं। उनमें से मुख्य कारण यह है कि भारत का जन-समाज अपने साहित्य से बहुत कम परिचित है। इसलिए उसका प्रचार अधिक नहीं होने पाता। परंतु जिस समय हमारी सरकार तथा जन-समाज अपने प्रयत्न से इस साहित्य से परिचित हो जायेंगे, उस समय यह भेद बहुत कम हो जायगा।

हिंदी और उर्दू-साहित्य का भी यही हाल है। परंतु प्रायः हिंदी में यह भेद उर्दू से कहीं अधिक मात्रा में है। भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक ढूँढ डालिए, कदाचित् दर्जन भर से अधिक ऐसे सज्जन न मिलेंगे जो अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकें कि सम्मेलन की हिंदी हमारी मातृ-भाषा है, अर्थात् वे बचपन से वही भाषा बोलते चले आ रहे हैं। परंतु पाठक विश्वास न करेंगे, दिल्ली, आगरे और लखनऊ के नवाबों और काश्मीरियों तथा कायस्थों के ऊँचे घरानों के विषय में कौन कहे, छोटे घरों की स्त्रियाँ तक फिसाने-आजाद, और अवध-अखबार की उर्दू बोलती हैं। यही कारण है जो उर्दू-साहित्य, इतनी कठिन लिपि में लिखे जाने पर भी, इतना प्रचलित है—यद्यपि हिंदी के सामने

उसका बल घट रहा है—और हिंदी-साहित्य, देवनागरी के सदृश सर्वमान्य लिपि में लिखे जाने पर भी, जन-समाज में यथेष्ट उन्नति नहीं कर पाया है। यदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो आज-कल की नाटक-मडलियों की भाषा की ओर ध्यान दीजिए। क्या उनकी भाषा हिंदी है? यदि उनके नाटकों की भाषा साधारण जन-समाज को प्रिय न होती तो वे क्योंकर लाभ उठा सकतीं और क्यों न उनके नाटक हिंदी में लिखे जाते? तुच्छ नौटकियों की भाषा में भी जिनका प्रचार आज अभाग्यवश इस प्रांत के बहुत से जिलों में है, फारसी-शब्द अधिकतर पाये जाते हैं, यद्यपि इनका प्रकाशन देवनागरी लिपि में होता है। बहुत से गदे उपन्यासों की भाषा भी छिष्ट हिंदी से बहुत कुछ भिन्न है। सत्तप में यों कहिए कि साहित्य-संसार में जिस हिंदी का अधिक मान है उससे जन-समाज को उतना प्रेम नहीं है।

भाषा-भेद तो साहित्य-सेवियों का पैदा किया हुआ है, परंतु लिपि-भेद की जड़ बहुत गहरी है। मुसलमानों ने उत्तरी भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापन करके अपनी फारसी लिपि का प्रचार किया। जब तक उनका प्रभुत्व रहा और जिन जिन प्रांतों में वह अधिक रहा उन्हीं में इस लिपि का प्रचार रहा। राज-नैतिक दबाव के घटने पर देवनागरी-लिपि, जो फारसी-लिपि से सर्वथा श्रेष्ठ है, फिर से अपना सिका जमाने लगी। अभी तक फारसी-लिपि जो भारतवर्ष से हटो नहीं, इसके कई कारण हैं।

एक तो यह कि पञ्जाब और सयुक्त-प्रांत की अदालतों और सरकारी महकमों में अभी तक उसका अखड राज्य है। इसमें सरकार का भी अधिक दोष नहीं। क्योंकि कम से कम उत्तरी भारत में तो मुगल-राज्य ही के खँडहरों पर उसने अपनी शासन-पद्धति का भवन लड़ा किया है। दूसरे, फारसी-लिपि के प्रचलित रहने से कुछ लोगों की स्वार्थ-सिद्धि भी है। यदि वह एक-दम उठा दी जाय तो कितने ही मुशियो की रोटी में बाधा पडे। तीसरे, मुसलमानों की हठ-है कि फारसी-लिपि चाहे जितनी दृषित क्यों न हो, उनको अधिकार में पडे रहने में उसने चाहे जितनी सहायता दी हो, परंतु वह उनकी जातीय लिपि है और वे उसे न छोडेंगे—जैसा, थोडे दिन हुए, वे कहा करते थे कि तुर्की और फारस उनका देश है। समय ने उनके राजनैतिक विचार बदल दिये हैं, और यदि ईश्वर को इस जाति का भला करना है तो उनकी यह हठ भी दूर हो जायगी। उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि जातीय भाषा तथा लिपि को, देश-काल के अनुसार, परिवर्तित करने से लाभ ही लाभ है, हानि जरा भी नहीं। भाषा या लिपि के बदलने से किसी जाति या धर्म की हानि नहीं हो सकती। पारसियों को देखिए, इतने अल्प-संख्यक होने तथा दूसरी भाषा और लिपि का आश्रय लेने पर भी क्या वे धर्मच्युत होगये? आपके पूर्वजों ने फारसी और अरबी छोड कर जब भारतीय भाषाओं का आश्रय लिया तब आप उस पुरानी लिपि की लकीर के फकीर क्यों हो रहे हैं ?

उसका बल घट रहा है—और हिंदी-साहित्य, देवनागरी के सदृश सर्वमान्य लिपि में लिखे जाने पर भी, जन-समाज में यथेष्ट उन्नति नहीं कर पाया है। यदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो आज-कल की नाटक-मडलियों की भाषा की ओर ध्यान दीजिए। क्या उनकी भाषा हिंदी है? यदि उनके नाटकों की भाषा साधारण जन-समाज को प्रिय न होती तो वे क्योंकर लाभ उठा सकतीं और क्यों न उनके नाटक हिंदी में लिखे जाते? तुच्छ नौटकियों की भाषा में भी जिनका प्रचार आज अभाग्यवश इस प्रांत के बहुत से जिलों में है, फारसी-शब्द अधिकतर पाये जाते हैं, यद्यपि इनका प्रकाशन देवनागरी लिपि में होता है। बहुत से गदे उपन्यासों की भाषा भी छिट्ट हिंदी से बहुत कुछ भिन्न है। सत्तेप में यों कहिए कि साहित्य-संसार में जिस हिंदी का अधिक मान है उससे जन-समाज को उतना प्रेम नहीं है।

भाषा-भेद तो साहित्य-सेवियों का पैदा किया हुआ है, परंतु लिपि-भेद की जड़ बहुत गहरी है। मुसलमानों ने उत्तरी भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापन करके अपनी फारसी लिपि का प्रचार किया। जब तक उनका प्रभुत्व रहा और जिन जिन प्रांतों में वह अधिक रहा उन्हीं में इस लिपि का प्रचार रहा। राज-नैतिक दबाव के घटने पर देवनागरी-लिपि, जो फारसी-लिपि से सर्वथा श्रेष्ठ है, फिर से अपना सिका जमाने लगी। अभी तक फारसी-लिपि जो भारतवर्ष से हटी नहीं, इसके कई कारण हैं।

एक तो यह कि पंजाब और सयुक्त-प्रांत की अदालतों और सरकारी मद्दकर्मों में अभी तक उसका अखंड राज्य है। इसमें सरकार का भी अधिक दोष नहीं। क्योंकि कम से कम उत्तरी भारत में तो मुगल-राज्य ही के खंडहरों पर उसने अपनी शासन-पद्धति का भवन खड़ा किया है। दूसरे, फारसी-लिपि के प्रचलित रहने से कुछ लोगों की स्वार्थ-सिद्धि भी है। यदि वह एक-दम उठा दी जाय तो कितने ही मुशियों की रोटी में बाधा पड़े। तीसरे, मुसलमानों की हठ है कि फारसी-लिपि चाहे जितनी दूषित क्यों न हो, उनको अधिकार में पड़े रहने में उसने चाहे जितनी सहायता दी हो, परंतु वह उनकी जातीय लिपि है और वे उसे न छोड़ेंगे—जैसा, थोड़े दिन हुए, वे कहा करते थे कि तुर्की और फारस उनका देश है। समय ने उनके राजनैतिक विचार बदल दिये हैं, और यदि ईश्वर को इस जाति का भला करना है तो उनकी यह हठ भी दूर हो जायगी। उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि जातीय भाषा तथा लिपि को, देश-काल के अनुसार, परिवर्तित करने से लाभ ही लाभ है, हानि जरा भी नहीं। भाषा या लिपि के बदलने से किसी जाति या धर्म की हानि नहीं हो सकती। पारसियों को देखिए, इतने अल्प-संख्यक होने तथा दूसरी भाषा और लिपि का आश्रय लेने पर भी क्या वे धर्मच्युत होगये? आपके पूर्वजों ने फारसी और अरबी छोड़ कर जब भारतीय भाषाओं का आश्रय लिया तब आप उस पुरानी लिपि की लकीर के फकीर क्यों हो रहे हैं?

हिंदी-साहित्य सर्वसाधारण के लिए कठिन होने पर भी, देवनागरी के सत्संग के कारण, दिन दिन उन्नति कर रहा है। उसकी भाषाविषयक छिष्टता दूर कर देने से क्या उसकी उन्नति वेगवती न हो जायगी ? और कारण चाहे जो कुछ हो, परंतु सबसे बड़ा कारण, जो हिंदी-उर्दू के बीच में भगडा डाले हुए है, यह है कि आधुनिक हिंदी सस्कृत की बहिन बनना चाहती है। सरलता का होना तो हिंदी-साहित्य-समाज में माना बड़ा भारी दोष समझा जाता है। यदि सस्कृत के शब्द कूट कूट कर भरे हो, तो चारो ओर से धन्य धन्य की ध्वनि आने लगती है। परंतु यदि लैपक ने प्रचलित फारसी या अँगरेजी-शब्दों का थोड़ा भी प्रयोग किया तो वह भाषा को अशुद्ध बनाने का दोषी समझा जाता है। शुद्धता का अर्थ क्या यह है कि भाषा में सस्कृत को छोड़ कर और किसी भाषा का अंश न हो ? जैसे कोई अँगरेजी के लिए यह कहे कि उसमें लैटिन को छोड़कर और किसी भाषा के शब्द प्रचलित न होने पावे। परंतु ऐसी शुद्धता का स्थिर रखना समय की तीव्र धारा के सम्मुख अपनी टाँग अडाना है। यह शुद्धता-भ्रम भाषा के विकास का बाधक है।

विचार प्रकट करने के लिए भाषा की उत्पत्ति हुई है। जो जो रंग भाषा ने अपने विकास में बदले हैं उन्हें हम, सक्षिप्त रूप में, बाल-भाषा के विकास में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। पहले पहल, मनुष्य-जाति के विचार बहुत समीप थे। ज्यों

ज्यो मनुष्य का ससर्ग अपने भाइयों से बढ़ता गया त्यों त्यों उसकी विचार-परिधि भी बढ़ती गई। तब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसको शब्दों की आवश्यकता हुई। जिन विकासों के द्वारा यह विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हुए उनको उसने तदनुरूप शब्दों में प्रकट किया। इससे उसकी भाषा के शब्दों की संख्या बढ़ती रही। नये शब्द पहले तो कुछ समय तक खलते रहे, वे आगतुक समझे जाते रहे। ठीक उनकी वही दशा रही जो किसी जाति-समूह की नये देश में बसने पर होती है। परंतु भाषा के साथ रहते रहते वे शब्द उसी भाषा में फरने लगे। किसी देश के निवासियों के मस्तिष्क और भाषा में तो नये विचारों तथा नये शब्दों को स्थान पाने में देर लगती है और कहीं कहीं वे बड़ी जल्दी अपना लिये जाते हैं। यह जलवायु के प्रभाव का फल है। परंतु यह प्रायः देखा जाता है कि जिन देशों में सभ्यता उच्च स्थान पाकर पुरानी पड़ जाती है उनमें, जीर्ण मनुष्यों की तरह, नये विचारों से चिढ़ हो जाती है, उनमें घमंड की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने साहित्य, अपनी सभ्यता, अपने बल और अपनी विद्या के सामने अन्य सबको तुच्छ समझने लगते हैं।

यही दशा भारतवर्ष की है। जिस समय समस्त ससार अविद्याधकार में पड़ा हुआ था, उस समय आर्यावर्त उच्च-विचार-पूर्ण वेद-ध्वनि से गूँज रहा था। परंतु अभाग्यवश, भारतवर्ष में पैर रखते ही, आर्यजाति को अधकार में पड़ी हुई

कोल-भील-जातियों का सामना करना पड़ा। उसने अपने विचार और भाषा को शुद्ध रखने के लिए मस्तिष्क के कपाट बंद कर लिये। बस, उसी समय से वेदभाषा का हास होने लगा। उस समय तक वेदभाषा और सर्व-साधारण की भाषा में कोई अंतर न था। इस परिवर्तन के साथ साथ यह अंतर बढ़ने लगा। सर्वसाधारण की भाषा में अनार्य शब्द बढ़ने लगे, यहाँ तक कि आर्यभाषा के साहित्य-सेवियों को उसका स्कार करना पड़ा। उस स्कार की हुई अर्थात् सस्कृत-भाषा में भी अब ढेरों अनार्य शब्द आ गये। अर्थात् उसकी भी वे शुद्ध दशा में स्थिर न रह सके। जो इस विषय के ज्ञाता हैं वे बता सकते हैं कि पाणिनि-काल से कालिदास के समय तक, व्याकरण के कड़े बंधन से जकड़े रहने पर भी, सस्कृत के शब्द-भांडार में कितना अंतर आगया। भोज के समय तक यवन, शक तथा हूण-जाति की भाषाओं के कितने ही शब्द उसके विशाल मंदिर में घुस आये, यद्यपि उनको इसमें बहुत कुछ कठिनाई पड़ी होगी। मुसलमान-काल से तो सस्कृत का प्रचार बहुत ही कम होगया। चौके की तो वह पहले ही से पावद थी, अब राजकीय अत्याचार के सामने उसने महलों से भाग कर काशी और नदिया के भोपड़ों में शरण ली। वहाँ उसकी टीका-टिप्पणी के सिवा और क्या हो सकता था। ऐसी दशा में यदि उसमें फारसी के शब्द न आये तो आश्चर्य ही क्या। क्या मृतप्राय

शरीर में भी नये रक्त का संचार हो सकता है ? अब अँगरेजी शासन के समय से फिर इस महती भाषा के जीर्णोद्धार का प्रयत्न हो रहा है । भारतवर्ष में ही नहीं, किंतु योरप और अमरीका में भी अब उसने उच्च श्रेणी का स्थान पा लिया है । परंतु इससे उसके भाडार में वृद्धि नहीं हो सकती । और भाषाओं को उससे चाहे जो कुछ लाभ पहुँचे, परंतु वह उनसे कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकती ।

भारतवर्ष की वर्तमान भाषाओं का इतिहास उस समय से आरंभ होता है जिस समय से संस्कृत का अंत होता है । यह कहना कि वे संस्कृत-भाषा से निकली हैं कुछ ही दूर तक सत्य है । हाँ, यह कहना ठीक होगा कि उन सबका थोड़ा बहुत सन्ध संस्कृत से अवश्य है । इन सब भाषाओं में प्रथम ही से सर्वोच्च स्थान उसको मिला जो दिल्ली से लेकर बिहार तक बोली जाती थी । इसके दो कारण थे । एक तो यह कि प्राचीन समय में अयोध्या, पाटलिपुत्र तथा इद्रप्रस्थ आर्य-सभ्यता के केंद्र थे । वहीं से समस्त भारतवर्ष का शासन होता था । वहीं से नवयुवक शासन नीति की शिक्षा पाकर भिन्न भिन्न प्रांतों का शासन करते थे । उन्हीं की राज-भाषा सीख कर उन प्रांतवालों को कार्य-साधन करना पड़ता था । यही दशा मुसलमान-काल में रही । तब से दिल्ली और आगरा शासन के केंद्र हो गये और दिल्ली की भाषा राज-भाषा हो गई । दूसरा कारण यह था कि भारत के इस भाग

में, प्राचीन समय से, आर्य तथा बौद्धधर्म के तीर्थ-स्थान हैं। काशी की गलियों में ही—विश्वनाथजी के मंदिर में ही—खड़े होकर आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हिंदी ही राष्ट्र-भाषा होने के योग्य है। मद्रासी, महाराष्ट्र, बंगाली, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, सभी एक सूत्र से बँधे चले आ रहे हैं। दिल्ली में भी वही रगत है—यहाँ ससार-सुख के लिए और वहाँ स्वर्ग-सुख के लिए—परंतु परिणाम एक ही निकलता है। भारतवर्ष में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ दिल्ली और काशी की हिंदी लोग न समझ सकें और आपका काम आप ही की भाषा के द्वारा न चल सके।

उस हिंदी-भाषा का क्या रूप है जो दिल्ली से पढ़ने तक बोली जाती है ? क्या उसमें संस्कृत और फारसी के शब्दों की उसी तरह भरमार है जैसी कि, अभाग्यवश, आज-कल हिंदी और उर्दू-साहित्य में देखी जाती है ? संस्कृत और फारसी से निकले हुए अर्थात् तद्भव शब्द अलबत्ते उसमें हैं, उन्हीं भाषाओं के जैसे के जैसे—तद्भूतु या तत्सम—शब्द नहीं। ऐसे शब्द तो, आँख के ककड़ की तरह, खटकते हैं। इस भाषा में शब्दों को समय के प्रवाह ने पुरानी भाषाओं के खँडहरों को तोड़ कर, स्वाभाविक रूप दे दिया है। साहित्य की भाषा में उसके कुछ सेवियों ने इन पुरानी भाषाओं के खँडहरों को तोड़ कर—समय का काम अपने हाथ में लेकर—अपनी बुद्धिमानी दिखाई है। इन्होंने यही नहीं किया कि उन शब्दों को जैसे का तैसा रख

दिया हो, किंतु बहुतेरे तो अपनी बुद्धिमत्ता यहाँ तक दिखाते हैं कि वे व्याकरण-सबध को भी टूटने नहीं देते। 'जरूरत' का बहुवचन उर्दू के सेवक 'जरूरतें' न करेंगे, वे फारसी का बहुवचन 'जरूरयात' लिरेंगे। हिदी के दरवार में भी सस्कृत के सधि और समास-सबधी नियम, उसी रूप में, आदर पाते हुए दिखाई देते हैं।

यह उर्दू-फारसी और हिदी-सस्कृत का ढकोसला कब तक चलेगा ? समय ने अंगरेजी के पुराने साहित्य को इस आन को तो रखा ही नहीं कि लैटिन के शब्द अंगरेजी में अपने ही रूप में रहें। अब तो सब शब्दों का निराला ही रग है, चाहे जिस भाषा से वे निकले हों। यही दशा वर्तमान हिदी-उर्दू-साहित्य की होनेवाली है। समय से लड कर किसी को भी सफलता हुई है ? वह इन शब्दों को—चाहे जिस भाषा से वे इस समय नाता जोडे हो—एक ही रग में रँग देगा और भविष्य की राष्ट्रभाषा का रूप न तो हिदी ही होगा, न उर्दू ही। वह एक ऐसी भाषा होगी जिसमें वर्तमान समय की सब भाषाओं का कुछ न कुछ अश अवश्य रहेगा। राष्ट्र-लिपि देवनागरी ही होगी, चाहे उसका रूप, और लिपियों के ससर्ग से, कुछ बदल जाय। फारसी-लिपि को अकेले सब लिपियों से लडना है। वह भारतवर्ष के लिपि-युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकती। उसको अपना बस्ता बाँध कर फारस और अफगानिस्तान की शरण लेनी पडेगी। उर्दू और फारसी-लिपि के लिए मुसलमान

चाहे जितनी हठ करें, परंतु समय उनकी बुद्धि को बढ़ा देगा, यदि ईश्वर को उनका वर्तमान महत्त्व बनाये रखना है हिंदी-साहित्य संस्कृत के घर बैठ कर फारसी के विरुद्ध चाहे जितना मजबूत कोट खोचे, परंतु समय उसको तोड़ डालेगा और फारसी के शब्दों को उसमें अवश्य स्थान मिलेगा, परंतु अपने रूप में नहीं, हिंदी ही का अँगरेजी पहन कर वे राष्ट्र-भाषा के दरबार में आदर पा सकेंगे, न कि फारसी की फेरी पहन कर ।

समय की गति को अच्छी तरह पहचान कर जब दोनों पक्षों के विद्वान् अपनी हठ छोड़ देंगे और आपस में बैठ कर विचार करेंगे, फिर वे जो कुछ ठीक समझें उसको कार्य-रूप में परिणत करेंगे, तभी भारतवर्ष का भला होगा* ।

* यह लेख अगस्त १९१८ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ था गुरुवर द्विवेदीजी ने इस पर जो पत्र लिखा था वह यों ही —मेरी भविष्य की राय है जो आपकी है । मैं तदनुसार बर्ताव भी करता हूँ । सरस्वती लिखने की चेष्टा करता हूँ । उर्दू भिन्न भाषा नहीं । अरबी-फारसी के जो शब्द प्रचलित हैं, उन्हें मैं हिन्दी के ही शब्द समझता हूँ । मेरे लेख इस बात के प्रमाण हैं । पहले लोग लिखा करते थे, कहते थे कि हिन्दी को विगाड़ रहा है । पर अब नहीं धोल्ते । और लोग मैं 'सरस्वती' का अनुकरण करने लगे हैं ।

२—समालोचना*

हिंदी-साहित्य अब उस सीमा तक पहुँच गया है कि विशेषज्ञ समालोचकों के बिना उसकी गति को ठीक रखना कठिन है। साहित्यकानन इतना विस्तृत हो गया है कि अच्छे साहित्य-श्रुतों की रक्षा के लिए अब कई साहित्यिक मालियों की आवश्यकता होगई है, जो होनहार और उपयोगी साहित्य-पल्लवों की सेवा करें और दूषित दुरुपयोगी साहित्य-जगल को साफ करते रहें।

कोई समय था जब हिंदी में इने-गिने साहित्य-रत्न थे। जनता में इनका आदर था। परंतु इनकी परर करनेवाले बहुत कम थे। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, केशवदास,

* 'समालोचना' शीर्षक लेख 'सरस्वती' में मेरा सर्व प्रथम लेख था। पूज्यवर द्विवेदीजी के पत्र का प्रथम वाक्य था "आप तो पढोस ही में छिपे रुस्तम निकले।" द्विवेदीजी ने दिसम्बर १९१७ की 'सरस्वती' में 'समालोचना का सत्कार' शीर्षक लेख प्रकाशित किया था। मेरे लेख में संपादकीय लेख का बहुत कुछ प्रतिवाद था और विचार कच्चे थे; परंतु उदारता देखिए! सहर्ष प्रकाशित कर दिया और आज्ञा दी कि आलोचनात्मक लेख भेजो। यों आपन हिंदी-साहित्य-सेवा का मार्ग मेरे लिए निदिष्ट कर दिया। प्रस्तुत लेख पहली बार प्रकाशित हो रहा है।

भूषण—इनके अतिरिक्त अन्य साहित्यिकों का रघोत समान जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश था—अधिक नहीं।

शांति, विद्या-प्रचार और छापेखानों की बढ़ती अवधि-साहित्य में अनेक प्रतिभाशाली कवि, इतिहासज्ञ, उपन्यास-लेखक और नाट्यकार जन्म लेने लगे हैं, साथ ही ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी हैं जिनके प्रचार से जनता की सामाजिक और नैतिक हानि होने की संभावना है, जो नवयुवकों के हाथ लग कर उनके विचारों में विकार उत्पन्न करती हैं। साहित्यिक त्रिमूर्ति में इस समय ब्रह्मा का ही खूब जोर है। साहित्य-सृष्टि तो धड़ल्ले से हो रही है। परंतु साहित्य-विष्णु लक्ष्मी की गोद में सो रहे हैं, और साहित्य-शिव सचेत तो अवश्य होगये हैं, परंतु संहारकारी गणों को अभी एकत्र नहीं कर पाये हैं।

देश में जहाँ साहित्य था, उसके साथ उसके समालोचक भी थे। परंतु इनकी समालोचना का ढंग उस समय के लिए ही योग्य था। उस समय साहित्य की रचना साधारण जनता के लिए नहीं होती थी। इने-गिने साहित्य-प्रेमी राजाओं और रईसों के दरबारों में ही कवियों और नाट्यकारों की प्रतिष्ठा थी। इसलिए न कवियों की यह परवाह थी कि हमारी रचनाओं का जनता पर क्या प्रभाव होगा, और न उनके समालोचकों की ही सामाजिक दृष्टि-कोण से इन रचनाओं के परखने की आवश्यकता थी। फल यह हुआ कि

प्राचीन संस्कृत की आलोचना-पद्धति में अलंकार-भेद, पिगल, और भाषा सबधी गुण या अवगुण—प्रासादगुण, रूपक, शब्द-गौरव या व्याकरणणीय निरकुशता—इन्हीं का समावेश था। मुसलमानकाल में भक्ति-मार्ग के उपासकों ने जो साहित्य-रचना की, वह अवश्य जनता के लिए थी। जनता ने उसका खूब आदर किया—तभी तो कबीर की साखियाँ, सूरदास के पद, और तुलसीदास की चौपाइयाँ हिंदी-संसार में इतनी प्रचलित हैं। परंतु जनता ने आनंद उठाना जाना। 'गिरा अनयन नयन विनु बानी' कहकर ही सबने सतोष किया।

देश में अंगरेजी राज्य फैला। हमने एक विदेशी साहित्य से परिचय प्राप्त किया। उसके नवीन सौंदर्य ने हमें चकित कर दिया। साये के सामने हम सेंदूर के सौंदर्य को तुच्छ समझने लगे। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के सामने कालिदास और तुलसीदास की आभा हमें फीकी मालूम पड़ने लगी। उधर हमारे ससर्ग से विदेशियों ने हमारे साहित्य को भी दर्शन किये। हम तो उनके साहित्य की कुछ सच्ची परख न कर सके, और करते भी तो हमारी कान सुनवा। परंतु उन्होंने हमारी आँखें अवश्य खोल दीं। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साहित्य पर लट्टू हो रहे हो। अपने साहित्य को तो देखो। कालिदास, सूरदास, और तुलसीदास तुम्हारे देश के ही नहीं—संसार के साहित्य-रत्न हैं।

अब हम अपने साहित्य-रत्नों का आदर करने लगे हैं, परंतु उनकी यथेष्ट सेवा करने का हमें गौरव अभी नहीं प्राप्त हुआ है। तुलसीदास की अनेक टीका-टिप्पणियाँ हो चुकी हैं। तुलसीदास की कई जीवनियाँ निकल चुकी हैं। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ मरे, कब मरे, किस जाति के थे, गुरु कौन थे ? इन सब पर तो प्रकाश डाला गया है। रचनाओं की भी पुराने ढंग पर खूब आलोचना हुई है। उनके शरीर और कविता के बाह्य रूप की भी परत की गई है, परंतु उन दोनों के भीतर जो कवि का हृदय है, उसकी जीवनी अभी तक नहीं लिखी गई है। डाक्टर वेणी-प्रसादजी ने संक्षिप्त सूरसागर की भूमिका में सूरदास के साहित्यिक जीवन पर जो प्रकाश डाला है, उसे छोड़ कर और कहाँ सूरदास की आत्मा के दर्शन नहीं मिलते। अब विश्व-विद्यालयों में भी हिंदी को आदर मिलने लगा है। इसलिए आशा है कि हमारे हिंदी-स्नातकों में से कुछ उत्साही और सहृदय नवयुवक अपने साहित्य-रत्नों की समालोचना करने का भार अपने सिर लेंगे।

लेखक को मुजफ्फरपुर के साहित्य-सम्मेलन की नवयुवक-मंडली का कुछ अनुभव हो चुका है। इसलिए चेतावनी देना भी आवश्यक है। रस्किन ने एक जगह अपने नवयुवक पाठकों को सलाह दी है कि यदि आपको किसी नामी साहित्यिक की रचना फीकी मालूम पड़े, तो तुरंत ही

उसका तिरस्कार न कीजिए । उसे पढ़िए और उसका मनन कीजिए, यह सोच कर कि यदि आप इस रचना का चमत्कार नहीं देख पाये हैं, तो यह आपकी कच्ची समझ का ही दोष है । हिंदी के होनहार साहित्य-सेवियों से लेखक का भी यही विनम्र निवेदन है ।

इस समालोचना-कार्य के लिए तैयारी क्योंकर हो ? गुरुपद पाने के लिए बहुत समय तक शिष्य-कार्य करना पड़ता है । इसलिए निवेदन है कि तैयारी के समय आदरणीय साहित्यिकों की रचनाओं का ही अध्ययन किया जाय । उनकी परत के लिए समकालीन विदेशी साहित्यिकों की रचनाओं और पूर्वकालीन स्वदेशी रचनाओं से उनकी तुलना की जाय । जिस देश-काल से उन रचनाओं का संबंध हो उसकी सामाजिक अवस्था से परिचय प्राप्त किया जाय । फिर गतकालीन साहित्य पर उन रचनाओं के प्रभाव की जाँच की जाय । साहित्यिक पुरुष की जीवन घटनाओं का उसकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ता है । इसलिए उसकी जीवन-कथा का इस दृष्टि से ही अध्ययन किया जाय कि जो जो मुसीबतें उस पर बीती हैं, जो जो सुख उसने लूटे हैं, उनसे उत्पन्न मनोभाव उसकी रचनाओं में कहाँ कहाँ छिपे पड़े हैं । हम यह नहीं कहते कि अलंकार, पिगल इत्यादि जो प्राचीन आलोचन-पद्धति के अंग हैं, उनका अध्ययन न किया जाय । इन विषयों के जानकारी की भी आवश्यकता है । परंतु

इनके चकर में अधिक समय नष्ट करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन दरबारी आलोचना का समय बीत चुका, अब नवीन सामाजिक आलोचना का समय है।

अभी सहाय-कार्य के लिए शीघ्रता न कीजिए, अभी अभी समालोचकों पर ही यह भार रहने दीजिए। जब आप साहित्य की यथेष्ट सेवा कर चुकेंगे, जब आप अपने विषय विशेषज्ञ हो जायेंगे तब साहित्य-समाज आपकी सहायका आलोचनाओं का आदर करेगा, अभी नहीं।

अब कुछ निवेदन अपने उन प्रतिष्ठित साहित्य-सेवियों को है जो साहित्य को शुद्ध रखने का अधिकार रखते हैं, जो कच्चे लेखकों को साहित्य-दंगल में समय से पहले उतरने से रोकना कर सकते हैं, जो धन-लोलुप प्रकाशकों को अपने तिरस्कार-दृष्टि से हानिकारक साहित्य के बढ़ाने से रोक सकते हैं।

अँगरेजी साहित्य-संसार में ऐसे समालोचकों का पद निर्दिष्ट हो गया है। वहाँ प्रत्येक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ का यह भूमिका कर्तव्य रहता है कि अपने विषय में प्रकाशित पुस्तक की आलोचना करे। उसकी आलोचना पर ही जनता अपना राय कायम करती है। हिंदी-साहित्य में अभी यह बात नहीं है। अभी तक यहाँ तो प्रचार की ही चिन्ता फिक्र रही है। अभी तक यही धुन रही है कि

साहित्य क्षेत्र विस्तृत हो, यदि उसमें साधारण श्रेणी के या हानिकारक ग्रंथ भी हों तो कोई हर्ज नहीं। परंतु अब वह समय आगया है कि हमारे प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी साहित्य-क्षेत्र की निकाई का कार्य हाथ में ले। इस कार्य के लिए साहस और धैर्य की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि असतुष्ट लेखकों की 'प्रत्यालोचनाओं' और जनता की लापरवाही का सामना करना है। साथ ही समालोचना की शैली को भी परिमार्जित करने की आवश्यकता है।

आज-कल जो समालोचना का ढग प्रचलित है उसमें या तो किसी ग्रंथ के दोष ही दोष दिखा दिये जाते हैं, या फिर तारीफ के पुल बांध दिये जाते हैं। यह ठीक नहीं है। आलोचना में प्रकाश और छाया, गुण और अवगुण, दोनों का ऐसा समिश्रण होना चाहिए कि पाठक के हृदय में पुस्तक के प्रति तिरस्कार का भाव न आये, और लेखक का दिल न दुखे।

इस ढग की आलोचना विशेषतया साधारण श्रेणी की पुस्तकों के लिए ही हितकर है। किसी प्रतिभाशाली या उदीयमान लेखक की लेखनी से निकली हुई पुस्तक की आलोचना में विशेष सहृदयता से काम लेने की आवश्यकता है। उसकी आलोचना के लिए वही ढग की तैयारी की आवश्यकता है जो सर्व-मान्य साहित्य-रत्नों की परत के लिए निर्दिष्ट है।

रह गये ऐसे ग्रंथ जो युवक-समाज के विचारों में विकार उत्पन्न कर सकते हैं, जो समाज के नैतिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे ग्रंथों पर समालोचक को अपनी त्रिनेत्र-दृष्टि डालने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश अब ऐसे साहित्य की भी सृष्टि हो रही है जिसका सहार करना समालोचक-समुदाय का प्रथम कर्तव्य है।

अभी तक समालोचना का भार प्रायः पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों पर ही रहा है। संपादक प्रत्येक विषय के विद्वान् तो होते ही नहीं। फलतः उनके द्वारा प्रायः अच्छी पुस्तकों के भी परिचय-मात्र निकलते हैं। इस कार्य में विशेषज्ञ विद्वानों को भी हाथ बँटाने की आवश्यकता है।

अंतिम निवेदन पाठक-समाज से है। कोई समय था जब हमें आपकी परवाह न थी। राजाओं और रईसों के दरबारों में हमारी उदरपूर्ति होती थी। परंतु अब आपही हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए बहुत कुछ आपही पर निर्भर है कि हम कैसे साहित्य की सृष्टि करें। आपकी सम्मिलित समालोचना के सामने किसी व्यक्ति की समालोचना नहीं ठहर सकती। यह समालोचना आप यों प्रकट करते हैं कि अमुक पुस्तक हाथों हाथ बिक रही है या प्रकाशक की अलमारियों में शोभा दे रही है। आपकी रुचि पर हमें फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। एक विनम्र प्रश्न ही करना है। किसी देश-काल की सामाजिक अवस्था का इस बात

कौन पुस्तकें किस किस समय लिखीं, किस समय शरीर छोड़ा— ये सब बातें रुचिकर अवश्य मालूम होती हैं। परंतु यदि इन बातों का सबंध कवि के जीवन से न हो तो इनमें किसी अन्य साधारण पुरुष के जीवन-चरित की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं मालूम होती। कवि-चरित में जो विशेषता होती है वह उनके मानसिक जीवन से सबंध रखती है। अतएव यदि उनके विषय में हमें कुछ जानना है तो जो कुछ वे हमें दे गये हैं उसी से सतोष करना चाहिए। क्या जानें उन्होंने किस लिए अपने शरीर के जीवन को हमसे छिपा रक्खा। तो फिर क्यों हम उनकी इच्छा के विरुद्ध चल कर पुराने खँडहरों को तोड़े और उनके भौतिक शरीर को कट दे। हमें चाहिए कि हम उनकी मनस्तरंगों से उत्पन्न राम, हैम्लेट, ओडीसियस के सदृश वीरों को छाती से लगावें, शकुंतला, सीता हेलेन के सदृश नारीरत्नों को हृदय का शृ गार बनावें, और उन्हीं के दिव्य स्वरूप में उनके कवियों की आत्मा के दर्शन करें।

३—रामचरितमानस का महत्त्व

इस लेख में रामचरितमानस के विधाता गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-चरित के विषय में कुछ नहीं कहना है, न रामचरितमानस के अतिरिक्त उनके किसी और ग्रन्थ के विषय में विचार करना है।

संसार के कवि-समाज में तुलसीदास का ऊँचा आसन है। उनका जीवन-चरित लिखनेवालों को वही कठिनाइयाँ पडती हैं, जो शेक्सपियर के भक्तों को इंगलिस्तान में, होमर के भक्तों को यूनान में, और कालिदास, वाल्मीकि और कृष्ण के भक्तों को भारत में पडी हैं। और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि कवि के समान निःस्वार्थ जीवन संसार में किसी और का नहीं होता। कवियों का मन उनके शरीर से सवध न रख कर प्रकृति के प्रत्येक अंश में विचरता है और उसको जीवन प्रदान करता है। उसी जीवित प्रकृति को वे, कविता के रूप में, संसार के लिए छोड़ जाते हैं। उनके मनोभावों या उनकी वासनाओं को ढूँढना हो तो उनकी कविता में ढूँढो। जो महाशय उनके स्थूल शरीर के कृत्यों के विषय में खोज करते हैं, उनका वह कठिन प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है, परंतु उससे उनके विषय में जन-समुदाय को कुछ विशेष ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती। अमुक कवि किस वर्ष पैदा हुआ, कहाँ और किससे अभ्ययन किया, कौन कौन विषयों में पारदर्शिता प्राप्त की, कौन

कौन पुस्तकें किस किस समय लिखीं, किस समय शरीर छोड़ा— ये सब बातें रुचिकर अवश्य मालूम होती हैं। परंतु यदि इन बातों का संबंध कवि के जीवन से न हो तो इनमें किसी अन्य साधारण पुरुष के जीवन-चरित की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं मालूम होती। कवि-चरित में जो विशेषता होती है वह उनके मानसिक जीवन से संबंध रखती है। अतएव यदि उनके विषय में हमें कुछ जानना है तो जो कुछ वे हमें दे गये हैं उसी से सतोष करना चाहिए। क्या जानें उन्होंने किस लिए अपने शरीर के जीवन को हमसे छिपा रक्खा। तो फिर क्यों हम उनकी इच्छा के विरुद्ध चल कर पुराने खँडहरों को तोड़े और उनके भौतिक शरीर को कट दे। हमें चाहिए कि हम उनकी मनस्तरंगों से उत्पन्न राम, हैम्लेट, श्रोडोसियस के सदृश वीरों को छाती से लगावें, शकुंतला, सीता हेलेन के सदृश नारीरत्नों को हृदय का शृंगार बनावें, और उन्हीं के दिव्य स्वरूप में उनके कवियों की आत्मा के दर्शन करें।

रामचरितमानस ससार के महाकाव्यों में गिने जाने योग्य है। चीनी और जापानी भाषाओं का तो मुझे ज्ञान नहीं, परंतु जो जो महाकाव्य रामचरित-मानस के साथ स्थान पाने योग्य हैं उनके नाम सर्वसाधारण से छिपे नहीं। प्राचीन भाषाओं में कालिदास-कृत रघुवंश, वाल्मीकीय रामायण, होमर-कृत ईलियड, वर्जिल-कृत ईनियड और फिरदौसीकृत शाहनामा उच्च श्रेणी के काव्य समझे जाते हैं। आधुनिक भाषाओं

में मिल्टन का पैराडाइज लास्ट अँगरेजी में, दांते का डिवाइन कमेडी इटैलियन में और माइकेल मधुसूदनदत्त-कृत मेघनादवध बँगला में—यह काव्य उच्च पद पाने योग्य हैं। फ्रेंच और जर्मन साहित्य में नाटकों और फुटकर कविताओं की तो भरमार है, परंतु अच्छे महाकाव्यों का प्रायः अभाव ही सा है।

रामचरितमानस के महत्त्व का निर्णय इन्हीं पूर्व-निर्दिष्ट प्रथो में से करना है। इस विषय में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि हम रामचरितमानस की तुलना महाकाव्यों ही से करेंगे। कविता का एक रूप नाटक और दूसरा आख्यान है, जिसका विस्तार बढ़ने से वह महाकाव्य नाम से उल्लिखित होता है। इसलिए नाटक की तुलना महाकाव्य से करना ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि हम इन प्रथो के विशेष विशेष अंशों की तुलना एक दूसरे से न करेंगे। भाव तथा कवित्व की तुलना न तो हम करने के योग्य ही हैं, न इस छोटे-से लेख में ऐसा प्रयत्न करने से इन कवियों के काव्य-सागर में इनके भाव-रत्नों का पता ही लग सकता है। हमें विचार केवल यह करना है कि पूर्वोक्त प्रथो में से मनुष्य के हृदय में किसने कहाँ तक स्थान पाया है, और इसी प्रश्न के हल होने पर हम उसके महत्त्व का निर्णय कर सकेंगे।

किसी कविता का जीवन-काल यो स्थिर हो सकता है कि वह मनुष्य के आंतरिक अथवा मानसिक जीवन से कहाँ

तक मिलती है, कहाँ तक उससे उत्पन्न हुए भाव उसके मन से मिल जाते हैं, और कहाँ तक वे उसके जीवन को दूसरे ही रंग में रँग देते हैं। जब तक कविताओं में यह आकर्षणी शक्ति रहती है, सभी तक वे जीवित रहती हैं, उसके पश्चात् उनका अतकाल आ जाता है। चाहे वे पुस्तक-रूप में जितने समय तक रहें, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनको स्थान नहीं मिलता। बहुत-सी कविताएँ किसी विशेष देश या काल के लिए ही होती हैं। उनका जीवन उसी समय तक के लिए होता है और उनकी प्रचार-सीमा भी उसी देश या काल के अतर्गत रहती है। ऐसे कविता-रत्न थोड़े ही हैं जो सर्वत्र-व्यापी हों, जो किसी देश या काल के बधन से न बँधे हों। ऐसे ही ग्रन्थ अमर होते हैं। ये जहाँ पहुँचते हैं वहाँ मनुष्य के हृदय में स्थान पा लेते हैं, इनके जन्मदाता मानसिक जीवन को अग्र हो जाते हैं, यह किसी देश या काल के बधन से नहीं बँधे रहते।

अच्छा तो ऐसे ग्रन्थों और ज्ञान-भण्डार कविताओं के भावों में अंतर क्या है? यही कि मनुष्य के गूढ से गूढ भावों तक उनकी पहुँच होती है। कविता की रूप में अपने भावों को मनुष्य इन्हीं अमर-ग्रन्थों में पाता है, और बहुत दिन से बिछुड़े हुए मित्र एक दूसरे के गले लगते हैं।

भाषा और विषय के संयोग से महाकाव्य का जन्म होता है। भावों तक कवि चाहे जितना पहुँच गया हो,

चाहे जितना अच्छा चित्र उसने उनका खींचा हो, परंतु जिस भाषा में उसने उनको प्रकट किया है, वह यदि मनुष्य के हृदय में जीवित नहीं, यदि मनुष्य अपने प्रेम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि को उस भाषा में प्रकट नहीं करता, तो वे भाव, उस भाषा के रूप में, उसके हृदय तक नहीं पहुँच सकते और वह उन्हें पहचान नहीं सकता। इस विचार से कि वे भाव उसके पूर्वजों के हैं, कदाचित् वह उनका आदर करे और अपनी भाषा के आभरण पहना कर उनको पहचानने का प्रयत्न करे। परंतु उसे पूर्णतया सफलता नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का जितना आदर है, उन पर हमारा उतना प्रेम नहीं।

इन प्राचीन भाषाओं के अधिकतर ग्रंथों का अनुवाद प्रचलित भाषाओं में होगया है। इससे लाभ भी अवश्य हुआ है। हम अपने पूर्वजों के साधारण विचारों को अपनी ही भाषा में समझने लगे हैं। परंतु उनके काव्य-रस का स्वाद हम अनुवादित ग्रंथों में नहीं पा सकते। यदि अनुवादक भी कवि है तो काव्य का ठीक ठीक अनुवाद भी उससे नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करते समय वह अपने काव्य-रस की पुट उसमें अवश्य देता है। दृष्टांत के लिए, पोप द्वारा अनुवादित ईलियड वही चीज नहीं जो होमर की रचना है। अंगरेजी की ईलियड में कुछ और ही स्वाद है और ग्रीक के मौलिक ग्रंथ में कुछ और ही। बेचारी

संस्कृत को तो इतना भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि कालिदास के सदृश कोई योग्य कवि उनके काव्य को किसी प्रचलित भाषा में अनुवादित करता। यदि ऐसा होता भी तो उसके अनुवाद में शकुंतला, पार्वती, दिलीप और रघु इसी शताब्दी के होते, आज से पंद्रह सौ वर्ष पहले के नहीं।

प्राचीन भाषाओं में लिखित काव्य आधुनिक काव्यों की समता प्रायः इसी एक कारण से नहीं कर सकते कि उनकी भाषा अब सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं है। उन काव्यों का आनंद लेने के लिए बरसों उनकी भाषा के सूखे व्याकरण को फोड़ें, तब कहीं उसे उनके काव्य-रस चखने की योग्यता प्राप्त हो। पर उस समय तक उस रस के स्वाद लेने की शक्ति भी कदाचित् उसमें न रहे, व्याकरण और छन्द शास्त्र के दोषों को छोड़ कर और कुछ उसे उनमें दिखाई ही न पड़े। इन काव्यों की तुलना हम उस काव्य से कैसे कर सकते हैं, जिसके वाक्य बालक अपनी माँ की गोद ही से सुनने लगते हैं, जिससे उद्धृत उदाहरण उनको डाँटने या मनाने के लिए काम में लाये जाते हैं, जिसकी शपथ की सहायता लेकर युवक-युवती प्रणय-पुष्टि करते हैं, और जिसके कथा-सरोवर में वृद्ध किसान कुटुंबसहित स्नान करके कृतकृत्य होते हैं ?

भाषा ही के विचार से नहीं, विषय-प्रसंग के भी विचार से, प्राचीन काव्य वर्तमान ससार के लिए उतने उपयोगी नहीं, जितने कि प्रचलित भाषाओं में रचित काव्य हो सकते हैं।

प्राचीन काल में मानुषिक सभ्यता की बाल्यावस्था थी। उस समय के विचार सरल और शुद्ध थे, कल्पना-सृष्टि की अधिकता थी और उसका झुकाव विशेषतया मारकाट, लड़ाई-झगड़े और जमीन-आसमान के कुलावे मिलाने की ओर था, गार्हस्थ्य जीवन की शांतिमयी घटनाओं की ओर नहीं। यही कारण है जो प्राचीन काव्यों के विषय प्रायः एक ही से हैं। प्राचीन ग्रीस में पेरिस हेलन को उडा ले गया, ट्रोजन-युद्ध हुआ और होमर ने उसका वर्णन ईलियड में किया। भारत में रावण सीता को हर ले गया, राम ने लका जाकर उससे युद्ध किया, विजय पाई, और वाल्मीकि ने इस कथा का वर्णन कर राम और सीता को अमर कर दिया। परंतु वर्तमान समय में मनुष्य का अधिकांश जीवन शांतिमय है। इसलिए उस समय के ड्रेश-पूर्ण विचारों से आज-कल के लोगों की सहानुभूति नही हो सकती। सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे कल्पित विचारों में भी पहले की सी तीव्रता नहीं रही। हरक्यूलीज की १२ कसरतों का हाल पढ़ कर बच्चे चाहे जितना आनंद प्राप्त करें, उससे और लोगों का विशेष मनोरंजन नहीं हो सकता। भला बालकों और वृद्धा स्त्रियों को छोड़ कर कौन मान लेगा कि रावण के दस सिर थे, वह पर्वत के सदृश ऊँचा था, और कुभकर्ण छ महीने नशे में चूर सोया करता था। शाहनामे के रुस्तम महाशय भी हरक्यूलीज से कुछ कम नहीं। अतएव उनका जीवन-चरित भी हमारे लिए विशेष काम का नहीं।

रघुवश का पद इन सब काव्यों से ऊँचा है। उसमें अशांतिपूर्ण घटनाएँ उतनी नहीं, कल्पना-शक्ति की दौड़ भी उसमें उतनी नहीं। रस के प्रवाह और उसके आस्वादन की सामग्री का तो कहना ही क्या है। यह काव्य कालिदास की प्रौढावस्था-प्राप्त कवित्व-शक्ति का फल है।

अत्र प्रचलित भाषाओं के काव्यों को लीजिए। मिल्टन के पैराडायज लास्ट के विषय में मार्क पेटिसन साहब की शिष्यायत है कि उसको कालेज से निकलने के बाद अँगरेज लोग ही चाव से नहीं पढ़ते, औरों की कौन कहे। इसका कारण यह है कि पैराडायज लास्ट का विषय मनुष्य-जीवन से कुछ सबंध नहा रहता। उसके नायकों को नेत्रहीन मिल्टन के ज्ञानचक्षु ही देख सकते थे, उनके चरित्रों का अनुभव उसी की अपूर्व धर्मवधन-ग्रस्त आत्मा कर सकती थी, और उसकी भाषा को वही समझ सकता है जिसने उसी की तरह ग्रीक और लैटिन साहित्य का मथन किया हो। पैराडायज लास्ट के सहोदर, डिवाइन कमेडी नामक काव्य, की भी वही दशा है। वह एक अघे अभागे कवि का स्वप्न है। नरक के उस भयानक दृश्य को फिर भला कौन दुवारा देखने की इच्छा करेगा जिसने एक बार भी, दाते की तरह, उसे देखा हो? मेघनाद-वध काव्य इन सबसे उच्चतम है। माइकेल मधुसूदन के चरित्र जीते जागते वीर और वीरांगनाएँ हैं, और उसके काव्य में ओज है। परंतु उसका विषय ऐसा है कि उसके चरित्र हिंदू-

समाज के आध्यात्मिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकते ।

— अब रामचरितमानस को देखिए । इसकी हिंदी भारतवर्ष के अधिकांश वासियों की मातृ-भाषा है, और वह भाषा इतनी सरल है कि अपठ ग्रामवासी भी उसे सुनकर किसी साहित्यसेवी विद्वान् से कम आनंद नहीं उठाते । प्राचीन काल से अब तक कौन ऐसा काव्य हुआ है, जिसने इतने अधिक मनुष्यों के हृदय में स्थान पाया हो और जिसने उनके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो ? अँगरेज-समालोचकों का यह कहना बिलकुल ठीक है कि तुलसीदास से बढ़कर भारतीय समाज का सुधारक कोई नहीं हुआ । जरा ध्यान तो दीजिए, सतनज से सोन तक, और हिमालय से विन्ध्याचल तक, तीन सौ वर्ष से, यदि प्रायः प्रत्येक गाँव में किसी भी ग्रन्थ की चर्चा रही है तो रामचरितमानस की । कोई भी ऐसा हिंदू नहीं जो अपने बालकों को राम और सीता का आदर्श न दिखलाता हो, जिसको समय समय पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ याद न आ जाती हों, वह पढा हो या बे-पढा ।

जिस समय अँगरेजी विचारों की धारा इस देश में जोर से बह रही थी उस समय यह शका हुई थी कि कहीं हमारे देश का यह अमूल्य रत्न उसमें डूब न जाय । विश्वविद्यालय में उसके लिए कोई स्थान न था और नव-विचार-विभूषित हृदयों में

हिंदी-साहित्य की ओर से घृणा का बीज उग रहा था । परंतु कुछ समय से वह धारा अपना प्रवाह बदलती हुई दिखाई पड़ती है । इस हिंदी-रत्न को शिचित्त-समाज अब आदर की दृष्टि से देखने लगा है । आशा है कि कुछ समय में इसके लिए उस समाज के हृदय में ऊँचा आसन भी मिल जायगा ।

अच्छा, अब देखिए कि इस ग्रंथ का क्यों इतना आदर है । समय ने बहुत से ग्रंथों का नाश कर डाला है, परंतु यह अभी तक मनुष्य-हृदय में विराजमान ही नहीं, दिन पर दिन उसमें अपना स्थायी घर बनाता हुआ देख पड़ता है । वाल्मीकीय रामायण भी तो है, पर उस पर इतनी श्रद्धा नहीं । रामचरितमानस पर ही क्यों ?

रामचरितमानस में एक ऐसी बात है जो ससार के किसी कान्य में नहीं । उसमें तुलसीदास ईश्वर को साधारण मनुष्य का रूप देकर उसे सासारिक जीवन की सभी अवस्थाओं में ले गये हैं । राम आदर्श पुरुष हैं, पर अपने कार्यों के कारण नहीं, किंतु तुलसीदास की अनन्य भक्ति के कारण । उनमें वही गुण दोष हैं जो मनुष्य-मात्र में पाये जा सकते हैं । परंतु तुलसीदास ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि उन्हें दोषों के कारण रामचंद्रजी हमारे सगे होगये हैं । यदि तुलसीदास उनमें गुण ही गुण दिखाते तो रामचरितमानस वेदांत हो जाता । तब वह इतने आदर का पात्र न रहता । तुलसीदास के रामचंद्र वाल्मीकि के रामचंद्र से बहुत कुछ भिन्न हैं । पहले

वे राजकुमार थे, अब तो वे मनुष्य-मात्र के सगे ईश्वर हैं। हम उनमें अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं, परंतु साथ ही साथ तुलसी हमको याद दिलाते जाते हैं कि उन्होंने हमारे और तुम्हारे ही उद्धार के लिए जन्म लिया है।

रामचरितमानस को आदि से अंत तक पढ़ जाइए और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आनंद लूटिए। बचपन में राम हमारे भाई हैं, कौशल्या हमारी माँ हैं, और दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं। दूर की यात्रा के लिए आज्ञा देते समय दशरथ उसी तरह दुखी होते हैं जिस तरह कोई वृद्ध पिता अपने पुत्र के दूर जाते समय दुखी होता है। आज्ञा मिलती है, और रामचंद्र चले जाते हैं। हम राम के साथ धनुर्विद्या सीखते हैं, वन वन विचरते हैं, और यौवनावस्था प्राप्त होने पर किसी कुमारी के प्रेम-पाश में फँसते हैं। सीता के दर्शन होने पर रामचंद्र-लक्ष्मण का वार्तालाप कैसा भाव-पूर्ण और कैसे स्वर्गीय प्रेम का उदाहरण है। वाल्मीकि से तुलना कर देखिए। हम तो कहते हैं कि कालिदास की भी पहुँच वहाँ तक नहीं है। सीता तुलसीदाम ही की नहीं, जगत् की जननी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस की नायिका के चरण-सेवक हैं। कहिए क्या किसी और कवि ने भी अपने काव्य की नायिका को इतना उच्च पद दिया है? कालिदास शकुंतला को अपने हृदय में रखते हैं, परंतु तुलसीदास सीता के चरण-कमलों पर मस्तक रख कर जगत्पिता रामचंद्र के साथ उनके प्रणय का वर्णन करते हैं।

फिर क्यों न ऐसे वर्णन को बालक से लेकर बूढ़े तक उसी चाव से पढ़ें और प्रेमोद्रेक से उसी तरह गद्गद हो जायें जिस तरह सबसे पहले तुलसीदास हुए थे ।

परन्तु गार्हस्थ्य जीवन कटकमय है । क्या तुलसीदास इसका अनुभव न कर चुके थे ? वह को घर आये अधिक दिन न हुए थे कि वह सौतेली सास के ईर्ष्या-बाण का निशाना बनी । राम को वनवास की आज्ञा होगई ।

कौन ऐसा कठोर-हृदय होगा जो इस वर्णन को पढ़कर न पसीज उठे ? न मालूम कितने सतान-शोरु-सतप्त हृदयों को राम ने आकर सात्वना दी होगी—

वरप धारि दस विपिन बसि करि पितु-वचन प्रमान ।

आय पाय पुनि देखिहै मन जनि करसि मन्वान ॥

उखड़े हुए हृदय-वृक्ष में फिर आशा-पल्लव निकलने लगते हैं और जीवन के सब कार्य फिर ज्यों के त्यों चलने लगते हैं ।

रामचंद्र की वन-यात्रा का अपूर्व प्राकृतिक वर्णन कविता के विचार से बहुत अच्छा है । परन्तु मानसिक चित्र खींचने में बालि को छोड़ कर और किसी के लिए तुलसीदास ने विशेष कष्ट नहीं उठाया ।

लकाऊड में युद्ध का वर्णन, पुराने ढग पर, बड़ी योग्यता के साथ किया गया है, परन्तु मदोदरी के चित्र को छोड़ कर और सब चित्र असंभव से मालूम पड़ते हैं । मानसिक चित्र

खींचने में तुलसीदास ने जितनी योग्यता बालकांड के अयोध्याकांड में दिखाई है उतनी और किसी कांड में नहीं उत्तरकांड बालकों तथा युवकों की भी समझ में अच्छी त नहीं आ सकता। फिर ज्ञान का वर्णन भी त्यागी मनुष्यों के लिए है। मालूम होता है, तुलसीदास लकाकांड समा करते करते थक गये थे। इससे वह उत्तरकांड को कि तरह घसीट ले गये हैं।

परंतु, चाहे जहाँ देखिए, तुलसीदास राम के प्रेम में हैं। सेवा करने के लिए वह कहीं निपाद हो जाते हैं और हनुमान् का अवतार ले लेते हैं।

यदि अगाध भक्ति के कहीं भी उदाहरण देखने हो तो दृश्यों में देखिए जहाँ तुलसीदास भक्ति की भिन्ना मांगते हैं निपाद कहता है—

पदकमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों ।
 'मोहि राम रावर आन दसरथ सपथ सब साँची कहों ॥
 बरु तीर मारहु लखन पै जब लागि न पाय पखारिहीं ।
 तत्र लागि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहीं

हनुमान्जी कहते हैं—

एक मट में मोहबस कीस हृदय अज्ञान ।
 पुनि प्रभु मोहि विसारेहु, दीनबधु भगवान ॥

फिर वह बंदर के रूप में सेवा के बदले क्या नाथ भक्ति तब सब सुखदायिनि । देहु कृपा करि सो

और यदि आपको भी सेवा के बदले प्रेम-भित्ता ही माँगनी हो तो महादेवजी सिफारिश करने के लिए आ जाते हैं—

। उमा राम स्वभाव जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥

इसी भक्ति भाव के आधिक्य को देखकर कुछ अँगरेज-समालोचकों ने यहाँ तक कह डाला है कि रामचरितमानस के भक्ति-भाव-विषयक उद्देश्य में ईसाई-मत की बहुत कुछ छाया है। इस विषय में राय देना कठिन है। समता बहुत कुछ है और इसमें कोई सदेह नहीं कि राम, यीशु, कृष्ण, और बुद्ध के सदृश किसी और आत्मा ने मनुष्य के हृदय में इतनी जगह नहीं पाई है।

बुद्ध के समय से प्रेम और सच्चे गार्हस्थ्य जीवन की शिक्षा भारतवर्ष के सुधारक देते चले आ रहे हैं, परंतु जितना अधिक सुधार तुलसीदास ने किया है उतना और किसी से नहीं बन पडा। उनकी ललित लेखनी ने बौद्ध भिक्षुओं और पादरियों की आवश्यकता ही न रखी। सुनिए, सुनाइए और तदनुसार सुधार कीजिए।

इस हिंदी-साहित्य की गुदडी के लाल को यदि आपने अभी तक नहीं पहचाना, तो आशा है इस सच्चित्त लेख से आपका ध्यान उधर जायगा और किसी विद्वान् के गवेषणा-पूर्ण ग्रन्थ-द्वारा इस अपूर्व रत्न के महत्त्व की अच्छी तरह परख होगी।

४—हिंदी में नाटक और अभिनय

कुछ वर्ष हुए, लखनऊ ही में नहीं, जहाँ कहीं हिंदी-भाषा बोली जाती थी, पारसी-कपनियों और उनके असीरे हिर्स और खूबसूरत बला का बोल-बाला था। अब यह समय है कि लखनऊ में ही व्याकुल भारत, किलोस्कर और सू-विजय कपनियो ने सरल हिंदी में लिखे हुए नाटकों का अभिनय कर जनता को उपदेश देते हुए प्रसन्न किया है और खूब लाभ भी उठाया है।

हमे तीनों नाट्य-कपनियों के खेलों के देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अधिक नाटक देखने का तो अवसर नहीं मिला। क्योंकि दर्शन के साथ भेंट देना ज़रूरी था—परंतु बानगियाँ अवश्य देखीं। इन्हीं के आधार पर हमें इस लेख में नाट्य-कला तथा उसके हिंदी-संसार में प्रचार करने के विषय में कुछ विचार करना है।

इन कपनियो ने इतना तो साबित ही कर दिया कि यदि नाट्यकारों में कुछ भी योग्यता हो, यदि नटों को गाना आता हो, यदि पर्दे या पोशाकों पर काफी खर्च किया जा सके और नाच तथा कलाबाजियों के लिए दो चार नट मिल सकें तो हिंदी में नाटक के अभिनय का सफल होना दुष्कर नहीं है।

यह सब कुछ है। हम चाहते हैं कि हिंदी-भाषा-भाषी समाज में उन्हीं की भाषा-द्वारा नाटक दिखाये जायें। परंतु जो कुछ इन कपनियों ने दिखाया है, उससे हम सतुष्ट नहीं हैं। यदि हमें इस सबध में कुछ कड़ी बातें कहनी हैं तो वे इसलिए कि यह कपनियाँ रुपया ही न कमायें। हिंदी में एक स्थायी नाट्य-साहित्य को उत्पन्न करना और नाट्य-कला को उच्च श्रेणी का बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि रुपया कमाना।

यह हम मानते हैं कि साधारण जनता में नाट्य-कला, नाट्य-कार के शब्दों के भाव तथा गानविद्या के षट् रहस्यों के समझने की योग्यता नहीं होती। परंतु कुछ ही समय तक आप परदों और पोशाकों की भडक के पीछे अपने नाट्य-कार तथा नाट्य-कला के दोषों को छिपाये रख सकते हैं। काठ की हाँडी अधिक समय तक आग पर नहीं चढ़ी रह सकती। कोई समय था काउसजी, गौहरजान और सोराबजी इत्यादि ने पारसी-कपनियों-द्वारा नाट्य-संसार पर उर्दू का सिका जमा दिया था। हैम्लेट के उर्दू अनुरूप खूने नाहक के विषय में विद्वानों का मत था कि इसमें काउसजी का पार्ट हेनरी इर्विंग के पार्ट से किसी प्रकार कम न था। ऐसे ही लोगों की कमाई उर्दू-कपनियाँ बहुत दिन तक खाती रहीं। इनमें नाट्य-कला का हास होता रहा, परंतु जनता पर उस्तादों का इतना ज्यादा जादू जम चुका था कि कुछ समय तक रहीं कपनियों की भी रोजी चलती रही।

उर्दू में नाट्यकला के हास का यह फल हुआ कि जनता ने हिंदी में नाटक दिखानेवाली नई कंपनियों का स्वागत किया। इसी लिए हमारा निवेदन है कि जो कुछ सफलता हुई है उसे स्थायी न समझिए। जो हाल उर्दू के नाटकों का इतने समय पश्चात् हुआ है, वही, उससे भी बुरा और बहुत शीघ्र, हिंदी के नाटकों का होनेवाला है, यदि नाट्य-कला और नाट्यकार दोनों एक दूसरे का साथ देकर जनता को अपने गुणों से वशीभूत न कर लेंगे*।

हमने इन कंपनियों के तमाशे देखे। कहीं परदों की विशेषता, कहां रग-विरगी रोशनी का प्रबध, कहीं गाना अच्छा, कहीं नाचनेवालों और कलाबाजों का जमाव। परंतु न तो नाट्यकार के शब्दों में प्रायः बल था, न नटों में। उनके उच्चारण करने में कोई विशेष योग्यता न थी। एक ही भाव है—पुरुष लड़े मरते हैं, और स्त्रियाँ रोये देती हैं। वीर-रस के व्यक्त करने में तो विना अतिशयोक्ति इन नटों का काम ही नहीं बनता। शांतिभाव के व्यक्त करने के लिए भी चिल्लाने की आवश्यकता समझी जाती है। हास्यरस में मधुरता नहीं, करुणा में आंसू नहीं, बीभत्स में ग्लानि नहीं। गाने के लिए कोई मौका भी ठीक है। राजा साहब का दरबार लगा है।

*यह लेख नवंबर सन् १९२३ की 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ था। इस समय लेखक को किसी भी हिंदी-नाटक खेलनेवाली कंपनी का पता नहीं है।

एक कठिन समस्या पर विचार करना है, परंतु गाना हो रहा है। राजा साहब को भी भरे दरबार में गाने से एतराज नहीं है। रानी साहबा अपनी सखियों के बीच गायेँ तो कुछ हर्ज नहीं। परंतु उन्हें आप, राजा साहब के सामने, बातचीत के सिलसिले में, जब वह चाहें, गाने से नहीं रोक सकते।

हिंदी में इधर कई मौलिक नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। इनके लेखकों का हिंदी-साहित्य में बहुत मान है। परंतु इनमें बहुत कम ऐसे हैं जो स्थायी साहित्य की श्रेणी में रक्त्वे जा सकें—जो पढने और अभिनय दोनों के योग्य हों। कारण यह है कि कुछ लेखकों ने अपनी कृतियों को अभिनय-योग्य बनाने के लिए उर्दू के अभिनीत नाटकों की शैली का अनुकरण किया है। फल यह हुआ है कि साहित्यिक दृष्टि से तो उनका स्थान बहुत गिर गया है, अभिनय की कसौटी पर भी वे सच्चे नहीं उतर सकते। कुछ नाटक ऐसे भी हैं, जो साहित्यिक दृष्टि से अच्छे हैं—उनकी भाषा में ओज है, उनकी शैली परिमार्जित है—परंतु अभिनय के योग्य वे भी नहीं हैं, क्योंकि उनके लेखकों को रग-मच का बहुत कम अनुभव रहा है।

बात यह है कि अभी तक नटों के प्रति जनता के कुछ ऐसे घृणा-सूचक भाव हैं कि योग्य प्रतिभाशाली पुरुष नाट्य-द्वारा जीवन निर्वाह करने में अपना मान-हानि समझते हैं। वस्तुतः साधारण बुद्धि के, अधिकतर विगड़े हुए लडके,

इस व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। इनमें से थोड़े बहुत अनुभव-द्वारा नाट्य-कला में प्रवीण हो जाते हैं। परंतु नाटक-निर्माण की योग्यता के लिए साहित्य से परिचय की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रायः इनमें अभाव रहता है। इसलिए इस श्रेणी के नटों में से नाट्यकारों का निकलना दुष्कर है। शिचित्त नवयुवक-मंडलियों के शौकिया अभिनयों-द्वारा हम मध्य श्रेणी की जनता में इस व्यवसाय के विरुद्ध जो कुछ विचार हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। हमें यह समझना है कि जहाँ विचार फैलाने का वक्तूता या समाचार-पत्र जैसे अन्य मार्ग हैं वहाँ एक नाटकाभिनय भी है। सच पूछिए तो इस देश में, जहाँ विद्या का इतना अभाव है, वक्तूता तथा नाटकाभिनय-द्वारा विचारों का जितना प्रचार हो सकता है उतना लेखों से नहीं हो सकता। फिर, वक्तूताओं से आप अधिकतर लोगों के विचारों ही को पुष्टि कर सकते हैं। परंतु यदि भावों की पुष्टि करना है, यदि जातीयता का आदर्श मंत्र उनके कान में फूँकना है, यदि उनके हृदय में स्त्री-जाति के प्रति ब्रद्धा उत्पन्न करनी है, और यदि उन्हें सच्चे गार्हस्थ्य प्रेम तथा स्वार्थत्याग का परिणाम दिखाना है, तो हमें नाट्यकार और नाट्यकला का ही आश्रय लेना पड़ेगा।

यह तो हुई जनता को समझाने की बात। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब तक उसके विचारों में परिवर्तन न हो, तब तक हमारे पढ़े-लिखे नवयुवक रंग-मंच पर पैर न रखें।

हिंदी-नाट्य-साहित्य का उद्धार-कार्य जनता के विचार-परिवर्तन की बात नहीं जोह सकता । और उद्धार की एक ही सूत्र है । बड़े दिनों की बात है । बेकन के कुछ भक्तों ने यह सावित करना चाहा कि जिन नाटकों के निर्माता शेक्सपियर कहे जाते हैं, वे वास्तव में बेकन के लिखे हुए हैं । सब दलीलों के एक उत्तर ने उन्हें शांत कर दिया, और वह यह कि यह नाटक बेकन के नहीं हो सकते क्योंकि इनमें एक स्वाभाविकता है, जो नाट्यकार के बिना नाट्याभिनय की परीक्षा पास किये आ ही नहीं सकती । बिना नट बने नाट्यकार नहीं हो सकते । इसलिए हिंदी-प्रेमी नवयुवकों से हमारा यह निवेदन है कि यदि उनमें नाट्यकला की ओर रुचि है, यदि वे गाना गा सकते हों, यदि उनमें कवित्व-शक्ति हो, यदि वे भावों को रगमच पर व्यक्त कर सकते हों, तो वे अवश्य इस व्यवसाय की ओर ध्यान दें । दफ्तर या शिक्षा-विभाग की नौकरी से इस व्यवसाय में उन्हें अधिक लाभ तो होगा ही, शायद उनमें से कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लेखक भी निकलें, जो हिंदी में एक स्थायी नाट्य-साहित्य की सृष्टि कर सकें । क्या द्विजेंद्रलालजी ने जो देश-सेवा अपने नाटकों द्वारा की है, वह किसी भी बड़े नेता की देश-सेवा से कम है ? माना कि उनकी प्रतिभा को पाना कठिन है । तो क्या प्रयत्न करने से जैसे नाटक आज-कल लिखे जाते हैं उनमें भी उन्नति नहीं हो सकती ? अभ्यवसाय की आवश्यकता है, प्रतिभा भी उसका साथ देगी ।

नाटक कैसे हो, किन भावों का उनमें समावेश हो, क्या उनमें गुण हों—इसके विवरण करने की जगह इस लेख में है। फिर हमें इसका अधिकार भी नहीं है। नाट्यशास्त्र के से ही अच्छे नाटक नहीं बन जाते। मार्ग वही है जिसे त करने का साहस हमने यहाँ किया है।

५—सत्य-हरिश्चन्द्र-नाटक

किसी ने सच कहा है कि लेखक की प्रतिभा का पता तभी चलता है जब उसकी पुस्तक के कापी-राइट का समय बीत जाता है। यदि अवधि समाप्त होते ही प्रकाशक-श्रेणी दगल में फाँद पड़े, तब तो समझिए कि लेखक चिर काल के लिए जीवित रहा। परंतु यदि पहली आवृत्ति के बाद दूसरो का समय ही न आवे, तो समझिए कि लेखक समाज की योग्यता के बहुत कुछ ऊपर है, समाज उसके गूढ़ विचारों को समझने के लिए तैयार नहीं, या यह कि उसके विचार इतने पुराने हैं और इस ढग से प्रकट किये गये हैं कि समाज उनसे परिचय प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ग्रंथों के कापी राइट की अवधि समाप्त हो जाने पर अभी तरु नागरी-प्रचारिणी सभा ही ने दगल में पग रक्खा है, सो भी डरते डरते। पहले-पहल उसने 'सत्य-हरिश्चन्द्र' का ही प्रकाशन किया है। प्रथम सस्करण की भूमिका में मंत्री महाशय लिखते हैं कि 'यदि इस पुस्तक की विक्री अधिक हुई और भारतेन्दुजी के अन्य ग्रंथों के स्वल्प मूल्य पर प्राप्त करने की सर्वसाधारण की रुचि का स्पष्ट प्रमाण मिला तो सभी भारतेन्दुजी के अन्य ग्रंथ भी

यथाक्रम प्रकाशित करेगी।' आशा है, अब तक इस रुचि का स्पष्ट प्रमाण मंत्री महाशय को मिल चुका होगा* ।

'सत्यहरिश्चंद्र' भारतेंदुजी की कवित्व-शक्ति का परम प्रिय-पुज है, क्योंकि उसके नायक प्रात स्मरणीय रामचंद्र के पूर्वज हरिश्चंद्र और आधुनिक हिंदी-गद्य के जन्म-दाता हरिश्चंद्र के नामों और गुणों में बहुत कुछ समता है। कवि महाशय भी नायक में जगह जगह अपने सत्याभिमान, काशी-प्रेम और करुणामय हृदय की झलक दिखाये बिना नहीं रहते। पहले ही से वह अपने मित्र पंडित शीतलाप्रसादजी के वाक्य को 'सूत्रधार के मुँह से अनुवाद करा देते हैं—

जो गुन नृप हरिचंद्र में, जगद्वि सुनियत काम ।

सो सब कवि हरिचंद्र में लखहु प्रतच्छ सुजाब ॥

उपक्रम में तो भारतेंदुजी यही लिखते हैं कि पंडित बालेश्वरप्रसादजी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने यह नाटक लड़कों ही के लिए लिखा है, परंतु भाषा और भाव इसके ऐसे गूढ़ हैं कि छोटे छोटे लड़के इससे बहुत कम लाभ उठा सकते हैं। हम लोगो को उनके इस विचार से इतना लाभ अवश्य हुआ कि इसमें शृंगार-रस की पुट नहीं दी गई। हरिश्चंद्र-विषयक नाटकों में सबसे अधिक मान इसी का है। इसका एक कारण यह भी है।

* यह लेख अप्रैल सन् १९१८ की 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ था। अब भारतेंदुजी की पूर्ण प्रथावली प्रकाशित होगई है।

अब यह देखना चाहिए कि किन बातों में सत्य-हरिश्चन्द्र का पद इस नाम के और नाटकों से ऊँचा है। भारतेंदुजी को शायद अँगरेजी में शेक्सपियर के नाटकों और संस्कृत में कालिदास, भवभूति इत्यादि के नाटकों को छोड़ कर और बहुत कम नाटक देखने का अवसर मिला होगा। उस समय तक बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्रलाल राय के नाटकों ने जन्म भी नहीं लिया था। परंतु यह प्रतीत होता है कि मानसिक भावों की तरफ उनकी यहाँ तक पहुँच अवश्य थी कि करुणा और बीभत्सरस के साथ शृंगार और हास्यरस का मिलान नहीं हो सकता। करुणा-रस फुल-भंडी की तरह उठ नाय, यदि हास्य का तनिक भी अंश उसमें हो, और शृंगार से घृणा होने लगे, यदि बीभत्सरस के साथ उसका योग हो। हरिश्चन्द्र की कथा करुणा-रस-पूर्ण है और नाटक भी अवश्यमेव ऐसा ही होना चाहिए। इसी लिए भारतेंदुजी हरिश्चन्द्र के साथ विदूषक नहीं रखते कि कहीं सत्याभिमान का मजाक न चड जाय। साधारण नाटक-कार शेक्सपियर की नकल करने के लिए दुखात नाटक के नायक के साथ विदूषक रख देते हैं। परंतु 'लियर' और 'हरिश्चन्द्र' की कोई समता नहीं। लियर का विदूषक तो केवल उसकी मूर्खता पर हँस कर बुद्धे के अभाग्य पर दर्गकों के आँसू बहाता है। यदि हरिश्चन्द्र का विदूषक एक क्रोधी ब्राह्मण के नाम तमाम जायदाद दे देने पर उनकी हँसी उड़ावे तो हरिश्चन्द्र का सब अभिमान हवा हो

जाय, दर्शक खिलखिला पडे और नाटक का आशय ही भग हो जाय ।

अधिकतर नाटक-कपनियाँ वेश्या का नाच दिखाने के लिए शैव्या को उसी के हाथ विकवाती हैं । परतु भारतेंदुजी ऐसा नहीं करते । शैव्या उपाध्याय के घर पडिताइन की सेवा करने के ही लिए विकती है । इससे भारतेंदुजी के सामाजिक विचारों की स्वच्छता का बहुत कुछ पता चलता है ।

रोहिताश्व को तत्काल से डसे जाने का दृश्य कदाचित् उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया कि रोहिताश्व अभी बहुत छोटा है, तुतला कर बातें करता है, अलग दृश्य में साथियों के साथ मिल कर गाना, और साँप से डसे जाने पर विलाप करना उसके लिए असभव है । या इसलिए उस दृश्य को नहीं दिखाया कि कहीं करुणा-रस की मात्रा बहुत अधिक न हो जाय ।

यों तो 'सत्यहरिश्चद्र' आद्योपात रुचिकर है, परतु तीसरे और चौथे अंक में विस्तार के कारण उसकी रोचकता कम हो गई है । आरम्भ में नारद सत्पात्र के हाथ हरिश्चद्र का दान देना ठीक समझते हैं, परतु एक क्रोधो और द्वेषी ब्राह्मण की सेवा में हरिश्चद्र का सर्वस्व अर्पण कर देना वर्तमान विचारों से विभूषित हृदय को अवश्य खटकता है । हाँ, यदि लेखक का यह आशय कि "निर्गुण सत्य सर्वोपरि है" सिद्ध हो जाय तो मानसिक भावों को तोड़ने-भरोड़ने में कोई हर्ज नहीं है । तीसरे अंक में कवि महाशय

ने काशी और भागीरथी की महिमा अपने नाम-राशि के मुख से कहलाई है। यह उनके काशी-प्रेम का उबाल है, न कि नाटक का कोई अंश। चौथे अंक में श्मशान का लबा वर्णन नायक से ही एकांत में कराना भी कुछ समझ में नहीं आता। यदि किसी दृश्य का वर्णन करना हो तो कोई सुननेवाला चाहिए। एकांत के विचार तो बाहरी दृश्य से अनभिज्ञ रहते हैं। मन उस समय केवल उस समय के लड़नेवाले विचारों के मध्य में फैसला करने में लगा रहता है। 'हैम्लेट' के एकांत समय के वाक्य देखिए। वे हरिश्चंद्र के एकांत वर्णन से कितने भिन्न हैं।

इस तुलना से हमारा अभिप्राय भारतेंदुजी की प्रतिष्ठा कम करने का नहीं है। आशय यह है कि नाटकरचना की कठिनता का पता लग जाय। यही उनके लिए क्या कम है कि ससार के 'हैम्लेट' समान प्रसिद्ध नाटक से सत्यहरिश्चंद्र की तुलना की जाय, और यही उस समय के देखते हुए उनकी प्रतिभाशालिनी लेखनी के लिए क्या कम है कि उन्होंने कहीं कहीं मनोभावों के सघर्षण दिखाने का प्रयत्न तो किया। विकने के पहले जो आवाजें नेपथ्य से आती हैं वे हृदयाकाश ही के प्रश्न हैं, और करुणा-रस के प्रवाह के मध्य जिस समय हरिश्चंद्र आत्महत्या करने से रुक जाते हैं उस समय मानसिक भावों के विवाद की कुछ झलक मिलती है। ऐसे उदाहरण अधिक नहीं मिलते। उनका कम होना ही उनके प्रकट करने की कठिनता को सूचित करता है।

अंतिम दृश्य में हरिश्चंद्र पुत्र-शोक पर बहुत विलाप करते हैं। कहा जा सकता है कि घोर दुःख की दशा में विलाप करना कठिन होता है, परंतु भारत के तप्त जल-वायु से द्रवित हृदय अपने दुःख को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। योरोपीय और भारतीय कविता में यही अंतर है कि शीत-प्रधान देश होने के कारण पहली में कर्म-द्वारा भाव प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी अर्थात् भारतीय कविता में जिद्दा को उन्हें दवाने का बल कम रहता है। जो कुछ हो, भारतीय कविता के ढंग के विचार से विलाप की मात्रा का अधिक होना कोई दोष नहीं। हाँ, हरिश्चंद्र जैसे धैर्यवान् पुरुष का पुत्र-शोक होने पर भी रोना कुछ खटकता अवश्य है। परंतु याद रखना चाहिए कि 'सत्य-हरिश्चंद्र' के जन्मदाता के कोमल हृदय में इतनी जगह न थी कि वह पुत्र-शोक के सदृश अपार दुःख को चुपचाप सह लेते।

क्या उन्होंने कौपती हुई कलम से न लिखा होगा—“कहेंगे सबै ही नीर भरि भरि, प्राखे प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जायगी”। प्यारे हरिश्चंद्र ! तुम्हारी कहानी ही नहीं रह गई। यह क्या तुम्हारे लिए कम गौरव की बात है कि तुम्हारा लगाया हुआ हिंदी-साहित्य-वृक्ष अब फलने फूलने भी लगा है।

६—द्विजेंद्र-नाटकावली

हिंदी के कुछ प्रकाशकों और अनुवादकों का अदम्य उत्साह से अब हमारे साहित्य में उच्च कोटि के अनुवादित नाटकों की कमी नहीं रही है। साहित्य के इतिहास में अनुवाद के बाद ही मौलिकता आती है, इसलिए आशा है कि इन नाटकों के पढ़े जाने और अभिनीत होने पर हिंदी-साहित्य में उच्च कोटि के मौलिक नाटक लिखे जाने लगेंगे। अब तक द्विजेंद्र बाबू के बारह बंगला नाटक हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। इस लेख में इन्हीं नाटकों की आलोचना करनी है। *

विदेशी भाषा से अनुवाद करने में जो कठिनाइयाँ पड़ती हैं, वे इन नाटकों में अधिक प्रकट नहीं होतीं। इसके कई कारण हैं। एक तो द्विजेंद्र बाबू हमी में से हैं, बंगाल हमारे ही देश का एक प्रांत है। हमारे ही देश के इतिहास को लेकर द्विजेंद्र बाबू ने अधिकतर नाटक-रचना की है। हिंदू-समाज की कुरीतियाँ, जिनका उन्होंने अपने नाटकों में दिग्दर्शन किया है, देश भर में थोड़ी बहुत सभी जगह पाई जाती हैं। जाति के अधःपतन के घाव से जैसे वे पीड़ित हैं वैसे ही प्रत्येक विचारवान् भारतवासी

* ये नाटक हिंदी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बंबई से प्रकाशित हुए हैं।

दुखी है। दूसरी बात यह है कि उनके पात्र अधिकतर गद्य बोलते हैं, और बंगाली भाषा हिंदी से बहुत-कुछ मिलती है। फिर, नाटकों के अनुवादक भी योग्य लेखक हैं। यदि कहीं दे भूलकता है तो वह 'सीता' ऐसे गीतनाट्य को गद्य में अनुवाद करने में है, या बंगला-गीतों का हिंदी-रूपांतर करने में। इसका कारण यह है कि पिगल तथा हिंदी रंग मंच के वध अनुवादक को इतना जकड़ देते हैं कि न तो वह अपने ही कवित्व रस की पुष्टि दे सकता है, न मूल के ही भाव को पूर्णतया दिख सकता है। क्या ही अच्छा होता यदि टिप्पणी या भूमिका एक से अधिक गीत अपने ही (मूल) स्वरूप में दिखा दिये जाते। पाठकों के सामने 'भैवाङ्ग-पतन' ही का अंतिम गीत है—

'किसेर शोक करिस भाई। आवार तेरा मानुष है'—'तुम शोक काहे को करो, फिर से मनुष्य सबै बनौ' इसमें चाहे आप अर्थ का वर्णन न कर सकें, क्योंकि भाषा अपनी नहीं है, पर इस कारण इसमें कुछ भाव की कमी नहीं होती। इस अवध में यह कहना अनुचित न होगा कि 'तारा' को अनुप्रास-हीन पद्य में अनुवादित करके अनुवादक ने उसकी शोभा बहुत कुछ बढ़ा दी है। इससे कदाचित् अभिनय करने में कठिनता हो, परन्तु पढ़ने में 'तारा' से बढ़कर कर्ण-रोचक नाटक इस श्रेणी में कोई नहीं है। क्या ही अच्छा होता यदि 'सीता' भी यो ही अनुवादित

अनुवाद करने में यदि पंडित कामताप्रसाद गुरुजी के विचारानुसार पात्रों की भाषा में थोड़ा बहुत अंतर रहता तो कदाचित् रोचकता बढ़ जाती। परंतु इसमें अनुवादकों का दोष बहुत कम है। द्विजेंद्र बाबू आपही इस भेद को बहुत कम दिखाते हैं। उनके लिए राजा से लेकर रक्त वरु, रानी से लेकर दासी तक, सभी कवि हैं, सभी के लिए आकाश नीला, गहरा और स्वच्छ है। जब कोई दुर्घटना होनेवाली होती है तब सभी अधकार, बिजली और तूफान से विचलित होते हैं। अनुवाद में भाषा को पात्र के योग्य बनाने का प्रयत्न केवल 'शाहजहाँ' में किया गया है। भाषा फारसी-मिश्रित है और सरल है, परंतु उर्दू भाषा से परिचित समाज को 'सर्च', 'लायक', 'बागी' कुछ रसकते हैं। जब 'मुहब्बत', 'कोशिश', 'वालियेमुल्क' ऐसे शब्द ठीक लिखे गये हैं तब हलक से निकालनेवाले शब्दों ही ने क्या अपराध किया है। ऊँचे दर्जे के मुसलमान पात्रों के मुँह से अशुद्ध उर्दू के शब्द कहलाना वैसा ही है जैसे उच्च जाति के हिंदू पात्रों से देहाती हिंदी के शब्द कहलाना। ग्रामीण हिंदी हो, और बे-मुहावरा उर्दू भी हो, परंतु पात्रापात्र का विचार करके।

इन सब बातों को मानते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदी-भाषा में अभिनय करने और पढ़ने, दोनों के योग्य यदि कोई नाटकमाला है तो द्विजेंद्र बाबू की। कालिदास के समय में यवनिका को छोड़कर शायद ही और कोई परदे रहे

हैं। शेक्सपियर के समय में भी रंग-मंच ने बहुत ही कम उन्नति की थी। पात्रों के लिए कोई आड न थी। दिन को नाटक हुआ करते थे। घ्रास या धूप से बचाव न था। ऐसी दशा में नाटक की सफलता के लिए बहुत कुछ कल्पना की आवश्यकता पडती थी। परंतु आज-कल नाटक-कंपनियों ने बहुत उन्नति की है, हर तरह के दृश्य दिखलाने के लिए परदे से, और प्रत्येक घटना को दर्शाने के लिए करामातों से, ऊँचे वर्ग के थियेटर सुसज्जित हैं। जितना बढ़िया सामान हो नाटककार को नाटक दिखाने में उतनी ही कठिनाई पडती है, रंग-मंच की आवश्यकताओं को नाट्य-कल्पना से मिलाये रखने की आवश्यकता पडती है। शेक्सपियर के समय में 'हैम्लेट' के हत्या-कांड में खून नहीं बहता था, 'टैपेस्ट' में रंग-मंच पर तूफान नहीं आता था, और इसी कारण शेक्सपियर का यश अभिनय के समय से नहीं, पढ़ने के समय से फैला। परंतु इस समय जो दृश्य नाटककार लिख देगा उसके दर्शाने में थियेटर के मैनेजर कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। साधारण नाटककार रंग-मंच ही का विचार करके नाटक लिखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस पुस्तक के छपने की नौबत बहुत कम आती है। दर्शकों की बाह बाह ही तक उनका जीवन रहता है। रंग-मंच से अनभिज्ञ कवि क नाटक में भी प्रतिभा का विकास नहीं होता, और उसके नाटक साधारणतः चिरजीवी नहीं होते। टेनीसन के नाटक कहां अभिनय किये जाते हैं ?

द्विजेंद्र बाबू के नाटकों के चिरजीवी रहने में कोई सदेह नहीं मालूम होता। वे पढ़ने, और अभिनय करने, दोनों में समाज को आनंदित करते हुए शिक्षा देते हैं। उनके पात्र मनो-विचार की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों में जा मिलते हैं और उनके मानसिक भाव हृदय में मिलकर पुनर्जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हैम्लेट, आर्थुरो और कार्डेलिया अभी तक जीवित हैं। द्विजेंद्र बाबू के पात्रों को जन्म लिये अभी बहुत समय नहीं हुआ। परंतु भविष्य की ओर देखते हुए यह विश्वास होता है कि जब तक देश में जातीय जोश रहेगा तब तक सत्यवती, महामाया, और गोविंदसिंह जीवित रहेंगे, जब तक ब्रह्मचर्य का आदर्श इस देश में जीता रहेगा, तब तक भीष्म की पूजा होगी, जब तक स्वामि-भक्ति, पितृ-भक्ति और पति-प्रेम के माननेवाले इस देश में रहेंगे, तब तक कासिम, विजयसिंह, लीला और सीता जीवित रहेंगे। सीता के लिए तो द्विजेंद्र बाबू ने अधिक नहीं किया, उन्हें तो भवभूति और तुलसीदास ही अमर कर गये हैं। हमारे नाटककार ने उनको केवल बीसवीं सदी की साड़ी पहना दी है। नूरजहाँ, औरंगजेब, शाहजहाँ ऐसे ऐतिहासिक पात्र भी इतिहास में अवश्य अमर हैं, परंतु मनुष्य हृदय में उनको जगह द्विजेंद्र बाबू ही ने दी है। जब तक प्रेम और गौरव के बीच सकट रहेगा, तब तक नूरजहाँ हृदय में प्रस्तुत रहेगी, तब तक छष्ट-पुष्ट होकर भी मनुष्य का हृदय दुर्बल रहेगा, तब तक औरंगजेब और सिद्दुबाहु से सहानुभूति रखनेवाले बहुत मिलेंगे। जब तक विषयी मनुष्य

बुढापे तक जीवित रहेंगे, तब तक शाहजहाँ और धीवर-राजसुता सत्यवती की हाथ के साथ हाथ करनेवाले भी रहेंगे।

निवेदन किया जा चुका है कि यह सब नाटक पढ़ने ही योग्य नहीं, अभिनय करने योग्य भी हैं। अँगरेजी-समाज को किसी समय में चाहे खून से प्रेम रहा हो, परंतु भारतवर्ष में बुद्ध के समय से समाज के विचार प्रेम ही की ओर अधिक झुकते गये हैं। द्विजेंद्र बाबू ने इस बात का बहुत विचार रक्खा है। उनके रंग-मंच पर कहीं खून नहीं बरसता। तलवारें भनकती अवश्य हैं, और दर्शकों को इसमें आनंद भी आता है, परंतु हत्या होने के पूर्व कोई न कोई आकर उसे अवश्य बचा लेता है। सिंहवाहु निरंतर तलवार लिये अपने पुत्र के सिर पर सवार रहते हैं। 'चंद्रगुप्त' के आरंभ में और 'मेवाड-पतन' के अंत में दो वीरों की तलवारें खटकती हैं, परंतु वार होने के पहले सिकंदर और मानसी—एक विश्वविजयी वीर, दूसरी विश्वप्रेमिणी नारी—बीच-बचाव कर देते हैं। सोचिए तो, इनको देखकर दर्शकों के उछलते हुए हृदय को कितनी शांति पहुँचती होगी। द्विजेंद्र बाबू ने बहुत से पात्रों को, जिनकी उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, या जिनको अपने नाटक के अंत तक ले जाने में कठिनता समझी, गोली से अंत कर दिया। इस गोली का शब्द दर्शकों को चौकन्ना अवश्य कर देता है, पर वह खून नहीं गिराती। औरंगजेब के सामने दारा का फटा हुआ सिर ही आता है, दारा रंग-मंच पर कत्ल नहीं किया जाता। तथापि

अध्या रंग-भच ही पर शाल्व का खून कर देती है, और लीला भी दर्शकों के सामने ही अपने पेट में छुरी भोक लेती है। यही दशा तारा की होती है, पर दरबारी, पहरेदार या पृथ्वी तुरंत ही घटना को दर्शकों की दृष्टि से छिपा देते हैं। स्टेज मैनेजर को अपनी करामात दिखाने का अवसर यहाँ भी नहीं मिलता।

इन नाटकों में परदों की कमी नहीं है। दर्शकों को परदों की शान में द्विजेंद्रजी की कल्पना का आनंद नहीं मिलता, परंतु अभिनय के समय साधारण दर्शकों के लिए 'सिद्धल-विजय' में तूफान और 'पापाणी' में कैलाशशिखर कुछ कम रोचक नहीं हैं।

द्विजेंद्र बाबू ने दर्शकों को 'स्वगत' के उच्च स्वर से बचा लिया है, परंतु इससे पात्रों की कठिनता में कुछ कमी नहीं हुई है। 'अर्ध-स्वगत' और 'अर्धपूर्ण नजर' 'स्वगत' से कहीं कठिन है। सुना है कि द्विजेंद्र बाबू के ही तैयार करने पर उनके कुछ कठिन नाटक खेले जा सके थे। जो कुछ हो, इतना जरूरी है कि जब तक पात्रों के भावों की अच्छी पररत न हो, तब तक उनका रंग-भच पर ठीक ठीक दर्शाया जाना कठिन है। सीधी भाषा में भाव दर्शाना तो और भी कठिन है—

“राणा—नहीं तो और क्या करेंगे ? चुपचाप सहन न करेंगे तो रो लेंगे। देखो, भोजन बना कि नहीं ? डर की कोई बात नहीं है। अबकी बार सर्वस्व नष्ट हो जायगा। जिस जाति में इवनी

चुद्रता हो उसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर नहीं कर सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या है ।”

रानी के सामने राणा रो नहीं सकते । उनके चेहरे पर सूखी मुस्कराहट है परंतु हृदय में निराशा का समुद्र उमड़ रहा है । रानी गृहिणी हैं, राज-नीति नहीं समझतीं, इसलिए उनसे यही पूछा गया कि ‘भोजन बना कि नहीं’ ।

इतिहास में सग का बड़ा नाम है, परंतु नाटककार ने उसकी कुछ ही झलक दिखाई है । इतने ही से वह द्विजेंद्र के कठिन पात्रों में गिनने योग्य हो गया है—

सग—(तारा का हाथ पकड़कर) तारा ?

तारा—क्या मोहित । कहो ।

यह क्या । यह क्यों सहसा भर आया गला !

सग—(हाथ छोड़कर) क्षमा करो । कल दूर देश को जा रहा हूँ मैं, तारा ।

तारा—यह क्या ? जाओगे कहाँ ?

—बहुत दूर ?

सग—मालूम नहीं—जिस ओर को चलूँ ।

तारा—क्यों ? किसलिए ? कहो तो ।

सग—“किसलिए”—

तारा तुम हो सुखी । न पृच्छो “किसलिए ?”

यह सब कोई कविता नहीं है, बहुत ही सीधे सादे शब्द हैं,

परंतु इनके भीतर बहुत गहरा भाव है, जिसका दर्शाना बहुत कठिन है। सग देश से निकाला हुआ है, तारा का नौकर है, पर वह प्रेम के प्रवाह को नहीं रोक सका। इसलिए उसने सहसा तारा का हाथ पकड़ लिया, परंतु निराशा ने फिर गला धर दबाया। “क्षमा करो”— कविता के लिए गले में ताकत नहीं है। गभीरता और धैर्य ऊपर है, परंतु हृदय जल रहा है।

नूरजहाँ के आतंरिक छेश के दिग्दर्शन के लिए थोड़ा सा वार्तालाप—

शेर०—मेहर,—बहुत अच्छा खबर है।

नूर०—क्या स्वामी ?

शेर०—सम्राट् जहाँगीर ने मुझे पाँच हजारी का पद देकर आगरे में बुला भेजा है।

नूर०—सर्वनाश !

शेर०—यह क्या कहती हो। यह तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है।

नूर०—जाओगे ?

शेर०—जाऊँगा क्यों नहीं।

नूर०—मैं कहती हूँ, मत जाना।—खतरदार।

शेर०—इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो ? यह तो बड़े आनंद की बात है।

नूर०—बात सुनो—कहती हूँ, मत जाओ—सावधान।

(तेजी से जाना)

सुदृता हो उसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर नहीं कर सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या है।”

रानी के सामने राणा रो नहीं सकते। उनके चेहरे पर सूखी मुस्कराहट है परंतु हृदय में निराशा का समुद्र उमड़ रहा है। रानी गृहिणी हैं, राज-नीति नहीं समझतीं, इसलिए उनसे यही पूछा गया कि ‘भोजन बना कि नहीं’।

इतिहास में सग का बड़ा नाम है, परंतु नाटककार ने उसकी कुछ ही झलक दिखाई है। इतने ही से वह द्विजेंद्र के कठिन पात्रों में गिनने योग्य होगया है—

सग—(तारा वा हाथ पकड़कर) तारा ?

तारा—क्या मोहित। कही।

यह क्या। यह क्यों सहसा भर आया गला।

सग—(हाथ छोड़कर) क्षमा करो। कल दूर देश को जा रहा हूँ मैं, तारा।

तारा—यह क्या ? जाओगे कहाँ ?

—बहुत दूर ?

सग—मालूम नहीं—जिस ओर को चल दूँ।

तारा—क्यों ? किसलिए ? कही तो।

सग—“किसलिए”—

तारा तुम हो सुखी। न पूछो “किसलिए ?”

यह सब कोई कविता नहीं है, बहुत ही सीधे सादे शब्द हैं,

परंतु इनके भीतर बहुत गहरा भाव है, जिसका दर्शाना बहुत कठिन है। सग देश से निकाला हुआ है, तारा का नौकर है, पर वह प्रेम के प्रवाह को नहीं रोक सका। इसलिए उसने सहसा तारा का हाथ पकड़ लिया, परंतु निराशा ने फिर गला धर दवाया।
 “क्षमा करो”— कविता के लिए गले में ताकत नहीं है। गभीरता और धैर्य ऊपर है, परंतु हृदय जल रहा है।

नूरजहाँ के आंतरिक क्लेश के दिग्दर्शन के लिए थोड़ा सा वार्तालाप—

शेर०—मेहर,—बहुत अच्छा खबर है।

नूर०—क्या स्वामी ?

शेर०—सम्राट् जहाँगीर ने मुझे पाँच हजारी का पद देकर प्रागरे में बुला भेजा है।

नूर०—सर्वनाश !

शेर०—यह क्या कहती हो। यह तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है।

नूर०—जाओगे ?

शेर०—जाऊँगा क्यों नहीं।

नूर०—मैं कहती हूँ, मत जाना।—खबरदार।

शेर०—इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो ? यह तो बड़े प्रानद की बात है।

नूर०—बात सुनो—कहनी हूँ, मत जाओ—सावधान।

(तेजी से जाना)

सुद्रता हो उसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर नहीं कर सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या है।”

रानी के सामने राणा रो नहीं सकते। उनके चेहरे पर सूखी मुस्कराहट है परंतु हृदय में निराशा का समुद्र उमड़ रहा है। रानी गृहिणी हैं, राज-नीति नहीं समझतीं, इसलिए उनसे यही पूछा गया कि ‘भोजन बना कि नहीं’।

इतिहास में सग का बड़ा नाम है, परंतु नाटककार ने उसकी कुछ ही झलक दिखाई है। इतने ही से वह द्विजेंद्र के कठिन पात्रों में गिनने योग्य हो गया है—

सग—(हाथ पकड़कर) तारा ?

तारा—क्या मोहित ! कहो ।

यह क्या ! यह क्यों सहसा भर आया गला !

सग—(हाथ छोड़कर) चमा करो । कल दूर देश को जा रहा हूँ मैं, तारा ।

तारा—यह क्या ? जाओगे कहाँ ?

—बहुत दूर ?

सग—मालूम नहीं—जिस ओर को चल दूँ ।

तारा—क्यों ? किसलिए ? कहो तो ।

सग—“किसलिए”—

तारा लुम हो सुखी । न पृछो “किसलिए ?”

यह सब कोई कविता नहीं है, बहुत ही सीधे सादे शब्द हैं,

परंतु इनके भीतर बहुत गहरा भाव है, जिसका दर्शाना बहुत कठिन है। सग देश से निकाला हुआ है, तारा का नौकर है, पर वह प्रेम के प्रवाह को नहीं रोक सका। इसलिए उसने सहसा तारा का हाथ पकड़ लिया, परंतु निराशा ने फिर गला धर दबाया। “क्षमा करो”— कविता के लिए गले में ताकत नहीं है। गभीरता और धैर्य ऊपर है, परंतु हृदय जल रहा है।

नूरजहाँ के आंतरिक क्लेश के दिग्दर्शन के लिए घोड़ा सा वार्तालाप—

शेर०—मेहर,—बहुत अच्छा खबर है।

नूर०—क्या स्वामी ?

शेर०—सम्राट् जहाँगीर ने मुझे पाँच हजारी का पद देकर आगरे में बुला भेजा है।

नूर०—सर्वनाश।

शेर०—यह क्या कहती हो। यह तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है।

नूर०—जाओगे ?

शेर०—जाऊँगा क्यों नहीं।

नूर०—मैं कहती हूँ, मत जाना।—खबरदार।

शेर०—इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो ? यह तो बड़े आनंद की बात है।

नूर०—बाव सुनो—कहती हूँ, मत जाओ—सावधान !
(तेजी से जाना)

ऊपर से पति-प्रेम, भीतर गौरव और लालसा के पूर्ण होने की आशा । इसी लिए इतनी उत्तेजना है ।

द्विजेंद्र बाबू के हाथ में औरगजेव उतना बुरा नहीं है जितना कि इतिहासज्ञों ने उसको दर्शाया है—

औरग०—आज ही ।

शायस्ता०—(मृत्युदंड का आज्ञापत्र औरगजेव के हाथ से लेकर) जितनी जल्दी बला टले उतना ही अच्छा ।

जिहन०—बदगो, जहाँपनाह ।

औरग०—ठहरो देखूँ । (दंड की आज्ञा को लेना, पढ़ना और फेर देना) अच्छा, जाओ । (जिहनर्षा जाना चाहता है, औरगजेव फिर उसे धुला लेता है ।)

औरग०—ठहरो (दंड की आज्ञा को फेर लेना और फिर फेर देना) अच्छा, जाओ । (जिहनर्षा का प्रस्थान)

(औरगजेव जिहनर्षा की ओर बढ़ता है, फिर लौटकर सोचता है)

औरग०—ना, जरूरत नहीं है ।—जिहनर्षा । जिहनर्षा । नहीं, चला गया ।—शायस्ताखाँ ।

शायस्ता०—खुदावद ।

औरग०—मैंने यह क्या किया ।

शायस्ता०—जहाँपनाह ने समझदारों का ही काम किया ।

औरग०—खैर, जाने दो ।

भाई से प्रेम है, परतु छठ नहीं, क्योंकि हृदय दुर्बल है, और इसी लिए वह कभी शायस्ताखाँ और कभी गुलनार की चाल में आ जाता है। रग-मच पर रुकते हुए शब्द ही छेश को सूचित करते हैं।

द्विजेंद्र बाबू के नाटकों में विदूषक के लिए तो कोई खास जगह नहीं है, पर हँसी से एकदम विरोध भी नहीं है। विचार-भ्रम पात्र कम हँसते हैं, और हलके हृदय के पुरुष और खो खूब हँसते हैं, परतु इन नाटकों में हास्यपूर्ण कोई भी नहीं है। हास्य की रोशनी केवल दु ख के अधकार को दर्शाने के लिए कहीं कहीं दिखाई देती है। इनके पुरुष पात्रों में नीचता और जाति-विद्रोह के लिए अधिकतर व्यग ही का दड ठाक समझा गया है।

हिदायतहुसैन शरीरी बधारना खूब जानता है, परतु हृदय का कच्चा है। सगरसिंह मुगल-सम्राट् की शरण में रहते बूढे होगये हैं, वह अपनी कमजोरी का हाल आप ही बतलाते हैं। उन्हें यह खबर नहीं कि वाल्मीकि कौन थे—“महर्षि वाल्मीकि कौन ? तुलसीदास के लडके ?” श्यामसिंह जाति-विद्रोही हैं, पर केवल कासिम की स्वामिसेवा को दर्शाने के लिए। दिलदार विदूषक बना हुआ है, पर उसकी बात में हँसी नहीं आती। औरगजेश उसको पहचान जाते हैं—“तुम कौन हो, ठीक बतलाओ, तुम तो कोई मसरपरे नहीं हो”। हँसी केवल मुराद की मूर्खता पर आती है। ‘चंद्रगुप्त’ में नद के

सालों ही पर हँसी की वौछार है। 'तारा' में पाभूराव की दुर्गति उसके दर्बारी ही करते हैं। 'भारत-रमणी' में उपेंद्र के भक्त ही अपने गुरु की नीचता दर्शाते हैं। 'पापाणी' में विश्वामित्र के घमड की खबर चिरजीव ही लेता है।

स्त्री-चरित्र को जितना अच्छा द्विजेंद्र बाबू अंकित कर सके हैं, कदाचित् कोई नाटककार अभी तक नहीं कर सका। उन्हें भारतीय स्त्री-जाति पर कुछ विशेष श्रद्धा थी। वह अपने गार्हस्थ्य-जीवन में उसका अनुभव कर चुके थे, इसी लिए उनके स्त्री-पात्रों में घृणित कोई नहीं है। गुलनार और सिंहबाहु की रानी तक से घृणा उत्पन्न नहीं होती। स्त्री का शरीर कमजोर है, परंतु उसके हृदय में असीम बल है। जब वह उग्र रूप धारण करता है, सत्तार हिल जाता है। बड़े बड़े अभिमानों वीर उसकी उँगली पर नाचने लगते हैं। उस समय उनमें हँसी का नाम भी नहीं रहता। पतित अहल्या के लिए भी घृणा-सूचक कोई शब्द नहीं है, और अतः द्विजेंद्र बाबू उसका भी उद्धार कर देते हैं। जब तक उसका हृदय किसी विशेष कामना से विचलित नहीं होता, उसके दिव्य रूप पर मुसकराहट ही झलका करती है। 'भीष्म' में अशिका और अंबालिका हँसती ही रहती हैं। उनके हृदय हलके हैं, उन्हें वैधुव्य भी नहीं सताता। शुजा पर मुसीबतों का बोझ लदा हुआ है, परंतु पियारा को गाना ही सूझता है। "सूबा छीन लिया जायगा। यही न? जाने दो। अब और तो कुछ कहने

को नहीं है, अथ मैं गाना गाऊँ ?” ‘सिंहल-विजय’ में लीला पर बड़ी बड़ी विपदायें पड़ती हैं, परंतु वह हँसती ही रहती है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम को छोड़ कोई और वासना नहीं है। इसी लिए उसके हृदय में शांति है, और चेहरे पर हँसी है। “मेरे जले हुए चमड़े को देखकर वे हट गये, चलो अच्छा ही हुआ। मेरे प्रेम का मोह दूर हो गया। अग्नि-परीक्षा में मलिनता जल गई”। माधुरी भी पति-प्रेम में मग्न रहती है, चिरजीव उसको चाहे जितना पीटे।

कहीं कहीं स्त्रियों का भोलापन आनेवाली घटनाओं को और भी अधिक हृदयद्रावक बना देता है। मेवाड की रानी सरल गृहिणी है, उसको मेवाड के ऊपर आनेवाली विपदा का ज्ञान नहीं। सरस्वती कि सास एक भोली-भाली माँ है। उसको यह नहीं मालूम कि चाँद ऐसी बह का रूप लडके से उसको छुड़ा देगा। ‘भारत-रमणी’ में कामिनी बेचारी एक पुराने खयाल की, समाज के बधनों से जकड़ो हुई, गृहिणी है। उसे सुशीला की बातें कुछ समझ ही नहीं पड़तीं। वह चोरी के इलजाम को भी चुपचाप सहन कर लेती है।

इस नाटकावली में कोई फैंल्टाफू (गृह-शूर) नहीं है, परंतु ‘हैस्लेट’ ‘आयेलो’ ‘मेकनेथ’ या ‘लियर’ की टकर के करुणा-जनक पात्रों की कमी नहीं है। इन नाटकों में करुणा-रस की प्रधानता के कई कारण हैं। प्रहसन यौवन का स्वप्न है। मनुष्य-जीवन की प्रौढ़ता तथा वृद्धावस्था अधिकतर

दुःखमय है। शेक्सपियर के प्रहसन भी जवानी के हैं, और दुःखान्त नाटक प्रोढावस्था के। दूसरे, जिस देश में हमारे नाटककार ने जन्म लिया है, उसकी अवस्था बहुत हीन है। समाज सैकड़ों रोगों से ग्रसित है, और इतिहास भी हमारे पतन ही का है, उन्नति का नहीं। द्विजेंद्र बाबू की लेखनी पर उस जातीयता की पश्चिमी वायु का अवश्य असर पड़ा है, जो मेकाले के प्रस्ताव के साथ जन्म लेकर अब सारे भारतवर्ष में व्याप रही है। इस कारण उनके उन्हीं पात्रों में जीवन अधिक है, जो उनकी जातीयता के भाव को प्रकट करते हैं। राणा अमरसिंह, महावतखाँ, सत्यवती, महामाया, हेलन, केदारनाथ, यह सब अपने अपने रूप में समय समय पर देश-प्रेम, जाति-प्रेम प्रकट करते हैं। एक बात और भी है। द्विजेंद्र बाबू को अपने गार्हस्थ्य-जीवन में पत्नी-वियोग का एक बड़ा भारी दुःख उठाना पड़ा। इस घटना ने इनकी स्त्री-परपरा को विशेषतः दिव्य बना दिया है। लीला, अर्वा, महामाया नूरजहाँ, लीला, जहाँआरा, हेलन, मानसी, सुत्री, सुशीला, कुवणी, अहल्या- (ऐसे चित्र किसी दूसरे नाटककार की कलम से नहीं निकले हैं। ताग से डेस्टिमोना की कोई समता नहीं। लीला बालक-वेष धारण करने पर भी रोजेलिड से कहीं बढ़कर है। हेलन और मानसी के विश्वप्रेम से शेक्सपियर स्वयं अनभिज्ञ थे। अर्वा, नूरजहाँ, कुवणी और सुशीला के आत्मिक बल की बराबरी लेडी मेकबेथ ही कर सकती है।

इन नाटकों में करुणा और हास्यरस दोनों विद्यमान हैं, और करुणा की मात्रा हास्य से अधिक है, परंतु 'तारा' और 'सीता' को छोड़कर और किसी का अत हृदय-द्रावक नहीं होता। 'तारा' के अत में अधकार ही अधकार है। 'हेम्लेट' 'लियर' और 'त्राशेलो' के भयकर दृश्य आँखों के सामने फिर जाते हैं। 'सीता' के अत का इससे अधिक हृदय-द्रावक दृश्य पहले ही से हृदय में अंकित है। और सब नाटकों के अत में दर्शकों को शांति की झलक मिल जाती है, तथा निद्रा भग नहीं होती। 'भीष्म' का अत शांतिमय है और उसको कृष्ण दिव्य भी बना देते हैं। 'दुर्गादास' के अत में नाटक के सब आदर्श इकट्ठे हो जाते हैं। 'सिंहलविजय' बहुत अधिक हृदय-द्रावक है, परंतु उसके अत में भी बौद्ध-धर्म के प्रचार का भार लेकर, विजयसिंह दर्शकों के भार को हलका कर देते हैं। 'प्रापाणी' में गौतम अहल्या को चूमा कर देते हैं, परंतु इससे भी द्विजेंद्रजी को शांति नहीं मिलती, वह फिर उसको रामचंद्रजी से शुद्ध कराते हैं। यदि 'उस पार' गार्हस्थ्य-जीवन को प्रलय में लीन कर देता है, तो 'मेवाड़-पतन' भारतवर्ष की स्वाधीनता के इतिहास का अंतिम अध्याय है। यों ही इन दोनों में कम दुःख नहीं है, परंतु देशपतन के बाद 'मानसी' हमको आशा की झलक दिखा देती है, और भाई भाई—अमरसिंह और महाबत, हिंदू और मुसलमान—फिर गले मिलते हैं, देश की आशा भी इसी में है।

‘चंद्रगुप्त’ के अत में छाया और हेलन के मिलन में पूर्वीय और पश्चिमीय सभ्यता के संयोग का दृश्य है। नूरजहाँ का पतन होने पर भी वह लैला से मिलती है। बाहर मेवगर्जन अवश्य है, पर इन माँ-बेटी के हृदय में शांति है। शाहजहाँ का पुत्र-प्रेम और इतिहास की आवश्यकता, दोनों मिलकर औरगजेब को भी अपने पिता से आशीर्वाद दिला देते हैं। इतिहास के बधन ने ‘शाहजहाँ’ में बहुत जगह त्रुटियाँ डाल दी हैं, परंतु ऐसे तूफान के बाद इतनी जल्दी शाहजहाँ को पानी पानी कर देना द्विजेंद्रजी ही का काम था। सामाजिक नाटकों में भी वैराग्य और शांति का मिलन है। ‘उस पार’ में भगवानदास और मुन्नी के अंतिम मिलन में प्रथम मिलन की लालसा के बदले उदासीनता और वैराग्य के ही भाव अधिक हैं। ‘भारतरमणी’ में उपेंद्र का उद्धार किया गया है, परंतु यदि इन सामाजिक नाटकों के अंत में किसी तरह कुछ भविष्य की आशा का चित्र भी अंकित किया जाता, तो हृदय को अधिक सात्वता मिलती।

जीवन में सुख के साथ दुःख का संबन्ध है। यदि नाटक उसका अच्छा चित्र है, तो उसमें भी दोनों भावों का समिश्रण रहना चाहिए। प्रस्तुत नाटकों को आप यूनानी नाटकों की तरह या शेक्सपियर के कुछ नाटकों के समान ट्रैजिडी (Tragedy) अर्थात् वियोगांत और कमेडी (Comedy) अर्थात् संयोगांत श्रेणियों में विभक्त नहीं कर सकते। कहानी के आधार

हिसाब से इनको सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटका विभक्त किया गया है। 'पापाणी', 'सीता' और 'भीष्म' पौराणिक नाटकों की श्रेणी में हैं, क्योंकि अहल्या का उल्लेख रामचरित-नस में भी है। साता की अंतिम कथा वाल्मीकीय मायण तथा उत्तर-रामचरित से ली गई है, और भीष्म महा-रत की कथा के प्रधान पात्र हैं। परंतु यह नाटक कथा के धन से नहीं बँधे हैं। अहल्या को पतित करने पर भी इद्राफ बचा दिये जाते हैं। 'सीता' में राम के चरित्र को रामायण उच्च पद से गिरा दिया है। केवल भीष्म का चरित्र कथानु-सार अंकित किया गया है। 'उस पार' और 'भारतरमणी' सामाजिक नाटक हैं। इनको यह पदवी इसलिए दी गई है कि उनमें हिंदू-समाज की प्रचलित कुरीतियों का दिग्दर्शन गार्हस्थ्य-जीवन के पतन-द्वारा कराया गया है। इनकी कथा के लिए कोई पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं है। घर घर इनका अभिनय हो रहा है।

द्विजेंद्रलाल के अधिकतर नाटक ऐतिहासिक हैं, क्योंकि इनकी कथा प्राचीन हिंदू इतिहास और आधुनिक मुगल तथा राजपूत इतिहासों से ली गई है। 'चंद्रगुप्त' और 'सिंहल-वेजय' में इतिहास का तो एक बहाना ही है, उनमें अधिकतर कल्पना का समावेश है। 'वारा', 'मेवाड़पतन' और 'दुर्गादास' के लिए नाटककार को सामग्री ही अच्छा मिली है। सच पूछिए तो भारतीय नाटक तथा काव्यसाहित्य के आधार तीन

ही पुस्तकें हैं—रामायण, महाभारत और टाड का राजस्थान 'तारा' राजपूताने के उत्थान, 'मेवाडपतन' उसके पतन और 'दुर्गादास' उसके उद्धार के सूचक हैं। राजस्थान में इन कहानी ही कम रोचक नहीं है, पर नाटककार ने भी अवस को हाथ से नहीं जाने दिया। 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' मुगल इतिहास के बधनों से जकड़े हुए हैं, तो भी जहाँ कल्पना के अवसर मिला है, वहाँ वह बधनों से भाग निकली है। लैला और पियारा द्विज बाबू ही के हैं, इतिहास के नहीं। औरगजेव के चित्र ने भी इतिहास को बहुत कुछ देखा दिया है।

परतु क्या इन नाटकों को कथानुसार ही विभक्त करना ठीक होगा ? क्या इनको विषयानुसार वा विचार-धारानुसार, श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते ? सबसे प्रेम का प्रवाह आदि से अत तरु है। कहीं वह दूसरी कामनाओं से टकर खाकर उबल पड़ता है, और महाविप्लव कर देता है, जैसे 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' में, कहीं वह शातिपूर्वक उमंगें लेता हुआ यवनिका में लीन हो जाता है, जैसे 'भानसी', 'विजयसिंह' या 'तारा' में, परतु वह जाति और गृह—दो धाराओं में बहता है। जाति-सेवा और पत्नी-प्रेम—यही दो द्विजेंद्र बाबू के आंतरिक जीवन के प्रधान अंग थे। वे एक दूसरे से न जीवन में अलग थे, न नाटकों में ही हैं, परतु यह मानना पड़ेगा कि कहीं एक प्रधान है, और कहीं दूसरा। यदि इस

प्रकार श्रेणीबद्ध करने का साहस किया जाय तो 'मेवाड-पतन', 'दुर्गादास', 'चद्रगुप्त', 'भीष्म' और 'तारा' जातीय नाटक हैं, 'सीता', 'पापाणी', 'उस पार', 'सिंहल-विजय', 'नूरजहाँ', 'शाहजहाँ', और 'भारत-रमणी', गार्हस्थ्य नाटक हैं।

निवेदन यह है कि नाटक की परख प्रधान पात्र और उनसे मिले हुए कथा के स्रोत के ढूँढ निकालने से होती है। उसी स्रोत से अन्य पात्रों को अपना अपना रूप-रस मिलता है, और उनका भाग्य प्रधान पात्र के भाग्य के साथ बदलता रहता है। 'मेवाडपतन' और 'दुर्गादास' के विषय में तो अधिक सदेह नहीं है। कथा का स्रोत मुगल और राजपूत के विद्रोह से बढ़ता है। अमरसिंह और महावतर्षाँ उस विद्रोह के नेता हैं, और विश्वप्रेमिणी मानसी उनकी समालोचक है। 'दुर्गादास' बहुत ही सरल है। दुर्गादास और महामाया उसके प्रधान पात्र हैं। और राजपूत जाति का उद्धार कथा का प्रधान उद्देश्य है। 'चद्रगुप्त', 'तारा' और 'भीष्म' के विषय में कुछ अधिक विचार करने की आवश्यकता है। 'भीष्म' के प्रधान पात्र साफ प्रकट हैं। यह रचना मानी नाटकरूप में भीष्म-चरित है। इसकी प्रधान घटना भीष्म-प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा पिता को प्रसन्न करने के लिए ही भीष्म ने की है। परंतु ब्रह्मचर्य के प्रण के पश्चात् अर्वा की प्रेमभित्ता का तिरस्कार करके ही वह अपने को गार्हस्थ्य-जीवन से मुक्त कर लेते हैं। उनका उद्देश्य आदि से अत तक एक राजा की लालसा से उत्पन्न अशक्त सतान के राज्य को

अपने कठिन व्रत से सँभालना ही है। यदि ध्यान से देखा जाय तो भीष्म महाभारत के राजनैतिक पात्र हैं। गार्हस्थ्य-प्रेम उनमें लेश भी नहीं।

'चद्रगुप्त' के प्रधान पात्र चाणक्य और हेलेन हैं। चाणक्य का उद्देश्य नद-वश को नाश कर, चद्रगुप्त को छत्र के नीचे देश को सगठित करना है। वह प्रधानतः राजनैतिक ही प्रवृत्ति है, यद्यपि कभी कभी गार्हस्थ्य-जीवन के सुख-स्वप्न की लालसा आकर उसके शून्य हृदय को विचलित कर देती है। हेलेन मानसी की सगी बहन है। उसका विवाह चद्रगुप्त के साथ एक गार्हस्थ्य-घटना नहीं है। यह विश्वप्रेम के लिए एक बलिदान है। इस विवाह में उदसव मनानेवाले साधारण गृहस्थ न होते हैं। यहाँ हिरोडोटस और व्यास, सुकरात और बुद्ध एकितित्व और भीष्म, पैथियन और पुराण एक होगये हैं। इस विवाह से पूर्व और पश्चिम, स्वर्ग और मर्त्य, इहकाल और परकाल एक दूसरे में लीन होगये हैं। और इस विवाह का अभिप्राय लेखक की आर से कालिदास और शेक्सपियर इस शताब्दी में कर रहे हैं। देश के गौरवकाल में जो विश्वप्रेम हेलेन विवाह के साथ अकुरित हुआ है, उसका हमारे जातीय अथ पतन के साथ मानसी में पूर्ण विकास होता है।

'तारा' के मुख्य पात्र पृथ्वीराज और तारा हैं। एक दूसरे से मिलन, प्रेम का उद्गार, विवाह, भ्रम और अंत में एक

अपने बहनेई के हाथ मरना और दूसरी का सती होना गार्हस्थ्य-जीवन की ही घटनाएँ मालूम होती हैं। परन्तु उनके नीचे जातीय प्रेम की एक तीव्र धारा बह रही है। तारा जयमल को लौटा देती है। इधर जयमल तारा को कुछ और समझे हुए था, इसलिए शूरतान के हाथ उसको प्राणदंड मिलता है। पृथ्वीराज ही टोडा के उद्धार से अनुज की विफल प्रतिज्ञा पूर्ण करता है, और राता को बरता है। तारा पृथ्वीराज ही से गार्हस्थ्य-प्रेम सीखती है। तारा देश के लिए अर्पण हो चुकी थी, पृथ्वीराज के शव पर तो अंत में अर्पण हुई।

जिन नाटको को गार्हस्थ्य-प्रेम दर्शक श्रेणी में रक्खा गया है, उनमें 'सीता' के विषय में अधिक नहीं कहना है। द्विजेंद्र बाबू भवभूति की कलम लेकर अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाये, या अनुवाद ठीक तरह नहीं हुआ। गार्हस्थ्य-प्रेम की स्वर्गीय धारा के साथ प्राचीन सामाजिक कुरीतियों की पुट देना कुछ शोभाजनक नहीं है, राम के गले उनको मढ़ना और भी अधिक पीडा-जनक है। मुँह से दुर्मुख के प्रति दुर्वचन फहलाना, और हाथ से शूद्रक का सिर कटाना—इन दोनों कर्मों से 'सीता' के राम इतने अशुद्ध होगये हैं कि हम उनकी चरण-रज अपने मस्तक पर नहीं लगा सकते।

'पापाणी' के पात्र अहल्या और इद्र हैं। लालसा के वश पतित होना और क्षमा-द्वारा पतित का उद्धार कराना, इस

नाटक का उद्देश्य है। वे-जोड़ विवाह से गार्हस्थ्य-जीवन को कौसी गहरी चोट पहुँचती है। द्विजेंद्र बाबू ने अपनी लेखनी की शक्ति से, दर्शकों को शब्दों की झुंझी का भुलावा देकर, इन पतितों को चमा करा दिया है, परंतु इतनी चमा मनुष्य-शक्ति के बाहर है।

‘उस पार’ और ‘भारतरमणी’ बंगाल की वर्तमान सामाजिक दशा का दिग्दर्शन कराते हैं, और इनके पात्र भी वही समाज के हैं।

‘उस पार’ के मुख्य पात्र भोलानाथ, भगवानदास और मुन्नी हैं। भोलानाथ का सरलता से लसा हुआ पौत्री-प्रेम, भगवानदास की रूप-लालसा, और मुन्नी का अपूर्व नैसर्गिक प्रेम—इन्हीं के सगठन से नाटक का जन्म हुआ है। सामाजिक नाटक एक ही देश-काल के लिए होते हैं। इनका अनुवाद होने से या सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो जाने से इनमें उतना बल नहीं रहता। ‘उस पार’ कुछ हद तक ऐसा ही नाटक है। बंगाल में इसका बड़ा आदर है, परंतु हिंदी भाषा में मूलनाटक का परिवर्तन होने पर भी, वह उतना ग्राह्य नहीं है जितना बंगाल में। भोलानाथ को लीजिए। आप अपनी पौत्री को प्रेम करना सिखाते हैं। जैसी बातें हमारे समाज में नई बहू की ननदों या भावजों किया करती हैं, वैसी बातें बूढ़े भोलानाथ के मुँह से हमारे हिंदी-रग-मच पर तो शोभा न देंगी।

स्वयं द्विजेंद्र वायू को छोड़ भोलानाथ की सग्लता किस मनुष्य के हृदय में पाई जाती है ? वह बंगाली 'आघेलो' है, और गौरीनाथ उसका 'आयागो' है । उसकी समझ ही में नहीं आता कि मनुष्य इतना नीच हो सकता है जितना गौरीनाथ है । उसने कभी सोचा ही नहीं कि सरस्वती को छोड़ भगवानदास कभी किसी पर-स्त्री से भी प्रेम कर सकता है । बूढ़े का विश्वास टूटने के साथ ही गार्हस्थ्य-जीवन का विप्लव है । जगह जगह भोलानाथ का चरित्र हृदय को पीड़ा पहुँचाता है । 'मेरा सर्वस्व ले लो, परंतु मुझे प्यार करो'— इस पीड़ा को पहुँचाना ही इस नाटक का उद्देश्य है ।

'उस पार' में गार्हस्थ्य-जीवन के टुकड़े टुकड़े उसके पात्र ही करते हैं, परंतु 'भारतरमणी' की दुःख-कथा के लिए समाज की एक विशेष कुप्रथा ही उत्तरदायिनी है । यह कुप्रथा हिंदू-समाज भर में व्याप्त है, परंतु बंगाल में इसका प्रचार बहुत अधिक है । सामाजिक प्रश्नों पर इसके पात्रों-द्वारा नाटककार ने अपने बड़े गभीर विचार प्रकट किये हैं, और इसी लिए यदि कोई भी नाटक सामाजिक कहा जा सकता है, तो वह यही है । यदि नाटक के पात्रों की ही ओर देखा जाय तो समाज के अत्याचार से गार्हस्थ्य-जीवन ही नष्ट होता है । देवेंद्र की एक लड़की को वैधव्य का रोना है । दूसरी ओपधि के न पहुँचने से असमय ही माँ की गोद सूना करके चल देती है । तीसरी ने पढी-लिखी होने के कारण समाज की कुरीतियों

के विरुद्ध विद्रोह का झुंझुंदा कर दिया है, वह ब्याह ही न करेगी और द्विजेंद्र बाबू उसकी सहायता के लिए भी तैयार हैं। चौथा पुत्र कुसगति में पडकर जेल की हवा खाता है। ऐसी दशा में पिता क्यों न पागल हो जाय और माता क्यों न घर से भाग निकले ? 'भारतरमणी' नाट्यके-कला विचार से प्रतिभाशाली न होने पर भी नाटककार के सब नाटकों से अधिक उपयोगी है। जो काम सामाजिक कानफ्रेंसों के प्रस्ताव नहीं कर सकते, वह इस नाटक के अभिनय से हो सकता है।

'सिंहलविजय', 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रक्खे गये हैं। 'सिंहलविजय' का वीज इतिहास में अवश्य है, परंतु चरित्र-चित्रण में नाटककार ने पूर्ण स्वतंत्रता ली है। इसी लिए यह नाटक 'शाहजहाँ' और 'नूरजहाँ' से अधिक पूर्ण है, यद्यपि बंगाली समालोचकों ने 'नूरजहाँ' और शाहजहाँ ही के प्रति विशेष भक्ति दिखाई है। इस नाटक के प्रधान पात्र विजयसिंह और कुवेणी हैं। उन्हीं के चरित्र के चारों ओर बंगाल और सिंहल की घटनाएँ घूमती हैं, और उन्हीं के मिलन तथा विच्छेद से नाटक के परदे बदलते हैं। सौत के पितृ-भक्त पुत्र के साथ दुर्बल-हृदय पिता का वर्ताव ही इस नाटक की कथा का केंद्र है। पात्रों के नाम राजसी हैं, नाटक का नाम 'राजनैतिक' है, परंतु घटनाएँ एक साधारण गृहस्थ ही के घर की हैं।

‘सिंहलविजय’ और ‘नूरजहाँ’ तथा ‘शाहजहाँ’ में अंतर यह है कि एक में तो मानुषिक हृदय की प्रत्येक कामना का निष्कटक उद्गार दिखाया गया है, और दूसरे में एक कामना का दूसरी कामना से युद्ध दिग्वाने का प्रयत्न किया है। द्विजेंद्र बाबू ऐसे सरल-हृदय नाटककार ने एक को तो विना विशेष प्रयत्न के अपूर्व रूप दे दिया है, परंतु दूसरा काम बहुत कठिन है। विशेष प्रयत्न करने पर भी चित्र त्रुटिमय है, और यदि बहुत कहा जाय तो यह मान सकते हैं कि शेक्सपियर की खूब नकल की गई है।

लीला, सिंहबाहु, विजयसिंह, कुवेणी और सूरमा के चित्रों की ओर देखिए। एक एक चरित्र में एक ही कामना का उद्गार है। अपने अधे न्याय-प्रेम के कारण सिंहबाहु का पतन होता है। विजयसिंह अपने पितृ-प्रेम के कारण निर्वासित किये जाते हैं। लीला अपने पति-प्रेम में मग्न है, उसका प्रेम स्वच्छ है, वह प्रत्युपकार नहीं चाहती। कुवेणी लालसा के तूफान में लीन हो जाती है। सूरमा गार्हस्थ्य-संगठन में विच्छेद होने देना पसंद नहीं करती, परंतु वासनाओं का रोकना अबला कन्या की शक्ति के बाहर है। नाटक का अंत सिंहबाहु की मृत्यु से होता है, परंतु परदा गिरने के पहले हमको आश्वासन हो जाता है कि सिंहल का उद्धार करने के लिए विजयसिंह ही इस तूफान से बचे हैं।

‘नूरजहाँ’ और ‘शाहजहाँ’ में कथा के इतिहास की शृंखला से बंधे होने पर भी कवि ने मनोविकार के

पारस्परिक युद्ध को दिखाने का प्रयत्न किया है। यह नाटक उद्देश्य-हीन है। कहा जाता है कि 'शाहजहाँ' का जितना आदर बंगला-रंग-मंच पर हुआ उतना द्विजेंद्र बाबू के और किसी नाटक का नहीं हुआ। द्विजेंद्र बाबू ने 'नूरजहाँ' की विशेषताओं को स्वयं नाटक की भूमिका में लिखा है। धुरधुर विद्वानों की राय में राय मिलाना सहज है, परंतु अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करना भी लेखक का कर्तव्य है, पाठक उससे सहमत हों या न हों। 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' द्विजेंद्र बाबू के श्रेष्ठ नाटकों में हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि स पहलुओं की तरफ देखते हुए 'मेवाड़-पतन' और 'उस पसोर' इनका पद कहीं तक ऊँचा है।

शाहजहाँ और नूरजहाँ के नाम से भारत का शिचित्त समाज अच्छी तरह परिचित है। उनका चित्र बचपन ही से हमारे हृदय में अंकित है। यदि कथा से कुछ हद तक परिचय हो, तो नाटक के दर्शकों की भीड़ और भी अधिक हो जाती है। इन नाटकों की कथा से हिंदू, मुसलमान, सभी परिचित हैं। भीष्म, अहल्या, अमरसिंह, चंद्रगुप्त से, मुसलमान बालकों की कौन कहे, हिंदू बालक भी इतने परिचित नहीं जितने नूरजहाँ, शाहजहाँ और औरंगजेब से। सीता से इतना अधिक परिचय है कि उनके चरित्र-अभिनय में कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। फिर इन पात्रों का समय भी इतना दूर नहीं है कि साधारण जन-समाज की

समझ में न आ सके, और न इतना निकट ही है कि उसमें कोई कौतूहल-जनक बात न मालूम पड़े। मुगल-साम्राज्य का विनाश हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ। उसके भय गौरव के चिह्न अब भी आगरे और दिल्ली में शान के साथ रखे हुए हैं। भीष्म, अहल्या, सिंहवाहु और चद्रगुप्त के समय की समझने के लिए कुछ कल्पना की मात्रा होनी चाहिए, जिसके लिए साधारण दर्शकों से आशा नहीं की जा सकती। नूरजहाँ की सज-धज से बेचारी अहल्या क्या मुकाबला करेगी? एक हीरे और मोतियों की चकाचौंध से घिरी हुई भारत-सम्राज्ञी, दूसरी साधारण वस्त्र पहने हुए तपस्विनी। तब पाठक जान सकते हैं कि किस पर अधिक करतल-ध्वनि होगी। कुछ लोगों के विचार से इतिहास शाहजहाँ के अभिनय में रुकावटें डालता है, पर हम समझते हैं कि वह नाट्यकला के मार्ग में भले ही रुकावटें डालता हो, पर अभिनय में तो सहायता ही पहुँचाता है।

इतिहास के साथ साथ पश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से भी इन नाटकों की कीर्ति को सहायता मिली है। अँगरेजी नाट्य साहित्य में—कदाचित् ससार के नाट्य-साहित्य में भी—शेक्सपियर से बढ़कर कोई दूसरा नाटककार नहीं हुआ। वह कोई दार्शनिक न था, और न मानवशास्त्र का अध्ययन किये हुए था। उस समय के रग-मचों पर अभिनय करने-वालों में एक वह भी था। उसने—जान-बूझकर नहीं—अपने अपूर्व मानवीय हृदय से परिचित कल्पना की तरंग

पारस्परिक युद्ध को दिखाने का प्रयत्न किया है। यह नाटक उद्देश्य-हीन है। कहा जाता है कि 'शाहजहाँ' का जितना आदर बँगला-रंग-मंच पर हुआ उतना द्विजेंद्र बाबू के और किसी नाटक का नहीं हुआ। द्विजेंद्र बाबू ने 'नूरजहाँ' की विशेषताओं को स्वयं नाटक की भूमिका में लिखा है। धुरधुर विद्वानों की राय में राय मिलाना सहज है, परन्तु अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करना भी लेखक का कर्तव्य है, पाठक उससे सहमत हों या न हों। 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' द्विजेंद्र बाबू के श्रेष्ठ नाटकों में हैं, परन्तु यह कहना कठिन है कि स पहलुओं की तरफ देखते हुए 'मेवाड़-पतन' और 'उस पसोर' इनका पद कहीं तक ऊँचा है।

शाहजहाँ और नूरजहाँ के नाम से भारत का शिचित्त समाज अच्छी तरह परिचित है। उनका चित्र वचन ही से हमारे हृदय में अंकित है। यदि कथा से कुछ हद तक परिचय हो, तो नाटक को दर्शकों की भीड़ और भी अधिक हो जाती है। इन नाटकों की कथा से हिंदू, मुसलमान, सभी परिचित हैं। भीष्म, अहल्या, अमरसिंह, चंद्रगुप्त से, मुसलमान बालको का कौन कहे, हिंदू बालक भी इतने परिचित नहीं जितने नूरजहाँ, शाहजहाँ और औरंगजेब से। सीता से इतना अधिक परिचय है कि उनके चरित्र-अभिनय में कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। फिर इन पात्रों का समय भी इतना दूर नहीं है कि साधारण जन-समाज की

समझ में न आ सके, और न इतना निकट ही है कि उसमें कोई कौतूहल-जनक बात न मालूम पड़े। मुगल-साम्राज्य का विनाश हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ। उसके भय गौरव के चिह्न अब भी आगरे और दिल्ली में शान के साथ खड़े हुए हैं। भीष्म, अहल्या, सिंहवाहु और चद्रगुप्त के समय को समझने के लिए कुछ कल्पना की मात्रा होनी चाहिए, जिसके लिए साधारण दर्शकों से आशा नहीं की जा सकती। नूरजहाँ की सज-धज से बेचारी अहल्या क्या मुक़ाबला करेगी ? एक हीरे और मोतियों की चकाचौंध से घिरी हुई भारत-सम्राज्ञी, दूसरी साधारण वस्त्र पहने हुए तपस्विनी। तब पाठक जान सकते हैं कि किस पर अधिक करतल-ध्वनि होगी। कुछ लोगों के विचार से इतिहास शाहजहाँ के अभिनय में रुकावटें डालता है, पर हम समझते हैं कि वह नाट्यकला के मार्ग में भले ही रुकावटें डालता हो, पर अभिनय में तो सहायता ही पहुँचाता है।

इतिहास के साथ साथ पश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से भी इन नाटकों की कीर्ति को सहायता मिली है। आंगरेजी नाट्य-साहित्य में—कदाचित् ससार के नाट्य-साहित्य में भी—शेक्सपियर से बढ़कर कोई दूसरा नाटककार नहीं हुआ। वह कोई दार्शनिक न था, और न मानवशास्त्र का अध्ययन किये हुए था। उस समय के रंग-मंचों पर अभिनय करने-वालों में एक वह भी था। उसने—जान-बूझकर नहीं—अपने अपूर्व मानवीय हृदय से परिचित कल्पना की धरम

में ही मानसिक जीवन के जो चित्र 'आथेलो', 'हेम्लेट', 'लियर' और 'मेकवेथ' में खींच दिये हैं, उनकी बराबरी करने-वाले अब भी कोई नाटक नहीं हैं। द्विजेंद्र बाबू ने पश्चिमी शिक्षा के भार से उन्मत्त होने के लिए ही इन नाटकों में मानसिक छेश का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। 'हेम्लेट' और 'आथेलो' के चरणों तक पहुँचने ही में 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' का गौरव है।

शाहजहाँ की तुलना लियर के साथ की गई है, परन्तु समालोचक स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि वह लियर के आदर्श तक नहीं पहुँच सका। यदि नाटककार इतिहास की शृंखला से न बँधे होते, तो कदाचित् शाहजहाँ को महल के बाहर ले जाकर यमुना के श्मशान पर समाप्त कर देते, या नूरजहाँ को इतने उच्च शिखर पर से एक-दम गिरने पर छियोपाट्रा की दशा तक पहुँचा देते। परन्तु नूरजहाँ तो इतिहास में पतन के पश्चात् भी बीस वर्ष तक जीवित रहती है, फिर वह उसको अंत में लैला से मिलाकर क्यों न शांत कर देते।

इतना होने पर भी द्विजेंद्र बाबू के महत्त्व में कोई कमी नहीं आती। बहुत संभव है कि यदि वह किसी दूसरी कथा को लेकर, जिसमें उनको अपनी कल्पना से अधिक सहायता मिलती, मानसिक छेश के दिखाने का प्रयत्न करते, तो नाटक को 'हेम्लेट' या 'आथेलो' की बराबरी तक पहुँचा देते। अपने काल्पनिक पात्रों में वह इस मानसिक क्लेश का दिग्दर्शन करा

चुके हैं। अहल्या में कर्तव्य और लालसा का संघर्ष देखिए, सूर्यमल में मेरुवेध की झलक देखिए, भोलानाथ में आधेलो के दर्शन कीजिए, और गौरीनाथ में आयागो का प्रतिविम्ब पहचानिए। परन्तु जिन नाटकों के यह पात्र हैं उनको मानसिक क्लेश दिखाने के उद्देश्य से नहीं, कदाचित् किसी दूसरे—और अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य से—नाट्यकार ने लिखा है, इसलिए यह नाटक हमारे बंगाली समालोचकों की दृष्टि में 'नूरजहाँ' और 'शाहजहाँ' से समता नहीं कर सकते।

मानसिक क्लेश का दुर्बोध होना ही उसका एक गुण है। द्विजेंद्र बाबू यह बात समझे हुए थे, और इसी लिए उनके विचार में नूरजहाँ का चरित्र विशेष प्रकार से जटिल और दुर्बोध हो गया है। संभव है कि नाटककार की सरल प्रकृति ने ही अपने से उत्पन्न चरित्र को जटिल समझा हो, परन्तु बात ऐसी नहीं है। 'नूरजहाँ' के अपने मुँह से कहने पर भी—आत्म-प्रतारणा करने पर भी—यह बात सहज ही समझी जाती है कि उसने बदला लेने के लिए सम्राट् से विवाह नहीं किया था। उसके मन में क्षमता और गौरव की आकांक्षा के साथ-साथ भोग-लालसा ही गुप्त-रूप से बलवती थी। द्विजेंद्र बाबू की सरलता और कला-कुशलता ने इस बात को समझने का मार्ग सर्वत्र ही सुगम कर दिया है। नूरजहाँ कुछ हेम्लेट नहीं है जिसके विषय में अभी तक यही निर्णय नहीं हुआ कि वह वास्तविक पागल था या बना हुआ।

‘नूरजहाँ’ और ‘शाहजहाँ’ के स्वध में मानसिक क्लेश के विषय पर चाहे जो कुछ कहा जाय, पर द्विजेंद्र बाबू की वृत्ति दूसरी ही ओर थी। उनका धर्म न सनातन है न आर्य, न हिंदू, न मुसलमान। उनका धर्म है प्रेम। इस प्रेम का स्रोत माता की गोद से उमड़कर पति-पत्नी के जीवन को साँचता हुआ देश-भक्ति में व्याप्त हो जाता है। परंतु उसकी सुगंधि देश ही के भीतर नहीं रहती, वह विश्वप्रेम के रूप में सर्व-व्यापी हो जाती है। गार्हस्थ्य-जीवन के अंत से, या देश के पतन से, उसका नाश नहीं होता। वह अमर और निर्विकार है। उसी के दिग्दर्शन में द्विजेंद्र बाबू का महत्त्व है, उसी में उनका गौरव है। यदि संसार को दिखाने योग्य द्विजेंद्र के कोई भी पात्र हैं तो वे नूरजहाँ, शाहजहाँ नहीं—मानसी, हेलेन और भोलानाथ हैं।

द्विजेंद्रलालजी के समय से बंगला-नाट्य-साहित्य ने जो उन्नति की है उसका अधिकतर श्रेय उपरोक्त नाटकों को ही प्राप्त है। हिंदी के मौलिक नाट्य-साहित्य की दशा अभी बहुत हीन है। इसकी उन्नति की आशा तभी की जा सकती है जब हिंदी-साहित्य में भी द्विजेंद्र ऐसे किसी नाट्यकार का जन्म हो*। इसके लिए इस प्रसिद्ध नाट्यकार के साथ वर्तमान

* हिंदी-संसार ने अपने होनहार साहित्यिकों की कदर करना नहीं जाना। हमारे मध्य भी एक होनहार नाट्यकार ने जन्म लिया जो दूसरा द्विजेंद्र होता यदि उसे हमारे लक्ष्मीपतियों और

परंतु जिस ढर्रे के उपन्यास अब तक हिंदी-साहित्य में पदा-
 ण कर चुके हैं उनके विरुद्ध समालोचक का अपनी कलम
 ठाने का अधिकार अवश्य है। उपन्यास लिखे जायें। फसली
 ज्ञानियो की बात दूसरी है। परंतु जिनको कुछ दिन साहित्य में
 टेकना है, वे कम से कम उस श्रेणी के न हों जिसके अंगरेजी
 या अन्य पश्चिमी साहित्यों में फसली उपन्यास भी नहीं होते।

हिंदी-साहित्य में उपन्यास तीन ढंग के हैं। एक तो वे हैं
 जिनकी नींव तिलस्म होशरवा पर है। हिंदी-साहित्य में इनके
 जन्मदाता बाबू देवकीनदन हैं। इनकी चंद्रकांता का कुछ दिन
 तक हिंदी समझनेवालों में बड़ा नाम रहा, लेकिन ने रुपया खूब
 कमाया, और जो हिंदी नहीं जानते थे उनमें से बहुतों ने ऐया-
 रियों के किस्से पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ी। इतना लाभ अवश्य
 हुआ, परंतु जो यह पूछे कि इनके उपन्यासों ने किसी का
 चरित्र सुधारा हो, किसी पाठक के विचार उन्नत किये हों,
 सो नहीं। देवकीनदनजी ने साहित्य-ज्ञान में वह फूल लगाये
 जिन्होंने खूब जगह घेरी, देखने में सुंदर भी, परंतु न खुशबू न
 बदबू।

दूसरी श्रेणी के उपन्यास वे हैं जिनकी नींव लदन-रहस्य
 पर है। यदि हम भूल नहीं करते तो इनके जन्मदाता पंडित
किशोरीलाल गोस्वामी हैं। मालूम नहीं अब वह कहाँ हैं। कोई
 समय था जब उनका बड़ा नाम था। उपन्यासों या उनके पात्रों
 का नाम न सुनिए। उद्देश्य बहुत ही अच्छा, पाप का फल देखो।

७—हिंदी में उपन्यास-साहित्य

हिंदी-साहित्य के भलेमानस समालोचकों को उपन्यास के नाम से चिढ़ है। साहित्य-भंडार में उपन्यासों की भरमार है, परंतु और किसी तरफ़ देखिए तो सन्नाटा है। उपन्यास बहुत हैं। उनके विषय में लिखना या साहित्य-प्रेमियों का उनकी ओर ध्यान दिलाना ठीक नहीं। प्रोत्साहन के लिए बहुत से अन्य विषय हैं। क्यों न हम कुछ काल के लिए उपन्यास लिखना बंद कर दें और साहित्य के अन्य अंगों को परिपुष्ट करने का प्रयत्न करें ?

यदि यह तर्क मान लिया जाय, तो इस लेख की कोई आवश्यकता न रहे। परंतु उपन्यासों की अधिकता होते हुए भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उपन्यास न-लिखे-जायें। जितनी भाषाएँ हैं, सभी के साहित्य में उपन्यासों की अधिकता है। उनका विषय ही ऐसा है। उनके समझने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं। उनसे मनोरंजन प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत दरकार नहीं। सँसार में विद्वानों तथा मेहनतियों की हमेशा कमी रहती है और रहेगी। इसलिए यदि उपन्यास सर्वप्रिय हों, यदि उनका प्रचार साहित्य में सबसे अधिक हो, तो कोई आश्चर्य नहीं।

परतु जिस ढर्रे के उपन्यास अब तक हिंदी-साहित्य में पदार्पण कर चुके हैं उनके विरुद्ध समालोचक का अपनी कलम चठाने का अधिकार अवश्य है। उपन्यास लिखे जायें। फसली कहानियों की बात दूसरी है। परतु जिनको कुछ दिन साहित्य में टिकना है, वे कम से कम उस श्रेणी के न हों जिसके अंगरेजी तथा अन्य पश्चिमी साहित्यों में फसली उपन्यास भी नहीं होते।

हिंदी-साहित्य में उपन्यास तीन ढग के हैं। एक तो वे हैं जिनकी नींव तिलस्म होशरवा पर है। हिंदी-साहित्य में इनके जन्मदाता बाबू देवकीनदन हैं। इनकी चंद्रकांता का कुछ दिन तक हिंदी समझनेवालों में बड़ा नाम रहा, लेखक ने रुपया खूब कमाया, और जो हिंदी नहीं जानते थे उनमें से बहुतों ने ऐयारियों के किस्से पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ी। इतना लाभ अवश्य हुआ, परतु जो यह पूछे कि इनके उपन्यासों ने किसी का चरित्र सुधारा है, किसी पाठक के विचार उन्नत किये हैं, सो नहीं। देवकीनदनजी ने साहित्य-कानन में वह फूल लगाये जिन्होंने खूब जगह घेरी, देखने में सुंदर भी, परतु न खुशबू न बदबू।

दूसरी श्रेणी के उपन्यास वे हैं जिनकी नींव लदन-रहस्य पर है। यदि हम भूल नहीं करते तो इनके जन्मदाता पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं। मालूम नहीं अब वह कहाँ हैं। कोई समय था जब उनका बड़ा नाम था। उपन्यासों या उनके पात्रों के नाम न सुनिए। उद्देश्य बहुत ही अच्छा, पाप का फल देखो।

परतु खूबी यह कि पाप का बुरा फल देखकर भी उस पर आसक्त हो जाओ और उसे गले लगा लो। ठीक है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्या रेनाल्ड्स का उद्देश्य बुरा था ? परतु लदन-रहस्य के चरित्र ? कौन माता-पिता ऐसे उपन्यासों को अपने नवयुवक बालकों के हाथ में देकर धर्रा न उठेगा ? यह वे फूल हैं जिनकी मनोहरता देखकर युवक भ्रमर उनकी ओर दौड़ते हैं, परतु जिनके हृदय में विष है जिसे पीकर वे पतित होते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि इस श्रेणी के उपन्यास-लेखकों का देशद्रोहियों की तरह मुख बंद कर दिया जाय। प्रयाप्त

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनीमत हैं। पर उनसे हमारे साहित्य का कोई गौरव नहीं। बंगला-साहित्य में बहुत से उच्च कोटि के उपन्यास हैं। यह उन्हीं के अनुवाद हैं, छायानुवाद हैं, या उन्हीं के ढर्रे पर लिखे हुए हैं। इनसे हिदी-साहित्य को कम से कम इतना लाभ अवश्य पहुँचा है कि लोग अच्छे बुरे का भेद तो समझने लगे हैं। यह बंगला साहित्य के लिये क्या कम गौरव-सूचक बात है कि उसके अनुवादों ने हिदी साहित्य के मौलिक उपन्यासों की आभा को फीका कर दिया है। यह वे फूल हैं जिनमें सुगंध है, अमृत है, सुंदरता भी है। परतु जिन्हें देखकर हम गर्व के साथ यह नहीं कह सकते कि यह हमारे ही हैं।

इन तीन श्रेणियों के उपन्यासों को साहित्य से निकाल डालिए। अब देखिए कितने उपन्यास बचते हैं। कोई भी उपन्यास-लेखक

इस साहित्य में है जिसकी तुलना बंगाल के बकिम और खॉट्र-नाथ या इंग्लिस्तान के स्काट और थैकरे से कर सकें? खूब हँडा तो एक महाशय मिले। उर्दू से तोडकर उन्हें किसी तरह हिंदी-साहित्य मंदिर की ओर लाये, तो कोई उत्साह बढ़ानेवाला नहीं। मुदरिंसी कीजिए या सपादकीय प्रूफरीडिंग कीजिए तो पेट का धधा चले। फलत आपके मौलिक उपन्यासों में सिर्फ एक है जिसे हम किसी अन्य साहित्य-प्रदर्शनी में भेज सकते हैं। उसके पश्चात् बस। प्रेमचंद जी से हमें अब भी आशा है। उनके 'वरदान' से हम सन्तुष्ट नहीं। परंतु क्या जब स्काट ने अपनी आवश्यकता के लिए लिखा तो उसकी प्रतिभा में भी फीकापन नहीं आगया? हम लोग आदर करना नहीं जानते। नहीं तो दूसरा 'सेवासदन' निरुलता, 'वरदान' की नौबत आती।

साहित्य में उच्च कोटि के मौलिक उपन्यासों की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि अन्य विषयों की हानि हो, परंतु हमें जाति के चरित्र तथा आदर्शों का भी खयाल है। इसलिए हमारा पाठक-समाज से अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई प्रतिभाशाली लेखक मिल जाय तो वे उसे सुरक्षित से जीवन व्यतीत करने का मौका अवश्य दें।*

* यह लेख क्षेत्र १९७८ से० की 'मयादा' में प्रकाशित हुआ था। तब से थय तरु प्रेमचंद जी के कह थच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी के मौलिक उपन्यास-साहित्य की अन्य कलाकोविदों ने भी पुष्टि की है।

परंतु खूबी यह कि पाप का बुरा फल देखकर भी उस पर आसक्त हो जाओ और उसे गले लगा लो। ठीक है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्या रेनाल्ड्स का उद्देश्य बुरा था? परंतु लदन-रहस्य के चरित्र? कौन माता-पिता ऐसे उपन्यासों को अपने नवयुवक बालकों के हाथ में देकर थर्रा न उठेगा? यह वे फूल हैं जिनकी मनोहरता देखकर युवक भ्रमर उनकी ओर दौड़ते हैं, परंतु जिनके हृदय में विष है जिसे पीकर वे पतित होते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि इस श्रेणी के उपन्यास-लेखकों का देशद्रोहियों की तरह मुख बंद कर दिया जाय। प्रयाप्त

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनीमत हैं। पर उनसे हमारे साहित्य का कोई गौरव नहीं। बंगला-साहित्य में बहुत से उच्च कोटि के उपन्यास हैं। यह उन्हीं के अनुवाद हैं, छायानुवाद हैं, या उन्हीं के ढर्रे पर लिखे हुए हैं। इनसे हिंदी-साहित्य को कम से कम इतना लाभ अवश्य पहुँचा है कि लोग अच्छे बुरे का भेद तो समझने लगे हैं। यह बंगला-साहित्य के लिये क्या कम गौरव-सूचक बात है कि उसके अनुवादों ने हिंदी साहित्य के मौलिक उपन्यासों की आभा को फोका कर दिया है। यह वे फूल हैं जिनमें सुगंध है, अमृत है, सुंदरता भी है। परंतु जिन्हें देखकर हम गर्व के साथ यह नहीं कह सकते कि यह हमारे ही हैं।

इन तीन श्रेणियों के उपन्यासों को साहित्य से निकाल डालिए। अब देखिए कितने उपन्यास बचते हैं। कोई भी उपन्यास-लेखक

इस साहित्य में है जिसकी तुलना बंगाल के बकिम और खॉट्र-नाथ या उँग्लिस्तान के स्काट और थैकरे से कर सकें ? खूब हँटा तो एक महाशय मिले । उर्दू से तोड़कर उन्हें किसी तरह हिंदी-साहित्य-मंदिर की ओर लाये, तो कोई उत्साह बढ़ानेवाला नहीं । मुदरिंसी कीजिए या सपादकीय प्रूफरीडिंग कीजिए तो पेट का धधा चले । फलतः आपके मौलिक उपन्यासों में सिर्फ एक है जिसे हम किसी अन्य साहित्य-प्रदर्शनी में भेज सकते हैं । उसके पश्चात् बस । प्रेमचदजी से हमें अब भी आशा है । उनके 'वरदान' से हम सतुष्ट नहीं । परंतु क्या जब स्काट ने अपनी आवश्यकता के लिए लिखा तो उसकी प्रतिभा में भी फीकापन नहीं आगया ? हम लोग आदर करना नहीं जानते । नहीं तो दूसरा 'सेवासदन' निरुलता, 'वरदान' की नौबत आती ।

साहित्य में उच्च कोटि के मौलिक उपन्यासों की आवश्यकता है । हम यह नहीं कहते कि अन्य विषयों की हानि हो, परंतु हमें जाति के चरित्र तथा आदर्शों का भी खयाल है । इसलिए हमारा पाठक-समाज से अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई प्रतिभाशाली लेखक मिल जाय तो वे उसे सुख से जीवन व्यतीत करने का मौका अवश्य दें ।*

* यह लेख चैत्र १९७८ सं० की 'मयादा' में प्रकाशित हुआ था । तब से अब तक प्रेमचदजी के कई अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं । हिंदी के मौलिक उपन्यास साहित्य की अन्य कलाकोविदों ने भी धृष्टि की है ।

परतु खूबी यह कि पाप का बुरा फल देखकर भी उस पर आसक्त हो जाओ और उसे गले लगा लो। ठोक है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्या रेनाल्ड्स का उद्देश्य बुरा था ? परतु लदन-रहस्य के चरित्र ? कौन माता-पिता ऐसे उपन्यासों को अपने नवयुवक बालकों के हाथ में देकर घर्षा न उठेगा ? यह वे फूल हैं जिनकी मनोहरता देखकर युवक भ्रमर उनकी ओर दौड़ते हैं, परतु जिनके हृदय में विष है जिसे पीकर वे पतित होते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि इस श्रेणी के उपन्यास-लेखकों का देशद्रोहियों की तरह मुख बंद कर दिया जाय।

प्रयाप्त

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनीमत हैं। पर उनसे हमारे साहित्य का कोई गौरव नहीं। बंगला-साहित्य में बहुत से उच्च कोटि के उपन्यास हैं। यह उन्हीं के अनुवाद हैं, आयातनुवाद हैं, या उन्हीं के ढर्रे पर लिखे हुए हैं। इनसे हिदी-साहित्य को कम से कम इतना लाभ अवश्य पहुँचा है कि लोग अच्छे बुरे का भेद तो समझने लगे हैं। यह बंगला साहित्य के लिये क्या कम गौरव-सूचक बात है कि उसके अनुवादों ने हिदी साहित्य के मौलिक उपन्यासों की आभा को फीका कर दिया है। यह वे फूल हैं जिनमें सुगंध है, अमृत है, सुंदरता भी है। परतु जिन्हें देखकर हम गर्व के साथ यह नहीं कह सकते कि यह हमारे ही हैं।

इन तीन श्रेणियों के उपन्यासों को साहित्य से निकाल डालिए। अब देखिए कितने उपन्यास बचते हैं। कोई भी उपन्यास-लेखक

इस साहित्य में है जिसकी तुलना बंगाल के बकिम और खॉदनाथ या इंग्लिस्तान के स्काट और थैकरे से कर सकें ? खूब ढूँढा तो एक महाशय मिले । उर्दू से तोड़कर उन्हें किसी तरह हिंदी-साहित्य मंदिर की ओर लाये, तो कोई उत्साह बढ़ानेवाला नहीं । मुदरि'सी कीजिए या सपादकीय प्रूफरीडिंग कीजिए तो पेट का धधा चले । फलतः आपके मौलिक उपन्यासों में सिर्फ एक है जिसे हम किसी अन्य साहित्य-प्रदर्शनी में भेज सकते हैं । उसके पश्चात् बस । प्रेमचंदजी से हमें अब भी आशा है । उनके 'वरदान' से हम सतुष्ट नहीं । परंतु क्या जब स्काट ने अपनी आवश्यकता के लिए लिया तो उसकी प्रतिभा में भी फीकापन नहीं आगमना ? हम लोग आदर करना नहीं जानते । नहीं तो दूसरा 'सेवासदन' निकलता, 'वरदान' की नौबत आती ।

साहित्य में उच्च कोटि के मौलिक उपन्यासों की आवश्यकता है । हम यह नहीं कहते कि अन्य विषयों की हानि हो, परंतु हमें जाति के चरित्र तथा आदर्शों का भी खयाल है । इसलिए हमारा पाठक-समाज से अनुरोध है कि यदि उन्हें कोई प्रतिभाशाली लेखक मिल जाय तो वे उसे सुख से जीवन व्यतीत करने का मौका अवश्य दें ।*

* यह लेख चत्र १९७८ सं० की 'मयादा' में प्रकाशित हुआ था । तब से अब तक प्रेमचंदजी के कई अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं । हिंदी के मौलिक उपन्यास-साहित्य की अन्य कलाकारों ने भी प्रुष्टि की है ।

८—सेवासदन

आधुनिक हिंदी-साहित्य में जितने उपन्यास और धार्मिक विवाद-पूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उतने और किसी विषय में नहीं हुए। साहित्य-वाटिका में घूमिए। बहुत कुछ जमीन उपन्यास ही घेरे हुए हैं। हिंदी रसिक दर्शको तथा साहित्य-सेवक मालियों का ध्यान भी इसी ओर है। ससार भर के भले-बुरे पौधे यहाँ मौजूद हैं। इधर देखिए तो वगाली वकिम और रवाँद्र के साहित्य सुमनो की कलम है, उधर गुजरात से लाई हुई सरस्वती-चंद्र की बेल है। कहीं हूगो और ड्यूमाज के ऐतिहासिक उपन्यासों की कलम लगाने की कोशिश हो रही है। कहीं कुछ सज्जन अँगरेजी-साहित्य को कूड़े-रुचरे से वाटिका को सुशोभित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक आध कोने में, छिपे हुए, इने-गिने साहित्य-प्रेमी अपनी सच्ची साहित्य-सेवा का बीज बोते दिखाई देते हैं।

हिंदी में अनुवादित उपन्यास बहुत हैं—अच्छे और बुरे दोनों। परन्तु मौलिक उपन्यास बहुत कम हैं। कथा-कहानियों की कमी नहीं है, क्योंकि उनका जन्म बहुत पहले हो चुका था। परन्तु उपन्यास ने हिंदी-साहित्य में अँगरेजी राज्य, अँगरेजी शिक्षा और आधुनिक रुचि के साथ ही अवतार लिया है। परलोकवासी बाबू देवकीनंदन खत्री ने बहुत पहले

ही इस अवतार की एवं आराधना की। उनके उपन्यासों ने अपने समय में साहित्य को बहुत कुछ लाभ पहुँचाया। समाज के चरित्र को प्रिना बहुत विगाडे उन्होंने हिंदी की ओर बहुत से उपन्यास-रसिकों को आकृष्ट किया। जिनको तिलिस्मी कहानियों से शौक था वे अब चंद्रकांता सतति पढ़ने लगे। लेखक को भी आर्थिक लाभ हुआ। बस, फिर क्या था। ऐयारी से पूर्ण उपन्यासों की धूम मच गई। काशी का उपन्यास-वृत्त इद्रायणी फलों से लद गया। कुछ महाशयों ने—नाम लेने की आवश्यकता नहीं—प्रेम की पुट देकर अपने उपन्यासों को और भी जहरीला कितु मनोहर बना दिया। इन विष-भरे कनक-घटों से 'अमृत' पीकर देश के 'रसिक' नवयुवक अपने चरित्र-पट पर नया रंग रँगने लगे। इस ओर समाज का ध्यान भी न गया। न लेखक ने सोचा और न पाठकों ने ही कि हमारे चरित्र के विषय में हमारी सतान क्या कहेगी, जब वह यह देखेगी कि हमको इन्हीं गंदे उपन्यासों से शौक था।

परतु आशा की भलक दिखाई दे रही है। अच्छे उपन्यासों का आदर बढ़ता जाता है, चाहे वे अनुवादित ही क्यों न हों। ऐसे समय में साहित्य-सेवियों का यह धर्म है कि अच्छे उपन्यासों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करें और उनके लेखकों का उत्साह बढ़ाते रहें। इसी धर्म को यथा-बुद्धि निबारने के लिए आज हम पाठकों से 'सेवासदन' का

परिचय कराते हैं। श्रीयुत 'प्रेमचंदजी' की आख्यायिकाओं से तो वे परिचित ही होंगे। यह उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ पहला उपन्यास है।

यह उपन्यास ऐतिहासिक नहीं। इसकी तुलना न तो बकिम-कृत दुर्गेशनदिनी से हो सकती है, न स्काट-कृत आईवन-हो (Ivanhoe) से। यदि तुलना हो सकती है तो रवोद्वनाथ या धैकरे कृत सामाजिक उपन्यासों से। परंतु इसमें भी कठिनाई है। सामाजिक उपन्यास के पात्र एक खास देश-काल से संबन्ध रखते हैं। उनका प्रभाव भी तभी तक रहता है जब तक कि समाज अपनी रगत न बदले। उसी देश में उनका आदर होता है जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। इसी लिए सामाजिक उपन्यासों का अनुवाद करना कठिन है और बेकार भी, अतएव एक दूसरे से इनकी तुलना करना कठिन है और अनुचित भी। इनके गुण-दोष समाज चित्रण ही पर आश्रित रहते हैं।

शैतान के दर्शन कराना बहुत अच्छा नहीं, और न उच्चकोटि के साहित्य में उसका चित्र खींचना सरल ही है। चित्र खींचने के दो ढंग हो सकते हैं। एक कुछ सरल है और चित्रकार के लिए अच्छी रकम पैदा करने का द्वार भी है। दूसरा कठिन है, परंतु यदि चित्रकार चतुर न हो तो मिहनत घाते में रहेगी, गॉठ से भी कुछ खा बैठेगा। एक चित्र इतना लुभावना बनाया जा सकता है कि आप उसी से प्रेम करने

लगे। दूसरा इस प्रकार दिखाया जा सकता है कि, दिव्य होने पर भी, उसकी ओर से आपके हृदय में भय तथा घृणा के भाव पैदा हों। इसी से इन दोनों के लिए साहित्य में भेद माना गया है। एक दूकानदारी है, दूसरा साहित्य का रत्न।

उदाहरण के लिए, डिकेंस और रेनाल्ड्स की ओर देखिए। इंगलिस्तान के निर्धन मजदूरों पर दोनों की कृपा है, उनके अपार कष्टों का चित्र दोनों ने खींचा है, उनकी दरिद्रता से उत्पन्न पापों का करुणा सूचक दृश्य दिखाने का प्रयत्न दोनों ने किया है। दोनों के हृदय में देश के अमीरों के चरित्रों की ओर से घृणा है। परंतु दोनों का क्रिया-कलाप अलग अलग है। डिकेंस के विषय में कहा जाता है कि यदि किसी उपन्यास-लेखक ने इंगलिस्तान के मजदूर दल को उद्धार करने में सहायता दी है तो डिकेंस ने। इसी से उसके उपन्यासों की गिनती देश के साहित्य-रत्नों में है। रेनाल्ड्स ने अपने देश को कहाँ तक लाभ पहुँचाया, इसका उल्लेख न करना ही भला है। ईश्वर करे, हमारा साहित्य रेनाल्ड्स की कृपा की छाया से वंचित रहे।

सौभाग्य की बात है जो 'सेवासदन' रेनाल्ड्स के उपन्यासों की श्रेणी का नहीं होने पाया। उसमें समाज के उस शैतान का चित्र खींचा गया है जो हमारे शहरों के खास खास बाजारों के छज्जों को सुशोभित किये हुए है। लेखक ने इस कठिन कार्य को बड़ी चतुराई के साथ पूरा किया है।

जहाँ-तहाँ भाषा तथा भाव में दोष दिखाये जा सकते हैं। कहानी भी एरु-आध जगह जग असबद्ध सी जँचेगी। लेखक के चरित्र-चित्रण से भी, कहीं कहीं पर, पाठक सहमत न होंगे। परतु यह कहीं नहीं होने पाया है कि दालमंडी की गदी वायु में धूमते हुए भी आपके विचार कलुषित हो जायँ। पाठक के भाव या तो पद्मसिंह से मिलेंगे या विठ्ठलदास से। सदन या भोली से सहानुभूति होकर उनके मन में लालसा के भाव न उत्पन्न होंगे।

वारवनिताओं का आदर होने से गृहस्थाश्रम का अध पतन होता है। सेवासदन में कही गई कहानी के द्वारा उसके उद्धार की रीति बताई गई है। इस उपन्यास का प्रधान उद्देश यही है। परतु इसमें प्रत्येक पात्र के चरित्र से एरु न एरु शिक्षा मिलती है। कृष्णचंद्र सच्चे हैं, परतु उन्हें अपने सत्य को देश की दहेज प्रथा-रूपिणी भीषण दुर्देवी के चरणों में बलिदान करना पड़ता है। अपनी दुत्तारी और शिचिता लडकी के विवाह के लिए दहेज की रकम जुटाने को वह रिगवत लेते हैं, पकड़े जाते हैं, कैद भुगतते हैं। घर मटियामेट हो जाता है। एक लडकी निर्धन वर के गले मढी जाती है, दूसरी दासी होकर अपना समय काटती है, स्त्री मानसिक छेश का शिकार बन कर बहुत शीघ्र ससार से कृच कर जाती है। इस अग्नि-परीक्षा में हरिश्चंद्र ही का सत्य टिक सकता था। जेल से लौटने पर कृष्णचंद्र के चरित्र का अच्छी तरह पतन हो गया है। लेखक

बहुत देर तक उनको हमारे सामने नहीं रहने देते। विपत्ति-सागर में दो-चार और गोते लगाकर वह हमारी दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं।

कृष्णचंद्र का सा शोकमय अंत और किसी का नहीं। बाकी चरित्रों के पाठ से कहीं आनंद है, कहीं शोक और कहीं विप्लव, परंतु अंत शांतिपूर्ण है। इन चरित्रों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य चरित्र सुमन का है।

अत्युक्ति न समझिए, सुमन ही के चरित्र-चित्रण में उपन्यास का गौरव है। उसी में उपन्यास के प्राण हैं। सुमन के चरित्र में यदि कहीं भी बट्टा लग जाता तो उपन्यास किसी काम का न रहता। लेखक महाशय उसे पढा-लिखा कर, और शारीरिक सुख की शोकीन बना कर, पंद्रह रुपये महीने पर नौकर एक अघेड ब्राह्मण के साथ ब्याह देते हैं। चरित्र-चित्रण में सुमन को एक इसी बात ने बचा लिया है कि वह भारतीय नारी है। वह पतिदैवत है सही, परंतु आत्मगौरव और शारीरिक सुख की लालसा उसको वह अंत निवाहने नहीं देती। इधर वह देखती है कि समाज में पातिव्रत की कोई कदर नहीं। घर के सामने ही वह देखती है कि पतिता भोली का आदर-सम्मान बड़े बड़े धर्मज्ञ करते हैं, पर उसके लिए इतना भी नहीं कि वह अपना मर्यादा को एक नीच सिपाही के हाथ से भी बचा सके। पति महाशय (गजाधरजी) क्या करें। पत्नी के बखामूपण और मान-प्राप्ति की लालसा को वह कुछ और ही

तमभे । एक दिन आग लग ही तो गई । सुमन गृहिणी के उच्च पद से गिर गई ।

परतु अभी कुछ और पतन होना बाकी है । दूसरे दृश्य में उसे हम दालमडी के एक कमरे में देखते हैं । यदि लेखक महाशय जरा भी चूक जाते तो सुमन के पतन की पराकाष्ठा हो जाती । सदनसिंह के प्रेम-पाश में सुमन फँस जाती है, परतु पतित नहीं होने पाती । इसके पहले ही समाज-सुधारक विठ्ठलदास उसके उद्धार के लिए पहुँच जाते हैं । पर उसका उद्धार नहीं होता । विधवा-आश्रम में उसका बहुत शीघ्र लाया जाना, समाज की कृपा से उसके उद्धार-विरुद्ध कठिनाइयों का पडना, शांता की विपत्ति, उसके भावी श्वसुर सदनसिंह का विरोध—इनमें से किसी एक का भी काम कर जाना सुमन को गिरा देने के लिए काफी था । परतु लेखक उसको हर तरफ से बचा कर अंत में सेवासदन की सचालिका का पद तक दे देते हैं । सुमन ने अपने ही को नहीं, उपन्यास को भी गिर जाने से बचा लिया ।

स्त्री-पात्रों में यदि प्रधान चरित्र सुमन का है तो पुरुष-पात्रों में पद्मसिंह का मानने योग्य है । कथा-प्रसंग में वह कुछ देर बाद दिखाई देते हैं । परतु फिर वह दृष्टि के सामने से नहीं हटते । पद्मसिंह एक साधारण समाज-सुधारक हैं । विचारों के बहुत ऊँचे हैं, हृदय के बहुत कोमल हैं, परतु हैं बड़े दबू । ऐसे पुरुष लेखक चाहे जितने लिख मारें, वक्तूताएँ चाहे जितनी

भाड आर्यें, परतु मौज़ा पडने पर रहेंगे सबके पीछे । नाच के बडे विरोधी, परतु मित्रों ने दबाया तो जलसा करा बैठे । इसका उन्हें बहुत कुछ प्रायश्चित्त भी करना पडा—न यह नाच होता, और न सुमन घर से निकाली जाती । वह विट्टलदास की शरण लेते हैं । परतु उनसे पद्मसिंह की नहीं बनती । जैसे वह कर्म में कच्चे हैं, वैसे ही विट्टलदास विचार में कच्चे हैं । चदा वसूल करने में रुठिनाई, वारागनाओ को शहर के बाहर जगह देने के प्रस्ताव का म्यूनीसिपैलिटी के मेंबरों-द्वारा विरोध, इधर घर में सदनसिंह की जियादती, उधर सुमन की छोटी बहन शांता के साथ सदनसिंह के विवाह में विघ्न पडने की चोट—पद्मसिंह विलकुल ढीले पड गये । परतु विचार-शक्ति में रुमी नहीं पडी । उन्हीं के द्वारा लेखक महाशय ने अपना विचार प्रकट किया है कि वार-नारियो को निकाल देने ही से सुधार न हो जायगा । क्यों न उनको और उनकी सतान को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाय ? इस विचार को विट्टलदास सेवा सदन के रूप में परिणत करते हैं । परतु पद्मसिंह के हृदय में अत तक भय की सत्ता बनी रहती है । भेष के मागे वह सेवा-सदन में नहीं जाते, कहीं ऐसा न हो जो सुमन से चार आर्यें हो जायँ ।

ऐसे और भी अनेक पात्र हैं । परतु लेख बढ जाने के भय से हम उनका वर्णन न करेगे । सरला शांता को अनेक फट सहन करके भी, अत में, सौभाग्यवती गृहिणी का सुख भोगना

वदा था। चंचला परतु पतिव्रता सुभद्रा, अनेक आपदाएँ भेल कर भी, पति के सामने हँसती ही रहती है। गृहस्थ गजाधर के सन्यासाश्रमी अवतार गजानंद, अत में, बहन के घर से निकाली हुई किसी समय की अपनी पत्नी को शोक-सागर से उबार कर शांति-प्रदान करते हैं। पुराने विचार के देहाती गईस मदनसिंह नाच कराने में अपनी मर्यादा समझते हैं। दुलार से विगडे हुए नवयुवक सदनसिंह का पतन, और अपनी ही मिहनत-द्वारा उद्धार, म्यूनीसिपैलिटी के मेंबरों में से कोई गान-विद्या और हिंदी का शौकीन है, किसी को अँगरेजी बोले बिना चैन नहीं, किसी के दुर्व्यसन वैसे ही हैं जैसे उसके दुर्विचार—इन सबके लिए इस उपन्यास में जगह है, सबके चित्र देखने को मिलते हैं, सबसे किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है।

उपन्यास के पात्रों से दृष्टि हटा कर यदि वह उसके उद्देश की ओर प्रेरित की जाय तो एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न सामने आ जाता है। क्या वह 'सेवासदन', जिसकी भूलक हम उपन्यास-स्वप्न में देखते हैं, कभी प्रत्यक्ष भी देखना नसीब होगा ? प्रश्न कठिन है। शहरों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस काम को म्यूनीसिपैलिटियों के भरोसे छोड़ देने से सफनता होने की नहीं। देखें, हमारा व्यवस्थापक-सभाएँ इस प्रश्न का क्योकर हल करती हैं। लेखक के विचार यदि उपन्यास के बहाने पाठक-जनता पर कुछ भी

असर करे तो समाज एक बड़े बुरे रोग से मुक्त हो जाय ।

उपन्यास में दोष दिखाने के लिए बहुत कम जगह है । पुस्तक छपने में यत्र तत्र गलतियाँ रह गई हैं । मुसलमानों की उर्द बहुत छिष्ट है । यदि सरल हो सकती तो बहुत अच्छा था, टिप्पणी में कठिन शब्दों का अर्थ ही लिख दिये जाते तो पाठकों को बहुत सुभीता हो जाता ।

हम आशा करते हैं कि लेखक महाशय की लेखनी से और भी अच्छे अच्छे उपन्यासों की सृष्टि होगी । ईश्वर करे, वह समय शीघ्र आवे जब हमें यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हो कि हिन्दी-साहित्य में भी थैकरे, डिकेंस, स्काट और र्वॉद्र की कमी नहीं है ।



६—प्रेमाश्रम

प्रेमचदजी से हम निराश हो चुके थे। 'सेवासदन' के पश्चात् 'वरदान' के दर्शन होने पर हमें बहुत शोक हुआ था। 'वरदान' क्या था, रुपये की आवश्यकता थी, समय का अभाव था, और वे-मन का काम था। फिर हमने सुना, कि वह किसी स्कूल के हेडमास्टर होगये, उसे भी छोड़ कर किसी पत्रिका के संपादक होगये। हमने आशा छोड़ दी। देश में साहित्य-रत्न के इतने कम जौहरी हैं कि वह मुदरि'सी या संपादकीय प्रूफरीडिंग किया करे। किसी और देश में 'सेवासदन' के लेखक को साहित्य-संसार ने जन्म भर के लिए स्वतंत्र कर दिया होता। परंतु यहाँ साहित्य-सेवा आप शौकिया कर सकते हैं, पेट के लिए कोई और धधा चाहिए। अस्तु।

'वरदान' के बाद 'प्रेमाश्रम' के दर्शन हुए। फिर वही आशाएँ अकुरित हुईं। हिंदी-साहित्य के सौभाग्य से प्रेमचदजी की लेखनी में कोई भी शिथिलता नहीं आने पाई। संसार दूसरा है, समय भी दूसरा है। 'सेवासदन' में चित्र कम हैं, पर साफ हैं। 'प्रेमाश्रम' में चित्र बहुत हैं, और उनमें से कुछ दुर्बोध भी हैं, पर चित्रणकला में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई है। 'सेवासदन' का उद्देश सामाजिक है, और

प्रेमाश्रम का राजनैतिक, परंतु दोनो देश-प्रेम के सूत्र में बंधे हैं। हिंदी सप्ताह के उपन्यास-साहित्य में 'प्रेमाश्रम' 'सेवासदन' से कम नहीं है। और यदि किसी पुस्तक के प्रभाव से उसके पद का निरीक्षण हो, तो शायद 'प्रेमाश्रम' आधुनिक भारतीय उपन्यास-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उतरे।

'प्रेमाश्रम' की समालोचना करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करें? बकिमचंद्रजी के उपन्यासों को देखकर अंगरेजी-साहित्य से परिचित समालोचक तुरंत कह सकते हैं कि यह स्काट के ठर्रे के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रवींद्रनाथजी के उपन्यासों को आप सामाजिक कह सकते हैं। आपको अंगरेजी-साहित्य में इनकी जोड़ के बहुत से उपन्यास-लेखक मिलेंगे। जार्ज इलियट, धैरूरे, या डिकेंस, इनके तथा रवींद्रनाथजी के उपन्यास-क्षेत्र में कोई भारी भेद नहीं है। परंतु प्रेमचंदजी के उपन्यास इन श्रेणियों में से किसी में नहीं आ सकते। इन उपन्यासकारों का काम यह है कि किसी समय के समाज का चित्र खींच दिया, और पात्रों से सहानुभूति दिखाकर, उनकी हँसी उड़ाकर, या उन्हें नीचा दिखाकर, पाठकों के चरित्र सुधारने का प्रयत्न किया। परंतु इनमें भविष्य का चित्र नहीं है। कला में शायद यह प्रेमचंदजी से अधिक निपुण हों, परंतु इनमें वह उत्तेजना-शक्ति नहीं, इतना कल्पना का विकास नहीं। वे समाज के सामने एक आइना रख सकते हैं जिसे देखकर वह हँसे या कुड़े,

परंतु उस आइने के पीछे कोई चित्र नहीं, जिसकी सुदृढ़ तक पहुँचने के लिए उसके हृदय में उत्तेजना हो।

‘प्रेमाश्रम’ के उपन्यास-पट पर सामने तो १८२१ भारतीय समाज का स्पष्ट चित्र है, और पीछे किसी भी भारत की छाया है। ऐसे चित्र का क्या नामकरण है? क्या ‘प्रेमाश्रम’ दार्शनिक उपन्यासों की श्रेणी में रख जाय ?

श्रेणी-बद्ध करना समालोचक के काम को सरल करने परंतु हम उसे ऐसा करने में असमर्थ हैं। अस्तु, चाहे कठिनता हो, हम बिना नामकरण किये ही इस अवलोकन करते हैं।

उपन्यास की भूमिका प्रायः यों होती है—कोई पद दृश्य है, प्रकृति का कोई विलक्षण आभास है। पात्र दर्शन हुए। कोई राजकुमार है, तो कोई उसका सखा या वैरी है। दैवयोग से किसी नवयौवना से भेंट हो जाती है। वह भी कोई राजकुमारी है। पर उसका पिता विवाह के लिए राजी नहीं होता। बहुत-सी कठिनाइयों के बाद—जिसे और भी उसी मेल के पात्र अपना दर्शन देते हैं—मिलन प्राणांत का विवरण देकर कहानी समाप्त होती है।

और उनके तिलिस्मो के मुकाबले विचारे लखनपुर या हाजीपुर के भोपडो को कौन देखता है। सेवासदन का प्रसंग तो शायद, प्रचलित उपन्यासों के पाठक समझ सकें। प्रेमाश्रम में क्या है। भला दुसरन भगत, मनोहर, गौसख़ाँ, कादिर मियाँ और बेगार के दिहाती भगडो में क्या मनोरजन।

यह प्रेमचंदजी का ही काम था कि दिहाती भगडो का रूढ़ि-जनक दृश्य दिखाने में वह सफल हुए हैं? यों तो राय रूमलानंद, गायत्री, विद्या, ज्ञानशंकर, ज्वालासिंह, डा० इफ़ानख़ली के गग-रंग नगर-निवासियों के हैं, परंतु उनका अस्तित्व दिहात ही से है। सुक़रू, विलासी, मनोहर, बलराज, कादिर मियाँ—यह सब तो पूरे दिहाती ही हैं।

चरित्र-चित्रण-कला का जाने दीजिए। शायद किसी और समय, दिहात और बेगार, सुक़दमेजाजी और नौकरी के प्रश्न इतने रुचिकर न होते, पर यह उपन्यास सन् १९२१ का लिखा हुआ है। और उस वर्ष के अंदर जितना आंदोलन और राजनैतिक ज्ञान दिहातों में पहुँच गया, उतना शायद ही साधारणतः ५० वर्ष में पहुँचता।

प्रेमाश्रम हाजीपुर का दूमरा नाम है, परंतु उपन्यास का नौब में लखनपुर है। वह बनारस के पास हो या कलकत्ते के—इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुक़रू चाधरी के-से पचाँ के

रौडहर, कादिर मियाँ के से नरम दिहाती नेता, - मनोहर के से, अकखड किसान, बलराज के से उदार-हृदय, बलिष्ठ, - नवयुवक भारतवर्ष को प्रत्येक गाँव में देख सकते हो। यों तो यह बहुत समय से अज्ञानावस्था का सुख भोगते चले आ रहे थे। उनके प्रभाशकर के से जिर्मादार थे, जिनको अभी तक पाश्चात्य सभ्यता की हवा नहीं लगी थी, जो अभ्यागतों के सम्मान में अपनी इज्जत समझते थे, जिनको अपने आसामियों के प्रति सहानुभूति थी, जिन्हें अदालत जाते डर लगता था। ऐसे समय जिर्मादार भी सुखी थे, और उनके किसान भी।

परंतु इधर पश्चिमी सभ्यता का आगमन हुआ। चीजों की निरख बढ़ी, सो तो ठीक ही था। मालिकों की आवश्यकताएँ भी बढ़ीं। जिन जिर्मादारों के पुरखे बहेलियों पर चढ़ते थे, घुटने के ऊपर तक धोती और चार आने सिलाई का अँगरेजी या मिर्जाई पहनते थे, उनकी सतानो के लिए मोटर की सवारी, लुबी रेशमी किनारे की धोती और साहबी ठाट चाहिए। दिहात की उन्नति कौन करता है। इजाफा और बेदखली का अत्याचार होना आवश्यक था।

अभी तक लगनपुर पर सिर्फ उन्हीं मनुष्यों का अत्याचार है, जो वर्षा-ऋतु के बाद गाँवों पर धावा करते हैं। अभी ज्ञानशकर ने जिर्मादारी पर हाथ नहीं लगाया। इसलिए अभी मनोहर के माथियों का यही विचार है, कि अँगरेज हाकिम अच्छे होते हैं। परंतु इधर प्रभाशकर का

बुढापा, जिर्मादारी की आमदनी से ज्यादा खर्च, और उधर ज्ञानशकर पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव और यौवन की उमर ! ज्ञानशकर ने हर तरफ हाथ बढाना शुरू कर दिया । बस, इनके पदार्पण से उपन्यास का प्रादुर्भाव होता है ।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि इस उपन्यास में कोई नायक या नायिका हैं या नहीं ? यदि हैं, तो कौन हैं, और नहीं-हैं- तो क्यों नहीं ?

यह तो मान ही नहीं सकते कि इस उपन्यास में नायक और नायिका हैं ही नहीं । यदि चरित्र की उज्ज्वलता पर ही ध्यान दिया जाय, तो एक ओर प्रेमशकर और दूसरी ओर विद्या—यही पात्र लेखक के आदर्श मालूम पडते हैं । लखनपुर में कादिर मियाँ और शहर में राय कमलानन्द, इन पात्रों की ओर भी लेखक का आदर-भाव है । परतु हमारा विचार है कि चरित्र की उज्ज्वलता ही का कसौटी पर नायक तथा नायिका का परख नहीं कर सकते । देरना यह चाहिए कि किस चरित्र के चित्रण में लेखक ने अधिक परिश्रम किया है, किस पात्र के सहारे कहानी आगे बढती है, और किसके न होने से उसका अर्थ हो जाता है । बकिम की 'दुर्गेश नदनी' में जगत्सिंह प्रेमी है और तिलोत्तमा उसकी प्रेमिका, परतु आयेशा उपन्यास की नायिका है । 'सेवासदन' में उपन्यास को सुमन का सहारा है, यद्यपि चरित्र विठ्ठलदास का ही आदरणीय है । इस उपन्यास में ज्ञानशकर का चरित्र

आदरणीय नहीं है। गायत्री भी विद्या के सामने तुच्छ मालूम पड़ती है। परंतु ही यही उपन्यास के नायक और नायिका। ज्ञानशंकर न होते तो कोई लखनपुर का नाम ही न सुनता। इतिहास तो विपत्तियों का ही लिखा जाता है। देखिए न, भविष्य में समृद्धिगाली, सुखभय लखनपुर की भूलक दिखाने में लेखक ने कितने कम पन्ने रंगे हैं। यदि प्रभाशंकर मालिक बने रहते, तो मनोहर से क्यों भगडा उठता, इजाफे की क्यों तजर्बाज होती। उपन्यास के लिए एक शिक्षित, उत्साही, ऐश्वर्य-लोलुप, परंतु चरित्रहीन नायक की आवश्यकता थी। ज्ञानशंकर की सृष्टि करना लेखक के लिये आवश्यक था।

ज्ञानशंकर का चरित्र बहुत जटिल है। एक भारतीय नवयुवक पर पश्चिमी शिक्षा की नई रोशनी का प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ता है, यह बहुत ही खूबी के साथ दिखाया गया है। यह बात नहीं थी कि उक्त शिक्षा ने उसकी भारतीय आत्मा को ही नष्ट कर दिया हो। जब कभी किसी पवित्र आत्मा के सामने उसकी ऐश्वर्य-लोलुपता का परदा हट जाता है, तो हमें उसकी अंतरात्मा के मधुर प्रकाश की भूलक देव्य पड़ती है, परंतु फिर परदा गिर जाता है, और ज्ञानशंकर फिर उसी ऐश्वर्य-छाया की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ज्ञानशंकर नायक होते हुए भी अपने भाग्य का विधाता नहीं है। विधाता काल है। वह ममभक्ता है कि

अपनी चतुरता के बल पर वह अपना भविष्य आनदमय बना सकेगा, परंतु काल उसे भी नचाता है। प्रभाशकर की भलमन-साहत, प्रेमशकर के त्याग, गायत्री की लालसा, ज्वालासिंह के स्वाभिमान, राय कमलानन्द की निष्काम-ससार-परता—सभी से वह लाभ उठाता मालूम होता है। पर किसलिए ? पुत्र भायाशकर के लिए ? क्या यह निश्चय है कि उसकी वृत्ति अपने पिता के पदांक का अनुसरण करेगी ? वह भविष्य जिसके लिए ज्ञानशकर ने राय कमलानन्द को जहर दिया, और गायत्री को फँसाने का प्रेम-जाल रचा, उसके हाथ से निकल कर प्रेमशकर से मिल गया। राय कमलानन्द की भविष्यवाणी पूर्ण हुई “धन सपत्ति तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम जो चालें चलोगे, सब उलटी पड़ेगी।” There is a destiny that shapes our ends, Rough hew them how we will मनुष्य कितना दीन, कितना परवश है ! और भावी कितनी प्रबल, कितनी कठोर ! ऐश्वर्य-लोलुपता का ऐसा विशाल चित्र हिंदी-साहित्य भर में शायद ही और हो।

उपन्यास के दो अंग हो सकते हैं। एक सामाजिक, दूसरा राजनैतिक। ज्ञानशकर दोनों को बाँधे हुए हैं। पर इन दोनों में एक एक प्रधान पात्र भी हैं। सामाजिक अंग पर गायत्री का प्रभुत्व है, और राजनैतिक अंग के विधाता प्रेमशकर हैं।

गायत्री के चरित्र का इजाफे से कोई सबंध नहीं है। वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी को मालकिन अवश्य है।

उसके प्रवच के लिए वह ज्ञानशकर को बुलाती है । परंतु इन बातों का उसके चरित्र से कोई विशेष संबंध नहीं है । उसमें धर्मनिष्ठा है । परंतु साथ ही सुख-भोग की सामग्री भी उसके पास बहुत है । सुमन सधवा थी, उसका पतन समाज की कुरुचि और उसकी दरिद्रता ने किया । गायत्री का पतन उसमें धर्म-निष्ठा होते हुए भी सांसारिक लालसा से होता है ।

‘आँसू की किरकिरी’ में माया (विनोदनी) का पतन दूसरी तरह होता है । रवींद्रनाथजी ने एक ही भाव को लेकर हर पहलू से उसे दिखाया है । माया का लालसामय प्रेम सामाजिक बंधनों को तोड़कर नग्न रूप में अपनी कला के बल से हमें चकित अवश्य कर देता है । पर विचार-पूर्वक देखिए, तो यह हिंदू-समाज के लिए स्वाभाविक नहीं है । गायत्री-का पतन धर्म-जाल की ओट से होता है । उसे नहीं मालूम होता कि वह किधर जा रही है, और जब अकस्मात् उसके सामने पाप का अधकार-मय गढ़ा दिखाई देता है, तो फिर वह समाज को अपना मुँह नहीं दिखाती । हिंदू विधवा का पतन यों ही होना स्वाभाविक है ।

जीवित उदाहरणों को किसी तीर्थ में जाकर देखिये । जिस धर्म के नाम पर व्यभिचार होता है, उसके सजीव प्रतिबिंब गायत्री और ज्ञानशकर के चित्र में हैं । सुमन का उद्धार करना आवश्यक था, नहीं तो सेवासदन का विकास ही न होता । गायत्री के उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं थी,

इसी लिए लेखक ने उसे चार सतरो के अदर अनत विस्मृति में विलीन कर देना ही ठीक समझा । ज्ञानशकर के लिए भी ऐसा ही अत होना जरूरी था ।

उपन्यास का वह अग अधिरू करुणामय है, जिसमें लखनपुर की गाथा है । इस अश के प्रधान पात्र प्रेमशकर हैं । यदि पश्चिमी शिक्षा का एक फल ज्ञानशकर की ऐश्वर्य-लोलुपता में है, तो दूसरा फल प्रेमशकर की निष्काम जाति-सेवा में है । जिस समुद्र में हलाहल विष है, उसमें अमृत भी है । प्रेमशकर उस शिक्षा के अमृत रूपी फल हैं । कुछ मित्रों का खयाल है कि प्रेमशकर में गांधीजी की छाया है । हम लेखक के मन की थाह लेने का साहस तो नहीं कर सकते, रशिया के महर्षि टाल्स्टाय से क्यों न तुलना कीजिए ।

ज्ञानशकर चाहते हैं कि प्रेमशकर को गाँव का आधा हिस्सा न देना पड़े । इसके लिए क्या क्या जाल रचे, सुधा को कहीं तक भरा, विरादरी को रुहाँ तक उभाडा । परंतु प्रेमशकर अमरीका से और ही पाठ सीख आये हैं । उन्हें साम्य-वादियों के मतानुसार एक आदर्श कृषक-संस्था तैयार करनी थी, गाँव को तिलाजलि दे दी, और जाति-सेवा में लीन होगये । श्रद्धा छूट गई, उसका उन्हे समय समय पर शोक होता है । भाई ने विगाड़ होगया, इसके लिए भी उनकी आत्मा को ड़ेग होता है । पर वह अपने कर्तव्य से विचलित

नहीं होते । इसी लिए लेखक ने भी भविष्य को बागडोर को उनके हाथ से नहीं जाने दिया ।

प्रेमशकर हाजीपुर का एक साम्प्रदायी गाँव बना देते हैं, लखनपुर का उद्धार करते हैं, और आयाशकर को आदर्श-जिमीन्दार का पद देने में सफल होते हैं । प्रेमशकर के ससर्ग में जो पात्र आया, उसी को उन्होंने पवित्र कर दिया । उद्दह मनोहर, स्वार्थी ज्ञानशकर, और लालसामयी गायत्री इस योग्य नहीं थे, इसी लिए लेखक ने इनका अंत ही कर दिया । सुक्ख चौधरी वैरागी होगया, ज्वालासिंह डिप्ही-कलक्टरी छोड़कर जाति-सेवा में रत हुए, डाक्टर ईफानिअली ने वकालत छोड़ दी, और डा० प्रियानाथ एक सर्व-प्रिय डाक्टर होगये, यहाँ तक कि पतित दयाशकर का भी उन्होंने अपनी सुश्रूपा से उद्धार कर दिया । प्रेमशकर का जीवन एक प्रकार श्रद्धा के बिना अपूर्ण-सा था, सो श्रद्धा और प्रेम का ज्वाला-द्वारा सम्मिलन भी होगया ।

और भी पात्र हैं । गाँव के अत्याचारी अँगरेज नहीं हैं, मनोहर और सुक्ख को गौसखाँ तथा साहबों के अहलकारों से ही शिकायत है । ज्वालासिंह न्याय करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु धोखा खाते हैं, और इस्तीफा देना पडता है । गौसखाँ का भी वही अंत हुआ जो अत्याचारी जिलेदारों का होता है । मनोहर की उद्दहता का भी फल उसे मिल गया । सुक्ख का मनोहर के खेतों की बड़ी लालसा थी, परन्तु गाँव पर विपत्ति आने पर वह उनका नेता होगया । कादिरमियाँ गाँव के सच्चं

सेवरु बने रहे । दुखरन भगत पर विपत्ति का दूसरा ही असर हुआ । निराशा ने उसके हृदय में जन्म भर की सचित शालग्राम के प्रति श्रद्धा उखाड़ कर फेर दी । बलराज गाँव के भविष्य का युवरु है । उसमें जो स्वतंत्रता है, वह किसी में नहीं, क्योंकि उसके पास जो परचा आता है उसमें लिखा है कि रूस में किसानों का राज्य है । यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई, तो वह भविष्य का बोलशेविक होगा । मनोहर की पतिव्रता गृहिणी विलासी इनके झगड़ों को शांति करने का प्रयत्न करती रहती है, पर गाँव में विप्लव उसी के द्वारा होता है । न उस गाँव की द्रौपदी पर गौसुर्याँ का अत्याचार होता, न पिट्टेप की आग इतनी भड़कती । इस विप्लव के शांत होने पर जो बचते हैं, वे उपसहार में भावी गवर्नर हिज एक्सलेंसी गुरदत्त राय चौधरी और भावी जिर्मादार मायाशकर के समय में रामराज्य का सुगम भोग करते हुए दर्शन देते हैं । उपन्यास लेखक के साथ हम भी कहते हैं—“तथास्तु” ।

रुघा-प्रसंग के परे और भी पात्र हैं । राय कमलानन्द का चित्र विशेषकर भावमय है । मालूम नहीं कि यह उपन्यास-लेखक के मस्तिष्क से निकले हैं, या इनकी जोड़ के इस सप्ताह में कोई हैं भी । इनका जीवन सांसारिक विकास में मग्न है । पर इससे इनके पोरुप में कोई फर्क नहीं आता । इनकी भोग-क्रियाएँ इसी लिए थीं कि जीवन की चरम सीमा तक सुगम भोग कर सकें । इनका आत्मबल इतना प्रखर था कि ज्ञानशकर

भी उनके सामने नहीं ठहर सका। परंतु जीवन का आदर्श त्रुटियों से भरा था। ज्ञानशंकर की कुटिलता ने इन्हे भी सच्चा मार्ग दिखा दिया, जिसकी भूलक हमें उपन्यास के अंत में देखने को मिलती है।

विद्या और श्रद्धा के चित्र भी उल्लेख के योग्य हैं। दोनों साधारण हिंदू-रमणियाँ हैं। विद्या के चरित्र में कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि उसके सामने कोई जटिल समस्या ही कभी नहीं आई। और जब उस पर कष्ट पड़ता है, तो लेखक उसे बरदाश्त करने योग्य न समझ कर उसका अंत ही कर देते हैं। कुटिल ज्ञानशंकर की पतिव्रता पत्नी का यही अंत होना था। श्रद्धा के सामने पहले ही से धर्म और प्रेम की समस्या मौजूद है। पर प्रेमशंकर के चरित्र का अंततः उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि धर्म की शृंखलायें ढीली पड़ गईं। लेखक ने श्रद्धा को प्रेम से मिला कर दोनों का जीवन सार्थक कर दिया।

पात्रों का अवलोकन तो घोडा-बहुत हो चुका। अब लेख-शैली पर विचार कीजिए। प्रेमचंदजी की यह पुरानी आदत है कि भाषा हिंदी ही रहती है, पर शब्दों का रूप पात्रानुसार बदलता रहता है। 'सेवासदन' में मुसलमानों की दलील सलीस उर्दू में है, और अँगरेजी पढ़े-लिखे पात्रों की भाषा में अँगरेजी की रिचडी है। 'प्रेमाश्रम' में दिहाती पात्र भी हैं, इसलिए उनके काम में आनेवाले शब्द भी वैसे ही हैं। रिमवत, सरवस, मुदा, मुस-

कत, मूरख, सहर, अचरज, कागद, ये सब दिहातियों के ही शब्द हैं। भाषा सिर्फ़ करतार की बिगड गई है। वह ठेठ गँवार है। और जितने दिहाती हैं, उनकी भाषा में पूर्वोक्त प्रकार के शब्द आने से लालित्य बढ ही गया है। विशुद्ध भाषा के पत्तपाती चाहें नाक-भों सिकोडे, परतु हमारी समझ में इससे कोई हर्ज नहीं, यदि पात्रों की भाषा में शब्द उनके व्यवहार में आने-वाले ही रखे जायँ। व्याकरण की टोंग तोडने के हम भी विरुद्ध हैं। हम यह नहीं चाहते कि बगाली पात्र की भाषा में लिंग की गलतियों की जायँ, और अँगरेज की जवान में तवर्ग के शब्द ही न निकले। पर यदि पात्रानुसार दो-चार शब्दा के गढ देने से उसका अस्तित्व प्रकट या सजीव किया जा सके, तो कोई हानि नहीं। ऐसी दशा में लेखक भाषा को बिगाडने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन शब्दों ने दिहातियों के वार्तालाप को स्वाभाविक बना दिया है, उसमें जान डाल दी है। इनसे भाषा को कोई क्षति नहीं पहुँचती।

प्रेमचंदजी ने लेख-शैली में एक बात और स्वाभाविकता की उत्पन्न कर दी है। पुरानी हिंदी में “इनवर्टेड कामाज” नहीं थे। इतर जग से अँगरेजी का हिंदी पर प्रभाव पडा, फुलस्टाप को छोड़कर और सभी चिट्ठों ने हिंदी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। यह आगतुक “इनवर्टेड कामाज” हिंदी में बहुत चलते थे। लेखक ने इनका बहिष्कार ही कर दिया है। वार्तालाप में पात्रका नाम और उसके वाक्य—बस काम निकल

गया। कोई आंतरिक विचार हुए, या कोई लची बातचीत हुई, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। लेखक और पात्र दोनों एक ही तरंग में एक दूसरे से लड़ते हुए बहते चले जाते हैं।

अब मनोविकार के चित्र तथा विचित्र उपमाएँ देखिए। वे उपन्यास-धारा की तरंगों पर कमल के फूलों या लेखक के अर्पण किये दीपकों की तरह दर्शन देते चल जाते हैं। 'सेवा-सदन' लेखक के खजाने को खाली नहीं कर सका। 'प्रेमाश्रम' की उक्तियाँ वैसी ही नवीन और हृदय-ग्राही हैं, जैसी कि पहले उपन्यास की।

मनोविकार-चित्रण ने लेखक की बात रख ली है। "मानव-चरित्र न त्रिलकुल श्यामल होता है न श्वेत। उसमें दोनों रंगों का विचित्र समिश्रण होता है।" प्रेमशंकर को अपनी जाति-सेवा में आतृ-विद्वेष की भलक मालूम पडती है। ज्ञानशंकर को अतत अपनी स्वार्थपरता का अनुभव होता है। राय कमलानंद को सांसारिक आनंद में रत रहने का प्रसाद भोगना पडता है। सिर्फ विद्या और कादिरमियाँ के चरित्र निर्मल हैं, और यह शायद इसलिए कि लेखक ने उन पर अधिक प्रकाश नहीं डाला। इस चित्रण-कौशल का यह फल है कि किसी पात्र से हम घृणा नहीं करते, और कोई आदर्शमय भी नहीं है। धर्म और अर्थ में हर जगह क्लेश है।

जहाँ इतने गुण दिखाये गये हैं। उपन्यास इतना बड़ा है,

के सिर्फ नवर दिये हुए हैं । यदि हेडिंग भी होते, तो पाठको का अधिक सुभीता रहता । छिट उर्दू के अर्थ तथा दिहाती हिंदी शब्दों के शुद्ध रूप भी दे देना अच्छा होता । प्रफरीडिंग में बहुत कुछ असावधानी से काम लिया गया है, और विशेष कमी यह है कि, आजकल की रीति के अनुसार, इतने बड़े उपन्यास के लिए एक चित्रकार की सहायता भी परम आवश्यक थी।-

हमारे यहाँ अनुवादित उपन्यासों का बाजार गर्म है । हम अँगरेजी, बँगला, मराठी इत्यादि भाषाओं का बहुत-कुछ उधार गाये बैठे हैं । क्या यह संभव नहीं कि यह उपन्यास हिंदी-संसार की तरफ से उन भाषाओं को भी भेंट किया जाय ?*

*आप्टोयर १९२० की 'मातुरी' से उद्धृत ।

१०—रंगभूमि

प्रेमचंदजी के 'रंगभूमि' की इतनी आलोचनाओं के साथ एक और आलोचना क्यों निकले ? घृष्टता के लिए क्षमा-प्रार्थना है। प्रेमचंदजी के अब तक तीन उपन्यास निकल चुके हैं। इसलिए हमें अब 'रंगभूमि' के पात्रों की विशेष व्याख्या नहीं करना है। परंतु उन गहन समस्याओं पर विचार करना है जिन पर लेखक ने औपन्यासिक कला की आड़ में कुछ प्रकाश डाला है। 'रंगभूमि' तक पहुँच कर लेखक की शैली और कला-परिपक्व हो गई है। इस शैली और कला की जाँच करना है। फिर यह भी अनुमान करना है कि आधुनिक साहित्य में और भविष्य के लिए प्रेमचंदजी के उपन्यास कुछ संदेश भी देंगे या यह भी अन्य सामयिक साहित्य की भाँति अपना समय बीतने पर अनंत विस्मृति की गोद में लीन हो जायँगे।

यो तो उपन्यास का उद्देश साफ प्रकट है—

तू रंगभूमि में आया, दिखलाने अपनी माया,
क्यों धरम-नीति को तोड़ै ? भई, क्यों रन से मुँह मोड़ै ?

प्रेमचंदजी बार बार अपने नायक सूरदास के मुँह से जीवन के इस महत्त्वमय रहस्य का उल्लेख करते हैं। परंतु इसके परे एक और समस्या है, जो ससार-मात्र में पारस्परिक

कलह और अशांति का कारण हो रही है। वह है प्रचलित पुतलीघर-प्रणाली का दिहात के नैसर्गिक जीवन पर कोप और दोनो के पारस्परिक विरोध में दिहात का जीवन-विनाश और अधर्म, रोग और दुर्व्यसन का प्रचार।

योरप में यह विरोध समाप्त हो चुका। वहाँ पुतलीघरप्रणाली के सामने दिहाती जीवन का प्राय अंत हो चुका है। अधर्म, रोग और दुर्व्यसन के परिणामों से योरपीय समाज को बचाने के लिए वहाँ का समस्त चिकित्सा-शास्त्र, ईसाई-धर्म तथा साम्यवाद के सिद्धांत अपने अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे हैं। भारत-वर्ष में इस विरोध का प्रारम्भ-मात्र हुआ है। 'रगभूमि' में जान सेवक और सूरदास-द्वारा इस विरोध की व्याख्या की गई है। प्रचलित व्यवसायप्रणाली का यह उद्देश कदापि नहीं है कि सर्वसाधारण को कष्ट हो अथवा उसके द्वारा धर्म तथा ज्ञान का विनाश हो। जान सेवक और उनके व्यवसायी भाई यही आशा करते हैं कि देश में कल कारखानों का प्रचार कर वे उसे समृद्धिशाली और सुखी बना सकेंगे। टेनिसन ने अपने लॉक्सले हॉल (Locksley Hall)* में एक ऐसे व्यावसायिक सगठन का सुप्त-स्वप्न देखा है जो धर्म और अर्थ—दोनों के

* There the common sense of most shall
 Hold a fretful realm in awe,
 And the kindly earth shall slumber, lapt
 In universal law

अनुकूल है। परंतु ऐसा सगठन कवि के स्वप्न-ससार में ही है। उसके इस मृत्युलोक में कहीं दर्शन नहीं हुए हैं।

यह समस्या क्योंकर हल हो ? उपन्यास-लेखक का यह काम नहीं है। उसने इस पर प्रकाश डाल दिया, यही बहुत है। हाँ, समाजसुधारको तथा सपत्तिशास्त्रवेत्ताओं का यह अवश्य काम है। 'प्रेमाश्रम' में जिस आदर्श ग्राम की प्रेमचदजी ने झलक दिखाई है वह यथेष्ट नहीं है। शिल्प, वाणिज्य और व्यवसाय की उन्नति करना देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। जिस पुतलीघर-प्रथा का पश्चिम में चलन है उससे देश समृद्धिशाली अवश्य होते हैं, परंतु वास्तविक सुख का हास होता है। जापान में इस पाशविक प्रथा का ज्वलत परिणाम लोग भुगत रहे हैं। वहाँ का सामाजिक सगठन प्रायः ऐसा ही था जैसा यहाँ है। इस प्रथा ने सामाजिक बंधनों को तोड़ डाला है, जिसके कारण वहाँ सर्वांग अशांति का साम्राज्य है। क्या धर्म और अर्थ, ईश्वर और माया के बीच समझौते की संभावना नहीं है ?

जिस चरखा-प्रणाली का महात्मा गांधी प्रचार कर रहे हैं उसके हृदय में इस अशांति की ओपधि है। यदि इस प्रचार के साथ राजनैतिक विप्लव का सामंजस्य न होता तो शायद गांधीजी की चरखाविषयक प्रस्तावना पर सपत्तिशास्त्रवेत्ताओं का ध्यान आकृष्ट होता और जनता इस प्रस्ताव के वास्तविक प्राणियों को समझ कर दिहात में करघे और चरखे चला कर

दिहातियों को कल-कारखानों की हवा से दूर रखती। यदि सरकार और समाज दोनो चाहें तो इस समस्या को हल करने का यों प्रयत्न कर सकते हैं — कारखानो के बनाने की तब तक आज्ञा न दी जाय जब तक मजदूरों को सपरिवार बसाने का कारखानेवाले प्रबन्ध न कर सकें। बाहर से आये हुए माल पर इतना कर लगाया जाय और दिहातियों को अपने घर के बने हुए कपडे को इतनी सहायता दी जाय कि यह कपडे कारखानों के कपडे से सस्ते पडें।

दूसरी समस्या जिसका सबन्ध मनोविज्ञान से है, हमे विनय और सोफी के चरित्र-चित्रण से मिलती है। मनुष्य और स्त्री की प्रेमभावना में क्या अन्तर है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य का प्रेमोपासना-मार्ग आदर्श प्रेम के आकाश से लालसा के पाताल तक है, और स्त्री का उससे उलटा, लालसा के पाताल से आदर्श प्रेम के आकाश तक। यदि ऐसा है तो चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता का अर्थ अवश्य है। विनय में जो कुछ देश-सेवा का अंकुर है वह उसकी माता जादवी की कृपा से। सोफी के प्रेमपाश में फँस कर उसमें अधर्मता आ जाती है। विनय आदर्श प्रेम से गिर कर इन्द्रिय-भोग की लालसा में अपनी आत्मा को हानि पहुँचाता है। सोफी का दूसरा हाल है। वह आदर्शवादिनी है। यों तो वह अक्लमाल है। परन्तु विनय के प्रति अकुरित प्रेम उसे कर्मग्रीवांगना बना देता है। उपन्यास के दूसरे भाग में उसी का राज्य है।

‘प्रेमाश्रम’ और ‘सेवासदन’ में गायत्री और सुमन के चरित्र में भेद यही है कि गायत्री आदर्श भक्ति के आकाश से गिर कर लालसा की कदर में गिरती है। पर सुमन इसे पार कर सेवा-मार्ग के आदर्श तक पहुँच जाती है। परिस्थितियों के भेद चरित्रों को रंग-विरंगे भावों में प्रदर्शित करते हैं। परन्तु इतना अनुमान किया जा सकता है कि प्रेमचंदजी ने भारतीय स्त्रीत्व तथा मनुष्यत्व का वास्तविक चित्र खींचा है। मनुष्य लालसा और लोभ के वश तो कर्मण्य रहते हैं, पर आदर्श उन्हें अकर्मण्य और आलसी ही कर देता है। स्त्रियाँ भी लालसा और लोभ के पाश में फँस जाती हैं, पर अपना धर्म नहीं खोतीं और मनुष्य की भाँति कठिन समस्या आ पडने पर अकर्मण्य नहीं हो जातीं।

हम पहले कहीं कह चुके हैं कि प्रेमचंदजी दिहाती जीवन का करुणामय चित्र खींचने में दक्ष हैं। यदि उनके तीनों उपन्यासों—सेवासदन, प्रेमाश्रम और रगभूमि—पर दृष्टि डाली जाय तो हम यह देर सकते हैं कि प्रेमचंदजी का प्रेम शहर से दिहात की ओर झुकता जा रहा है। ‘सेवासदन’ काशी की गदी गलियों और दालमडी की दूषित वायु से घिरा हुआ है। कहीं अत में गंगा पार कर हमें सेवासदन के नैसर्गिक ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है।

‘प्रेमाश्रम’ में प्रेमचंदजी ने ‘सेवासदन’ की भाँति एक आदर्श ग्राम की सृष्टि की है। पर साथ ही वास्तविक लखनपुर

की भी पूरी व्याख्या की है। 'रंगभूमि' का पाँडेपुर 'प्रेमाश्रम' का लगनपुर है। वही साधारणतः लोभ और पारस्परिक कलह, पर कष्ट के समय नि स्वार्थ सेवा और पारस्परिक सहानुभूति। 'प्रेमाश्रम' में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इस भारतीय ग्राम को हम क्योंकर जिम्मीदार-द्वारा आदर्शमय बना सकते हैं, और 'रंगभूमि' में वह हृदयविदारक दृश्य है जिसका अभिनय समस्त ससार में हो रहा है। कल और कारखाने क्यों कर इस ग्राम का विनाश करते हैं और उसके साथ ही अधर्म का प्रचार बढ़ाते हैं, इसकी सूरदास ने कारखाने बनने की प्रस्तावना पर पहले से ही सूचना दे दी थी। "सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मुहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जायगी, रोजगारी लोगों का फायदा भी खूब होगा। लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी, वहाँ ताड़ी-शराब का भी तो प्रचार बढ़ जायगा, कुसबियाँ भी आकर बस जायँगी, परदेशी आदमी हमारी बहू-बेटियाँ भी घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। दिहात के किसान अपना काम छोड़ कर मजूरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुर्ग बुर्गी पाव सीखेंगे और अपने दुरे आचरण अपने गाँवों में फैलायेंगे, शिक्षाओं की लड़कियाँ-बहुएँ मजूरी करने आयेंगी, और यहाँ धर्म के लोभ में अपना धरम विगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है। वही रौनक यहाँ हो जायगी।" बजरगी और जगमग के सकारण मिट गये, सूरदास को भोपड़ा के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। परंतु यह दृश्य उतने कष्टमय नहीं हैं जितना कि वह जिम्मों

दिहात के नवयुवक घासू और विद्याधर का नैतिक पतन होता है। ठीक ही है “धन का देवता बिना आत्मा का वलिदान पाये प्रसन्न नहीं होता”। ‘प्रेमाश्रम’ में वास्तविक ग्राम और आदर्श ग्राम की तुलना की गई है। इस उपन्यास पर दिहात के जीवन का ही साम्राज्य है। नायक और नायिकायें शहर के हैं, पर वे दिहात ही पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। ‘रगभूमि’ में दिहाती जीवन के विनाश का करुणामय दृश्य है। विस्तार के कारण इसका क्षेत्र काशी से उदयपुर तक है। बहुत से पात्र हैं, देशी और विदेशी, दिहाती और शहरिए, पर नायक सूरदास है और उसके ही चरित्र में दिहात के जीवन का चित्र है। दिहातियों की सरलता, उनकी धर्मभीरुता, उनका साहस, उनकी सहनशक्ति, उनकी अपरिवर्तनमय प्रकृति, उनके धरलू भगडे, उनकी सगठन और नेतृत्व-शक्ति—इन सब रंगों का सूरदास के चित्र में कौशलपूर्ण समिश्रण है।

‘सेवासदन’ में दिहात के उदय, ‘प्रेमाश्रम’ में उसके मध्याह्न और ‘रगभूमि’ में उसके अस्त होने का दृश्य है। प्रथम उपन्यास में आशा, दूसरे में आशा और निराशा दोनों का मेल, और तीसरे में अधकार और निराशा। हमारे जीवन-स्रोत में—और उपन्यास-लेखक के जीवन-स्रोत में भी—यों ही भावों का परिवर्तन होता रहता है। यदि यह सच है तो इन उपन्यासों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन किसके पश्चात् लिखे गये हैं। ‘रगभूमि’ में करुण की पराकाष्ठा है।

जहाँ कहीं हास्य है वह भी करुण-रस की शोभा बढ़ाने के लिए। उदाहरणार्थ विनय को माता का पत्र मिला। आशय यह था कि तुम कर्तव्यविमुख होगये हो, मैं तुम्हारा रुख नहीं देखना चाहती। विनय को अपनी माता की आदर्शवादिता पर गर्व हुआ, मन में कहने लगा, देवी, मैं स्वयं अपने को तुम्हारा पुत्र कहते हुए लज्जित हूँ। संभव है अंतिम समय तुम्हारा पवित्र आशीर्वाद पा जाऊँ। विनय ने बाहर की तरफ देखा। सूर्यदेव किसी लज्जित प्राणी की भाँति अपना काँतिहीन मुख पर्वतों की आड में छिपा चुके थे। नायकराम पल्थी मारे भाँग घोट रहे थे। यह काम वह सेवकों से नहीं लेते थे। कहते कि यह भी एक विद्या है, कोई हृत्दी-मसाला तो है नहीं कि जो चाहे, पीस दे। इसमें बुद्धि खर्च करनी पडती है, तब जाकर बूटी बनती है।

प्रेमचदजी के चरित्र चित्रण में एक दोष है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आपको जब पात्रों की आवश्यकता नहीं रहती, जब उनमें रग भरते-भरते आप थक जाते हैं तब भट उनका गला घोट डालते हैं। 'सेवासदन' में कृष्णचंद्र नदी में डूब कर आत्म-हत्या करता है, 'प्रेमाश्रम' में गायत्री पहाड़ से गिर कर जान देती है और 'रगभूमि' में विनय पित्तौल-द्वारा अपनी हत्या करता है।

हमें यह ढग दोषपूर्ण मालूम होता है। कुछ दार्शनिकों ने आत्महत्या की सिफारिश की है। कवि भी कभी कभी दुःख

से छुटकारा पाने के लिए अपने पात्रों को आत्महत्या की शरण देते हैं। पर आत्महत्या का नीति तथा धर्मशास्त्र दोनों में निषेध है। और धर्म और नीति देने का अवहेलना करना न कवि के लिए योग्य है, न उपन्यास-लेखक के लिए। उपन्यास-लेखक को भी कवि की भाँति अपनी कला में निरकुशता का अधिकार प्राप्त है। पर इतना नहीं कि जिस कर्म का शास्त्र तथा नीति में निषेध हो उसका लेखक-द्वारा सम्मान किया जाय। जहाँ तक हमारा अनुमान है, प्राचीन ग्रंथकारों ने इस प्रकार शास्त्रीय आज्ञाओं की अवहेलना नहीं की है।

परन्तु इतना होते हुए भी प्रेमचंदजी के उपन्यासों का महत्त्व कम नहीं होता। हम हेमचंद्रजी जोशी की प्रेमचंद-प्रति आलोचनाओं से सहमत नहीं हैं। यह उपन्यास क्षणभंगुर नहीं हैं। हिंदी के दुर्भाग्य से इनका अनुवाद अभी तक किसी पश्चिमी भाषा में नहीं हुआ है। यदि कभी हो, और योरप के पश्चिमीय विद्वान् प्रेमचंद की रवींद्रनाथ ठाकुर और टाल्स्टाय से तुलना करें तब हम भी समझने लगेंगे कि यह उपन्यास भी कुछ महत्त्व रखते हैं। प्रेमचंद का यथासमय भारतीय साहित्य में वही सम्मान होगा जो डिक्सेस और टाल्स्टाय को योरपीय साहित्य में प्राप्त है। भारत का हृदय कलकत्ते की गलियों में नहीं है, न वह शिक्षित बंगालियों की अट्टालिकाओं में है। उसका हृदय दिहात में है, किसानों के दूटे-फूटे भोपड़ों में है। हरे-भरे खेतों को देखकर उसे शांति

पहुँचती है। अनावृष्टि से वह सूख जाता है। उस हृदय का मार्मिक चित्र जिसने रचा है वह देश भर का धन्यवादपात्र है। अभी भारतीय किसानों में शिक्षा का अभाव है। अभी उन्हें नहीं मालूम है कि किस उन्हीं को से सरल-प्रकृति अस्वस्थ व्यक्ति ने शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ भेलते हुए उनके दु खों और आशाओं की कथा कही है। जब वे शिक्षित हो जायेंगे, जब उनकी आँखें खुलेंगी, और अपने पूर्वजों का चित्र जब वे इन उपन्यासों में देखेंगे, तब इनके विधाता की पूजा होगी। हाँ, अभी कुछ समय तक नहीं।



११—छड़ी*

रोगियो को बात जाने दीजिए। रसिक लोग जब पहाड़ों की सैर करने जाते हैं तो तरह तरह के तोहफे मित्रों के लिए लाते हैं। मेरे भी एक मित्र मसूरी सैर करने गये। आपको वहाँ छड़ियाँ ही पसंद आई। फिर क्या था, दो दर्जन बाँध लाये। घर पहुँचे, मित्रो ने घेरा, बात ही बात में सब छड़ियाँ बँट गईं। एक छड़ी मेरे भी हिस्से में आई। मैं पहले ही पहुँच गया था। छोट कर एक बढिया मूठ की ऐसी स्टिक निकाली जो यहाँ किसी दुकान पर डेढ दो रुपये से कम में न मिलती, परतु ढेर का ढेर आगे लगा देखकर मुझको एक हँसी सूझी। “क्या ये छड़ियाँ मसूरी जानेवालों को मुफ्त बँटती हैं ?” मित्रवर बडे हाजिरजवाब थे बोले “जी नहीं। जानेवालो को तो नहीं, लेकिन उनके दोस्तों को जरूर योंही बँटती हैं।” मैंने जवाब दे और छड़ी लेकर हँसते हुए घर की राह ली।

अभी तक इनका नाम नहीं बताया है न बताऊँगा। क्या करूँ, छड़ी की कहानी लिखने की अनुमति उन्हें देने इसी शर्त पर दी कि न मैं उनका नाम लिखूँ, न उनके उस मुँह-लगे मित्र का जिसके कारण छड़ी का एक छोटा-सा गल्प बन गया है। अत

*इस कहानी में जोजफ ऐडिमन की शैली के अनुकरण करने की चेष्टा की गई है। Adventures of a shilling में तुलना कीजिए।

पाठक कल्पित नाम से सतुष्ट रहें। मसूरीवाले महाशय का नाम 'राजा' है और उनके मुँहलगे दोस्त हैं "मुन्नू"।

राजा ने और सब छड़ियाँ तो बाँट दीं, पर एक छड़ी किसी को न दी। इसको उन्होंने मसूरी पहुँचते ही खरोदा था। आप इस पर कुछ ऐसे प्रसन्न हुए कि जत्र से यह उनके हाथ लगी, तब से हमेशा उनके साथ रहने लगी। इसने मसूरी की सैर की और कैंपटी फाल्स के पास उनकी हड्डियों को चूर चूर होने से बचाया। इसलिए उनका प्रेम इस पर कुछ और बढ़ गया था। घर पहुँचने पर यह छड़ी अलग रख ली गई। मुन्नू महाशय के सामने बैठनेवाली छड़ियों का ढेर लगा था, पर वह उसी अलग रखी हुई छड़ी पर रींके। आपने कहा कि मैं तो यही लूँगा। राजा ने एक छड़ी की जगह दो, तीन, तक दीं। परतु मुन्नू जत्र मचलते हैं, तब किसी की नहीं सुनते। राजा भी अड गये "न लो, मैं यह छड़ी नहीं देने का।" मुन्नू ने व्यग्यमय "बहुत अच्छा" कहकर भगडा खतम किया, फिर छड़ी न माँगी।

इस घटना को हुए कोई दो वर्ष होगये। छड़ी हमेशा राजा के साथ रही। आपके घर में काफी रुपया है, जर्मींदारी है। पढे-लिखे भी हैं। नई जपानी में आपने कविताएँ भी कीं। अब कुछ समय से आपको देश-सेवा और भ्रमण का शौक है। जहाँ कोई बड़ी सार्वजनिक सभा होती है, आप जरूर पहुँचते हैं। छड़ी को आप कभी छोड़ते न थे। यदि छड़ी के दिमाग होता तो वह विदुषी हो गई होती। उसने रोलटविल पर शास्त्रीजी की

वहस सुनी । दिल्ली-स्टेशन के सामने जनता-सागर के किनारे वह भी अपने प्रियतम के साथ खड़ी थी । हटरकमेटी के सदस्यों को भी उसके दर्शन हुए । आप बड़े गौरव के साथ कहते थे कि प्रश्न तो वे मुझसे करते थे, परंतु उनकी नजर मनोमोहनी छड़ी ही पर थी । अमृतसर-कांग्रेस की कीचड़ में उसकी हालत खराब हो गई थी । पर दूसरी बार जब मैंने राजा को बर्बई में देखा तब उसकी आभा पहले से भी अधिक हो गई थी । उस पर बहुत उम्दा वार्निश चढ़ गया था, और चाँदी की फैंसी मूठ भी लग गई थी । नागपुर-कांग्रेस ऐसे असहयोगी समाज में भी इसकी इज्जत बनी रही । कलकत्ते तक मैंने मलाकाछड़ियों के मुकाबले वह उनके साथ रही ।

परंतु इधर करीब एक महीने से मैंने उनके हाथ में छड़ी नहीं देखी । बिना छड़ी के उनकी चाल कुछ अडवगी-सी मालूम होती थी । एक दिन रास्ते में मिले, वहाँ कुछ व्यग्य सृभा, पृष्ठा, “आपकी विलायती अर्धा गिनी आज-कल कहाँ हैं ?” कुछ फिक्र और जल्दी में थे । सिर्फ इतना कहकर चलते हुए कि छड़ी को पृष्ठते हो, वह तो पटने में रो गई ।

एक रोज बेवक्त मैं राजा के घर पहुँचा, सीधा कमरे में धुस गया । आप बैठे एक पत्र हँसते हुए पढ़ रहे थे । मैंने कहा—“मैं भी शामिल हो सकता हूँ ?” राजा ने पत्र मेरे हाथ में देकर कहा—“यह न समझना कि मेरी किसी बोलती-चालती प्रणयिनी का पत्र है ।” पाठकों के मनोरजनार्थ पत्र ज्यों

का त्यों उद्धृत करता हूँ । सिर्फ जाह और नाम बदल दिये गये हैं ।

कानपुर,

ता० १ अप्रैल, १९२१

प्रियतम,

एक महीने से अधिक तुमसे वियोग हुए हो गया । तुमने मेरी सुधि तक न ली । और लेते ही क्यों । तुम जितना मुझ पर प्रेम प्रकट करते थे वह मित्रों को दिखाने ही के लिये था जिससे मैं तुम्हारे साथ से अलग न होऊँ । परतु यह मैं क्यों कर मानूँ । यदि किसी से मुझको डाह हो सकती थी तो श्रीमतीजी से, क्योंकि मसूरी से आई हुई मेरी तमाम सगनियों का तुम अपने मित्रों को बाँट चुके थे । मैं अकेली रह गई थी । मैं जड़ हूँ और श्रीमतीजी चैतन्य हैं । परतु मुझ पर तुम्हारा अनुराग देखकर वह मुझसे कुछा करती थीं । क्या आपने कभी श्रीमतीजी को भी घर से बाहर जाने की आज्ञा दी ? सोचती हूँ और अत मैं यही समझ में आता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो । यदि यह भेद न रखते, तो शायद श्रीमतीजी भी किसी ट्रिप में खो जातीं । मेरे लिए क्या, यदि आज मैं खो गई तो कल तुमको मेरी ऐसी सैकड़ों मिल जायँगी । जेब मैं सिर्फ दाम होना चाहिए ।

परतु दु स यह है कि तुमने मेरे लिए कुछ भी प्रयत्न न किया । त्रेतायुग में जब सीताजी को रावण हर ले गया

था, उस समय न रेल थी न तारघर था, परन्तु राम ने उनके लिए आकाश-पाताल छान डाले और अत में रावण को मार कर ही उन्हें सतोष हुआ। मेरी और सीता की कौन समता? परन्तु क्या तुम एक तार तक न दे सकते थे? क्या पुलिस को इत्तिला भी न कर सकते थे? नहीं तो दुष्ट मुन्नू—उसकी नजर मुझ पर जब से मैं तुम्हारे यहाँ आई, तभी से थी—के पाले मैं क्यों पडती। मेरा हृदय तो तब ठडा होता जब वह पडा पडा जेलखाने में सडता, और मैं फिर तुम्हारे साथ पहाड, नदी और समुद्र की सैर करती, और सभाओं में उच्च आसनो पर तुम्हारी बगल में बैठकर महात्मा गांधी और महर्षि मालवीय की वक्तूताएँ सुनती।

जब से इस निर्दयी के पाले पडी हूँ, मुझे बडा कष्ट है। मेरी बडी दुर्गति होगई है। हाय, वह दुःख मैं कैसे प्रकट करूँ—गिरा अनयन नयन विनु बानी। तुम एक तो हलके शरीर के हो, और फिर तुम्हे मेरी कमर का हमेशा खयाल रहता था कि कहीं वह टेढ़ी न हो जाय, और जो कभी मेरा सहारा लेकर खडे भी होते थे तो थोडा सा लचने में मुझे विशेष आनद ही मिलता था। परन्तु यह पेढू ब्राह्मण तीन मन से कम न होगा। एक तो रास्ते में मुझे ठुकरावा हुआ चलता था, जिसके कारण मेरा तमाम शरीर बहुत शीघ्र छिल गया। दूसरे, जब कभी मेरे कंधे पर सहारा देकर खडा होकर मित्रों से बातें करने लगता था तब मेरी कमर तो टूटने-सी लगती थी।

मित्रों को तरस आ जाता था कहते थे कि क्या कुछ दाम नहीं खर्च हैं जो इसकी ऐसी खराबी कर दी है । दुष्ट हँसता था “समय सब नाहि बराबर जात—किसी समय इसकी अच्छी हालत थी, अब पुरानी हो गई है । कुछ दिन में जब विलकुल बेकार हो जायगो तब इसके मालिक को लौटा दूँगा ।”

यों ही दिन भर तो कानपुर की गद्दी सड़को पर मुझे रगड़ता था । शाम को उसके घर पहुँच कर आशा करती थी कि अब चैन की नींद सोऊँगी परंतु मुझे तब भी शांति नहीं मिलती थी । सीधा रसोईघर पहुँच कर मुझे एक कोने में डाल देता था और स्वयं भोजन करने बैठ जाता था । उसकी स्त्री की कभी कभी मुझ पर नजर पड़ जाती थी तो वह तुम्हारी चोमकुशल का हाल पृछने लगती थी । यह क्या कम उसका मुझ पर एहसान है कि यो तुम्हारा शुभ नाम सुन लेती थी । परंतु मुन्न् जिन् आने पर बुराई ही करता था, कहता था—तुम कहती हो कि बडा समझदार है, होगा, परंतु है मतलबी । यदि मेरी इसकी ऐसी—मेरी तरफ इशारा करके—कोई चीज खो जाती तो मैं आकाश-पाताल एक कर देता, तुम्हें तक निछावर कर देता, परंतु उसे दाय से न जाने देता । ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा हृदय और भी जला करता था ।

अब मैं अपनी अंतिम दशा का हाल क्या कहूँ । दिन भर ठोकरें खाते खाते और रात भर उसके कमरे में पडे पडे बहुत कमजोर होगई थी । एक दिन एक इक्केवाले से तकरार हुई,

यदि क्रोध आया था तो अपना हाथ ही दे मारता । परतु उसको अपने हाथ का मेरी कमर से ज्यादा खयाल था । बस भरपूर ताकत से उसने मुझको उठाकर इक्केवाले की पीठ पर पटक दिया । फिर क्या हुआ, इसका मुझे होश नहीं । जब होश आया तब देखा कि उसी कमरे में पडो हूँ, मेरी कमर टूट गई है, किसी ने उसको यत्न से बाँध दिया है, जिससे मेरा कष्ट कम होगया है, परतु अब मैं किसी काम की नहीं रह गई हूँ । अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम आकर मुझे ले जाओ । मैं यही चाहती हूँ कि मेरी अंतिम क्रिया तुम्हारे ही हाथ से हो ।

तुम्हारी—

छडी

मैंने आद्योपात्त पत्र पढा और फिर पढा । पत्र क्या था, गद्य में लवी-सी एक कविता थी । मैंने आप ही आप कहा— वाह मुन्दू ! तुम कवि कब से हुए ? तुम्हारी प्रतिभा अब चमकी । अब तक तुम्हें कोई टके को भी नहीं पूछता था । परतु अब गल्प लिखकर अपना पेट खूब भर सकोगे । राजा को उत्तर ही की धुन थी । बोले “भाई कोई समय था जब मैं कविता कर सकता था, गल्प भी लिख सकता था, परतु अब तो दिमाग मे राजनीति, असहयोग, इतिहास इत्यादि नौरस विषय भरे हुए हैं । कुछ तुम्हीं सहायता करो । इस नवीन कवि

को तो मुँह-तोड उत्तर भेजना है। मैंने सोचा कि अपनी भी वही हालत है। दिमाग में अकबर-जहाँगीर से लेकर माटिग्यू-चैम्सफोर्ड तक मुर्दे या जिदा नौरस कूटनीतिज्ञ ही भरे पडे हैं, या लडकों के परीक्षा-पत्र। यहाँ भी सरसता से कोई सबध नहीं। उत्तर दिया “दो एक दिन ठहर जाओ, कुछ तैयारी मैं भी कर लूँ।”

घर आया। गर्द विभूषित उपन्यासों और काव्यों की और फिर दृष्टि दौड़ाई। दो एक को उलट पुलट कर पढा। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। सोचा इस नये कवि के लिए इतना ही यथेष्ट है।

अवकाश मिलने पर राजा के घर पहुँचा। कवियों और उनकी कविताओं, गल्पलेखकों और उनकी कल्पनाओं पर बहस होती रही। अत में मैंने कालिदास के मेघदूत का जिक्र किया। वस राजा की कल्पना-शक्ति जाग उठी। बोले, “अब तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मजमून बँध गया। कल सबेरे आकर देर जाना, तब पत्र भेजूँगा।”

पत्र लिख गया। राजा ने उसको होशियारी के साथ बरस में बद कर कुजी अपनी टेंट में की, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर श्रीमतीजी की नजर पड जाय और वह कुछ और का और समझें। प्रात काल पत्र मुझे मिला। उसको भी अन्तरश लीजिए—

लखनऊ,

८ अप्रैल, १९२२

प्रिये,

तुम्हारे वियोग की अग्नि यहाँ भी मुझे जला रही थी एक महीने के भीतर तुम्हारे विरह के शोक में घुलते घुलते आघ रह गया हूँ। रास्ता चलते लोग मुझको टोकते हैं। मेरी चेम कुशल पूछते हैं और तुम्हारी याद दिलाते हैं। मैं उन्हें क्या उत्तर दूँ ? मुझे क्या मालूम था कि तुम छलिया मुन्नु के पास हो। नहीं तो जो दुर्गति तुम्हारी हुई है, वही हम उसकी करते।

तुम्हारे आँसुओं से लिखे हुए पत्र को पढ़कर मेरी अश्रुधारा भी बह चली, वियोगाग्नि धधक उठी। प्रिये, मैं अपना प्रेम तुम पर कैसे प्रकट करूँ। तुमने मुझ पर भी व्यग्य कसा है, परतु मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब से तुम मुझसे अलग हुई, तब से, लोग कहते हैं, बाजार में तुम्हारी ऐसी बहुत हैं, परतु मैंने किसी की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। चाहे दिन हो या रात, आकाश स्वच्छ हो या पानी बरस रहा हो, मैं अकेला ही जाता हूँ। तुम्हारी उस सहायता को कभी न भूलूँगा, जो तुमने मुझे कैंपटी फाल्स के पास दी थी। यदि मैं दशरथ होता तो आवश्यकता के समय माँगने के लिए कोई वचन दे देता। परतु यह मैं भी कर सकता हूँ कि तुम्हारे ही हाथ से मुन्नु को दुरुस्त कराऊँ। वस तुम्हारी आज्ञा भर की देर है।

तुम्हारा पत्र मुझे भीगा हुआ मिला । तुम्हारे आँसू तो पत्र लिखते ही लिखते सूख गये होंगे, सिर्फ़ उनकी महक बाकी थी । उसकी तरावट उस कुसमय मेघ की ही होगी जो तुम्हारे पत्र को प्रेरित करके मेरी टेबिल पटल पर छोड़ गया है । विरही यत्न ने मेघ ही द्वारा अपनी प्रणयिनी को सदेशा भेजा था । सो मौका तुम्हीं को मिला । अब आकाश स्वच्छ है । कोई मेघ नहीं दिखाई देता । वसत की सुगंधि से लदी हुई वायु मेरे झरोखे से होती हुई दक्षिण की ओर जा रही है । लो यह पत्र मैं वसत ही के हाथ भेजता हूँ । वसत । जाओ, यहाँ से कानपुर तक निष्कटक मार्ग है । तुम्हें कालिदास के मेघ की भाँति मार्ग में न कोई पहाड़ मिलेगा, न नद, न कोई नगर । खेत ही खेत मिलेंगे । कोई समाधि लगाये हुए शकर भी नहीं मिलेंगे । यों ही सब तुम्हारे मोह में फँसे हुए हैं । लखनऊ की हद तक और रास कर छावनी में तुमको, कलियुगी देवी और देवता मिलेंगे । पर उनके वाद गंगा के किनारे तक तुम्हें मृत्युलोक के जर्जर नर-नारी ही दिखाई देंगे । गंगापार करने में तुम्हें कोई कठिनाई न होगी । अब उनकी वह महिमा नहीं रही है जो उनके पुराने उपासकों ने गाई है । अब तो यह डर है कि तुम कहीं उस बालुकामय मैदान में भ्रूलस न जाओ । कानपुर में प्रणयिनी के घर तक पहुँचने में भी तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ भेलनी पड़ेंगी । कलियुगी कारखानों के धुआँ से बच कर जाना । सड़क से न जाना । वहाँ मोटरों की दुर्गंधि से तुम कदापि न

बच सकोगे । गलियाँ फिर गनीमत । एक ऐसी ही गली में पहुँचने पर एक अँधेरे कमरे के कोने में पड़ी हुई मेरी प्रणयिन रो रही होगी, अपने ठंडे वायु से उसके हृदय को शीतल करना । यह पत्र देना और सदेशा कहना कि बहुत शीघ्र मैं तुम्हें आकर ले जाऊँगा, या मुन्नू को ही यह सजा दूँगा कि वह तुम्हें रचा-पूर्वक मेरे पास तक पहुँचा दे ।

तुम्हारा—

राज

पत्र पढ़कर मैंने कहा कि वाह राजा ! तुम तो द्वितीय कालिदास होगये । मैं कुछ अपनी तारीफ भी चाहता था । राजा खुश हुए “यह उपाधि तुम्हारे ही योग्य है । तुम्हें तो कुछ और नहीं लिखना है; फिर मैं लिफाफा बंद करूँ ?” मैं मुन्नू को एक छोटा-सा नोट लिख दिया—कहो कुछ बढक जवाब रहा न ? छड़ी लेकर आओ, तुम्हारे पेट की दाव रही । लिफाफे पर लिखा गया—

श्रीमती छडो देवी

c/o मुन्नू मिश्र

अमुक मोहाल,

कानपुर

चार दिन बाद मुन्नू महाशय का पत्र आया । “तुम्हारे पत्र ने तो घर को कोप-भवन बना दिया । कहा उसका कुछ अश तुम्हारी भाभी महाशया को मालूम होगया । तब से मुझ पर

रूठी हैं। आजकल उनका सुदर मुसंडा देखते ही बनता। पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। सबमुच दावत की शरयकता थी। छडी लेकर आता हूँ।”

राजा के घर आज छोटा-सा उत्सव है। श्रीमतीजी दौड़ कर सामान जुटा रही हैं। भोजन तीन ही मित्रों के लिए परतु मुन्तू कहता है कि एक दर्जन के लिए प्रबध करो कि एक में दस राजाओं के बराबर हूँ। भोजन परोसा। छडी सामने रखी गई। मैंने कहा, “छडी देवी के पूण उतार लो, और चूल्हे में इनकी अतिम क्रिया कर दो।, भाभीजी कितनी खुश हैं। आज राजा की ओर से उन्हें प हुआ है।” भोजन करते करते मैंने मुन्तू से कहा छडी ने तो एक गल्प बना दिया। बोले—“तो प्रकाशित दो। नाम हमारा, और काम तुम्हारा।” मैंने राजा की देखा। पहले तो वह राजी न हुए। परतु मुन्तू को अपनी के प्रकाशित कराने की बडी इच्छा थी। इसलिए मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। यह कहानी स्वीकृति का परिणाम है।

